

ॐ

मुण्डकोपनिषद्

सानुवाद शाङ्करभाष्यसहित



प्रकाशक—

गीताप्रेस, गोरखपुर

मुद्रक तथा प्रकाशक
धनश्यामदास जालान,
गीता प्रेस, गोरखपुर

सं० १९९२ प्रथम संस्करण ३२५०

सं० १९९३ द्वितीय संस्करण ४०००

मूल्य (₹) मात आना

निवेदन



मुण्डकोपनिषद् अथर्ववेदके मन्त्रभागके अन्तर्गत हैं। इसमें तीन मुण्डक हैं और एक-एक मुण्डकके दो-दो ग्वण्ड हैं। ग्रन्थके आरम्भमें ग्रन्थोक्त विद्याकी आचार्यपरम्परा दी गयी है। वहाँ बतलाया है कि यह विद्या ब्रह्माजीमें अथर्वाको प्राप्त हुई। और अथर्वासे क्रमशः अङ्गी और भारद्वाजके द्वारा अङ्गिराको प्राप्त हुई। उन अङ्गिरा मुनिके पास महागृहस्थ शौनकने विधिवत् आकर पृछा कि 'भगवन् ! ऐसी कौन-सी वस्तु है जिस एकके जान लेनेपर सब कुछ जान लिया जाता है ?' महर्षि शौनकका यह प्रश्न प्राणिमात्रके लिये बड़ा कुतहलजनक है, क्योंकि सभी जान अधिक से-अधिक वस्तुओंका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं।

इसके उत्तरमें महर्षि अङ्गिराने परा और अपरा नामक दो विद्याओंका निरूपण किया है। जिसके द्वारा ऐहिक और आमुष्मिक अनात्म पदार्थोंका ज्ञान होता है उसे अपरा विद्या कहा है, तथा जिससे अखण्ड, अविनाशा एवं निष्प्रपञ्च परमार्थतत्त्वका बोध होता है उसे परा विद्या कहा गया है। सारा संसार अपरा विद्याका विषय है तथा संसारी पुरुषोंका प्रवृत्ति भी उसीकी ओर है। उसीके द्वारा ऐसे किसी एक ही अखण्ड तत्त्वका ज्ञान नहीं हो सकता जो सम्पूर्ण ज्ञानोंका अधिष्ठान हो, क्योंकि उसके विषयभूत जितने पदार्थ हैं वे सब-के-सब परिच्छिन्न ही हैं। अपरा विद्या वस्तुतः अविद्या ही है; व्यवहारमें उपयोगी होनेके कारण ही उसे विद्या कहा जाता है। अखण्ड और अव्यय तत्त्वके जिज्ञासुके लिये वह त्याज्य ही है। इसीलिये आचार्य अङ्गिराने यहाँ उसका उल्लेख किया है।

इस प्रकार विद्याके दो भेद कर फिर सम्पूर्ण ग्रन्थमें उन्हींका सविस्तर वर्णन किया गया है। ग्रन्थका पूर्वार्ध प्रधानतया अपरा विद्याका

निरूपण करता है और उत्तरार्धमें मुख्यतया परा विद्या और उसकी प्राप्तिके साधनोंका विवेचन है। इस उपनिषद्की वर्णनशैली बड़ी ही उदात्त एवं हृदयहारिणी है, जिससे स्वभावतः ही जिज्ञासुओंका हृदय इसकी ओर आकर्षित हो जाता है।


उपनिषदोंका जो प्रचलित क्रम है उसके अनुसार इसका अध्ययन प्रश्नोपनिषद्के पश्चात् किया जाता है। परन्तु प्रस्तुत पुस्तकके पृष्ठ ९४ पर भगवान् शङ्कराचार्य लिखते हैं—‘वक्ष्यति च ‘न येषु जिह्ममनृतं न माया च’ इति’ अर्थात् ‘जैसा कि आगे (प्रश्नोपनिषद्में) ‘जिन पुरुषोंमें अकुटिलता, अनृत और माया नहीं है’ इत्यादि वाक्यद्वारा कहेंगे भी।’ इस प्रकार प्रश्नोपनिषद्के प्रथम प्रश्नके अन्तिम मन्त्रका भविष्यकालिक उल्लेख करके आचार्य सूचित करते हैं कि पहले मुण्डकका अध्ययन करना चाहिये और उसके पश्चात् प्रश्नका। प्रश्नोपनिषद्का भाष्य आरम्भ करते हुए तो उन्होंने इसका स्पष्टतया उल्लेख किया है। अतः शाङ्करसम्प्रदायके वेदान्तविद्यार्थियोंको उपनिषद्भाष्यका इमी क्रमसे अध्ययन करना चाहिये। अस्तु, भगवान्मे प्रार्थना है कि इस ग्रन्थके अनुशीलनद्वारा हमें ऐसी योग्यता प्रदान करें जिससे हम उनके सर्व-विद्याभूत पगत्पर स्वरूपका रहस्य हृदयङ्गम कर सकें।

अनुवादक



श्रीहरिः

विषय-सूची



विषय			पृष्ठ
१. शान्तिपाठ	१
प्रथम मुण्डक			
प्रथम खण्ड			
२. सम्बन्धभाष्य	२
३. आचार्यपरम्परा	५
४. शौनिककी गुरुपसत्ति और प्रश्न	८
५. अङ्गिराका उत्तर—विद्या दो प्रकारकी है	११
६. परा और अपरा विद्याका स्वरूप	१२
७. परविद्याप्रदर्शन	१५
८. अक्षरब्रह्मका विश्वकारणत्व	१८
९. सृष्टिक्रम	१९
१०. प्रकरणका उपसंहार	२१
द्वितीय खण्ड			
११. कर्मनिरूपण	२३
१२. अग्निहोत्रका वर्णन	२६
१३. विधिहीन कर्मका कुफल	२७
१४. अग्निकी सात जिह्वाएँ	२९
१५. विधिवत् अग्निहोत्रादिसे स्वर्गप्राप्ति	३०
१६. ज्ञानरहित कर्मकी निन्दा	३२
१७. अविद्याग्रस्त कर्मठोंकी दुर्दशा	३४
१८. ऐहिक और पारलौकिक भोगोंकी असारता देखनेवाले पुरुषके लिये संन्यास और गुरुपसदनका विधान	३९
१९. गुरुके लिये उपदेशप्रदानकी विधि	४२

द्वितीय मुण्डक

प्रथम खण्ड

२०. अग्निसे स्फुलिङ्गोंके समान ब्रह्मसे जगत्की उत्पत्ति	...	४४
२१. ब्रह्मका पारमार्थिक स्वरूप	...	४६
२२. ब्रह्मका सर्वकारणत्व	...	५०
२३. सर्वभूतान्तरात्मा ब्रह्मका विद्वरूप	...	५२
२४. अधर पुरुषसे चराचरकी उत्पत्तिका क्रम	...	५४
२५. कर्म और उनके साधन भी पुरुषप्रसूत ही है	...	५५
२६. इन्द्रिय, विषय और इन्द्रियस्थानादि भी ब्रह्मजनित ही हैं	...	५७
२७. पर्वत, नदी और ओषधि आदिका ब्रह्मजन्यत्व	...	५९
२८. ब्रह्म और जगत्का अभेद तथा ब्रह्मज्ञानसे अविद्या-प्रस्थिका नाश	...	६०

द्वितीय खण्ड

२९. ब्रह्मका स्वरूपनिर्देश तथा उसे जाननेके लिये आदेश	...	६२
३०. ब्रह्ममें मनोनिवेश करनेका विधान	...	६४
३१. ब्रह्मवेधनकी विधि	...	६६
३२. वेधनके लिये ग्रहण किये जानेवाले धनुषादिका स्पष्टीकरण	...	६७
३३. आत्मसाक्षात्कारके लिये पुनः विधि	...	६९
३४. ओङ्काररूपसे ब्रह्मचिन्तनकी विधि	...	७०
३५. अपर ब्रह्मका वर्णन तथा उसके चिन्तनका प्रकार	...	७२
३६. ब्रह्मसाक्षात्कारका फल	...	७५
३७. ज्योतिर्मय ब्रह्म	...	७६
३८. ब्रह्मका सर्वप्रकाशकत्व	...	७८
३९. ब्रह्मका सर्वव्यापकत्व	...	८०

तृतीय मुण्डक

प्रथम खण्ड

४०. प्रकारान्तरसे ब्रह्मनिरूपण	...	८२
४१. समान वृक्षपर रहनेवाले दो पक्षी	...	८३

विषय		पृष्ठ
४२. ईश्वरदर्शनसे जीवकी शोकनिवृत्ति ८५
४३. श्रेष्ठतम ब्रह्मज्ञ ८८
४४. आत्मदर्शनके साधन ९२
४५. सत्यकी महिमा ९४
४६. परमपदका स्वरूप ९६
४७. आत्मसाक्षात्कारका असाधारण साधन—चित्तशुद्धि ९८
४८. शरीरमें इन्द्रियरूपसे अनुप्रविष्ट हुए आत्माका चित्तशुद्धिद्वारा साक्षात्कार १००
४९. आत्मज्ञका वैभव और उसकी पूजाका विधान १०१

द्वितीय खण्ड

५०. आत्मवेत्ताकी पूजाका फल १०३
५१. निष्कामतासे पुनर्जन्मनिवृत्ति १०४
५२. आत्मदर्शनका प्रधान साधन—जिज्ञासा १०६
५३. आत्मदर्शनके अन्य साधन १०७
५४. आत्मदर्शीकी ब्रह्मप्राप्तिका प्रकार १०९
५५. ज्ञातज्ञेयकी मोक्षप्राप्ति ११०
५६. मोक्षका स्वरूप ११३
५७. ब्रह्मप्राप्तिमें नदी आदिका दृष्टान्त ११५
५८. ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही है ११५
५९. विद्याप्रदानकी विधि ११७
६०. उपसंहार ११९
६१. शान्तिपाठः १२१





अङ्गिरस और शौनकका संवाद

ॐ

तत्सद्ब्रह्मण नमः

मुण्डकोपनिषद्

मन्त्रार्थ, शाङ्करभाष्य और भाष्यार्थसहित

भावाभावपदातीतं भावाभावात्मकं च यत् ।
तद् वन्दे भावनातीतं स्वात्मभूतं परं महः ॥

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाꣳसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

हे देवगण ! हम कानोसे कल्याणमय वचन सुनें; यज्ञकर्ममें समर्थ होकर नेत्रोंसे शुभ दर्शन करें; अपने स्थिर अङ्ग और शरीरोंसे स्तुति करनेवाले हमलोग देवताओंके लिये हितकर आयुका भोग करें । त्रिविध तापकी शान्ति हो ।

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

महान् कीर्तिमान् इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान् [अथवा परम धनवान्] पूषा हमारा कल्याण करे, अरिष्टोंके [नाशके] लिये चक्ररूप गरुड हमारा कल्याण करे तथा बृहस्पतिजी हमारा कल्याण करें । त्रिविध तापकी शान्ति हो ।

आश्रम सुगुहक

प्रथम स्कण्ड

सम्बन्धभाष्यम्

ॐ ब्रह्मा देवानामित्याद्या-
उपक्रमः थर्वणोपनिषत् । अस्याश्च
विद्यासम्प्रदायकर्तृपार-
म्पर्यलक्षणसम्बन्धम् आदावेवाह
स्वयमेव स्तुत्यर्थम् । एवं हि
महद्भिः परमपुरुषार्थसाधनत्वेन
गुरुणायासेन लब्धा विद्येति
श्रोतृबुद्धिप्ररोचनाय विद्यां मही-
करोति । स्तुत्या प्ररोचितायां
हि विद्यायां सादराः प्रवर्तेरन्निति ।

प्रयोजनेन तु विद्यायाः
ब्रह्मविद्यायाः साध्यसाधनलक्षण-
सम्बन्धप्रयोजन- सम्बन्धम् उत्तरत्र
निरूपणम् वक्ष्यति 'भिद्यते
हृदयग्रन्थिः' (मु०उ०२ । २।८)

'ॐ ब्रह्मा देवानाम्' इत्यादि
[वाक्यसे आरब्ध होनेवाली]
उपनिषद् अथर्ववेदकी है । श्रुति
इसकी स्तुतिके लिये इसके विद्या-
सम्प्रदायके कर्ताओंकी परम्परारूप
सम्बन्धका सबसे पहले स्वयं ही
वर्णन करती है । इस प्रकार
यह दिखलाकर कि 'इस विद्याको
परमपुरुषार्थके साधनरूपसे महा-
पुरुषोंने अन्यन्त परिश्रमसे प्राप्त
किया था' श्रुति श्रोताओंकी बुद्धिमें
इसके लिये रुचि उत्पन्न करनेके
लिये इसकी महत्ता दिखलाती है,
जिससे कि लोग स्तुतिके कारण
रुचिकर प्रतीत हुई विद्याके
उपा र्जनमें आदरपूर्वक प्रवृत्त हों ।

अपने प्रयोजनके साथ ब्रह्म-
विद्याका साध्यसाधनरूप सम्बन्ध
आगे चलकर 'भिद्यते हृदयग्रन्थिः'
इत्यादि मन्त्रद्वारा बतलाया जायगा ।

इत्यादिना, अत्र चापरशब्दवाच्या-
यामृग्वेदादिलक्षणायां विधिप्रति-
षेधमात्रपरायां विद्यायां संसार-
कारणाविद्यादिदोषनिवर्तकत्वं
नास्तीति स्वयमेवोक्त्वा परापर-
विद्याभेदकरणपूर्वकम् 'अविद्या-
यामन्तरे वर्तमानाः' (मु० उ०
१।२।८) इत्यादिना तथा
परप्राप्तिसाधनं सर्वसाधनसाध्य-
विषयवैराग्यपूर्वकं गुरुप्रसाद-
लभ्यां ब्रह्मविद्यामाह—'परीक्ष्य
लोकान्' (मु० उ० १।२।१२)
इत्यादिना । प्रयोजनं चास-
कृद्भवीति 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव
भवति' (मु० उ० ३।२।९) इति
'परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे'
(मु० उ० ३।२।६) इति च ।

ज्ञानमात्रे यद्यपि सर्वाश्रमिणाम्
संन्यासनिष्ठैव अधिकारस्तथापि
ब्रह्मविद्या संन्यासनिष्ठैव ब्रह्म-
मोक्षसाधनम् विद्या मोक्षसाधनं
न कर्मसहितेति 'भैक्षचर्या
चरन्तः' (मु० उ० १।२।११)
'संन्यासयोगात्' (मु० उ०
३।२।६) इति च ब्रुवन्दर्शयति ।

यहाँ तो 'विधि-प्रतिषेधमात्रमें तत्पर
अपर शब्दवाच्य ऋग्वेदादिरूप
विद्या संसारके कारणभूत अज्ञान
आदि दोषकी निवृत्ति करनेवाली नहीं
है'—यह बात 'अविद्यायामन्तरे
वर्तमानाः' इत्यादि वाक्योंसे विद्याके
पर और अपर भेद करते हुए स्वयं
ही बतलाकर फिर 'परीक्ष्य लोकान्'
इत्यादि वाक्योंसे साधन-साध्यरूप
मत्र प्रकारके विषयोंसे वैराग्यपूर्वक
गुरुकृपासे प्राप्य ब्रह्मविद्याको ही
परब्रह्मकी प्राप्तिका साधन बतलाया
है । तथा 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति'
'परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे' इत्यादि
वाक्योंसे उसका प्रयोजन तो
बारंबार बतलाया है ।

यद्यपि ज्ञानमात्रमें सभी आश्रम-
वालोंका अधिकार है तथापि
ब्रह्मविद्या केवल संन्यासगत होनेपर
ही मोक्षका साधन होती है कर्म-
सहित नहीं—यह बात श्रुति
'भैक्षचर्या चरन्तः' 'संन्यासयोगात्'
इत्यादि कहती हुई प्रदर्शित
करती है ।

विद्याकर्मविरोधाच्च । न हि
 ब्रह्मात्मैकत्वदर्शनेन
 ज्ञानकर्मविरोध- सह कर्म स्वप्नेऽपि
 निरूपणम् सम्पादयितुं शक्यम्,
 विद्यायाः कालविशेषाभावाद-
 नियतनिमित्तत्वात्कालसङ्कोचानु-
 पपत्तिः ।

यत्तु गृहस्थेषु ब्रह्मविद्या-
 सम्प्रदायकर्तृत्वादि लिङ्गं न
 तत्स्थितन्यायं बाधितुमुत्सहते ।
 न हि विधिशतेनापि तमःप्रकाश-
 योरेकत्र सद्भावः शक्यते कर्तुं
 किमुत लिङ्गैः केवलैरिति ।

एवमुक्तसम्बन्धप्रयोजनाया
 उपनिषच्छब्द-उपनिषदोऽल्पाक्षरं
 निरुक्तिः ग्रन्थविवरणमारभ्यते ।
 य इमां ब्रह्मविद्यामुपयन्त्यात्म-
 भावेन श्रद्धाभक्तिपुरःसराः

इसके सिवा विद्या और कर्मका
 विरोध होनेके कारण भी यही सिद्ध
 होता है । ब्रह्मात्मैक्यदर्शनके साथ
 तो कर्मोंका सम्पादन स्वप्नमें भी
 नहीं किया जा सकता, क्योंकि
 विद्यासम्पादनका कोई कालविशेष
 नहीं है और न उसका कोई नियत
 निमित्त ही है; अतः किसी काल-
 विशेषद्वारा उसका संकोच कर देना
 उचित नहीं है ।

गृहस्थोंमें जो ब्रह्मविद्याका
 सम्प्रदायकर्तृत्व आदि लिङ्ग (अस्तित्व-
 सूचक निदर्शन) देखा गया है वह
 पूर्वप्रदर्शित स्थिरतर नियमको
 बाधित करनेमें समर्थ नहीं हो
 सकता, क्योंकि तम और प्रकाशका
 एकत्र स्थिति तो सैकड़ों विधियोंसे
 भी नहीं की जा सकती, फिर केवल
 लिङ्गोंकी तो बात ही क्या है ?

इस प्रकार जिसके सम्बन्ध
 और प्रयोजनका निर्देश किया है
 उस [मुण्डक] उपनिषद्की यह
 संक्षिप्त व्याख्या आरम्भ की जाती
 है । जो लोग श्रद्धा-भक्तिपूर्वक
 आत्मभावसे इस ब्रह्मविद्याके समीप

मन्तस्तेषां गर्भजन्मजरारोगा- जाते हैं यह उनके गर्भ, जन्म,
 धनर्थपूगं निशातयति परं वा जरा और रोग आदि अनर्थसमूहका
 ब्रह्म गमयत्यविद्यादिसंसार- छेदन करती है, अथवा उन्हें परब्रह्मको
 कारणं चात्यन्तमवसादयति प्राप्त करा देती है, या संसारके
 विनाशयतीत्युपनिषत्, उपनि- कारणरूप अविद्या आदिका अत्यन्त
 पूर्वस्य सदेरेवमर्थस्मरणात् । धातुका यही अर्थ माना गया है ।

आचार्यपरम्परा

ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव

विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ।

स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठा-

मथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ १ ॥

सम्पूर्ण देवताओंमें पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुआ । वह विश्वका रचयिता और त्रिभुवनका रक्षक था । उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वाको समस्त विद्याओंकी आश्रयभूत ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया ॥ १ ॥

ब्रह्मा परिवृढो महान्धर्मज्ञान- ब्रह्मा—परिवृढ (सबसे बड़ा
 वैराग्यैश्वर्यैः सर्वानन्यानतिशेत् हुआ) अर्थात् महान्, जो धर्म,
 इति । देवानां द्योतनवतामिन्द्रा- ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यमें अन्य सबसे
 दीनां प्रथमो गुणैः प्रधानः सन् बड़ा हुआ था, देवताओं—द्योतन
 प्रथमोऽग्रे वा सम्बभूवाभिव्यक्तः करनेवालों (प्रकाशमानों), इन्द्रा-
 सम्यक्स्वातन्त्र्येणेत्यभिप्रायः । दिकोंमें प्रथम—गुणोंद्वारा प्रधान-
 न तथा यथा धर्माधर्मवशात् रूपसे अथवा सम्यक् स्वतन्त्रता-
 पूर्वक सबसे पहले उत्पन्न हुआ
 या यह इसका तात्पर्य है; क्योंकि
 “जो यह अतीन्द्रिय, अप्राह्य……… है

संसारिणोऽन्ये जायन्ते । [वह परमात्मा स्वयं उत्पन्न हुआ]”
 “योऽसावतीन्द्रियोऽग्राह्यः” अन्य संसारी जीव उत्पन्न होते हैं
 (मनु० १ । ७) इत्यादिस्मृतेः । उस तरह धर्म या अधर्मके वशीभूत
 होकर उत्पन्न नहीं हुआ ।

विश्वस्य सर्वस्य जगतः विश्व अर्थात् सम्पूर्ण जगत्का
 कर्तोऽन्पादयिता । भुवनस्योत्प- कर्ता—उत्पन्न करनेवाला तथा
 न्नस्य गोप्ता पालयितेति विशेषणं उत्पन्न हुए भुवनका गोप्ता—पालन
 ब्रह्मणो विद्यास्तुतये । स एवं करनेवाला’ ये ब्रह्माके विशेषण
 प्रख्यातमहत्त्वो ब्रह्मा ब्रह्म- [उसकी उपदेश की हुई] विद्याकी
 विद्यां ब्रह्मणः परमात्मनो विद्यां स्तुतिके लिये हैं । जिसका महत्त्व
 ब्रह्मविद्यां ‘येनाक्षरं पुरुषं वेद इस प्रकार प्रसिद्ध है उस ब्रह्माने ब्रह्म-
 सत्यम्’ (मु० उ० १ । २ । १३) विद्याको—ब्रह्म यानी परमात्माकी
 इति विशेषणात्परमात्मविषया हि विद्याको, जो ‘जिससे अक्षर और
 सा ब्रह्मणा वाग्रजेनोक्तेति ब्रह्म- सत्य पुरुषको जानता है’ ऐसे
 विद्या तां सर्वविद्याप्रतिष्ठां सर्व- विशेषणमे युक्त होनेके कारण
 विद्याभिव्यक्ति हेतुत्वात्सर्वविद्या- परमात्मसम्बन्धिनी ही है अथवा
 श्रयामित्यर्थः; सर्वविद्यावेद्यं वा अग्रजन्मा ब्रह्माके द्वारा कही जानेके
 वस्त्वन्वयैव विज्ञायत इति, कारण जो ब्रह्मविद्या कहलाती है उम
 “येनाश्रुतं श्रुतं भवति अमतं ब्रह्मविद्याको, जो समस्त विद्याओंकी
 मतमविज्ञातं विज्ञातम्” (छा० अभिव्यक्तिकी हेतुभूत होनेसे, अथवा
 उ० ६ । १ । ३) इति श्रुतेः । “जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो
 जाता है, अमत मत हो जाता
 है तथा अज्ञात ज्ञात हो जाता
 है” इस श्रुतिके अनुसार इसीसे
 सर्वविद्यावेद्य वस्तुका ज्ञान होता
 है, इसलिये जो सर्वविद्या-
 प्रतिष्ठा यानी सम्पूर्ण विद्याओंकी
 आश्रयभूता है, अपने ज्येष्ठ पुत्र

सर्वविद्याप्रतिष्ठामिति च स्तौति । अथर्वासे कहा । यहाँ 'सर्वविद्या-
 विद्यामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह । प्रतिष्ठाम्' इस पदसे विद्याकी
 ज्येष्ठश्रामौ पुत्रश्रानेकेषु ब्रह्मणः स्तुति करते हैं । जो ज्येष्ठ (सबसे
 सृष्टिप्रकारेष्वन्यतमस्य सृष्टि- बड़ा) पुत्र हो उसे ज्येष्ठ पुत्र
 प्रकारस्य प्रमुखे पूर्वमथर्वा सृष्टि- कहते हैं । ब्रह्माकी सृष्टिके अनेकों
 इति ज्येष्ठस्तस्मै ज्येष्ठपुत्राय प्रकारोंमें किसी एक सृष्टिप्रकारके
 प्राहोक्तवान् ॥ १ ॥ उत्पन्न किया गया था, इसलिये वह
 ज्येष्ठ है । उस ज्येष्ठ पुत्रसे कहा ॥१॥

अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्मा-

थर्वा तां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्याम् ।

स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह

भारद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम् ॥ २ ॥

अथर्वाको ब्रह्माने जिसका उपदेश किया था वह ब्रह्मविद्या पूर्व-
 कालमें अथर्वाने अङ्गीको सिखायी । अङ्गीने उसे भरद्वाजके पुत्र सत्यवहसे
 कहा तथा भरद्वाजपुत्र (सत्यवह) ने इस प्रकार श्रेष्ठसे कनिष्ठको प्राप्त
 होती हुई वह विद्या अङ्गिरासे कही ॥२॥

यामेतामथर्वणे प्रवदेतावद- जिस ब्रह्मविद्याको ब्रह्माने
 ब्रह्मविद्यां ब्रह्मा तामेव ब्रह्मणः अथर्वासे कहा था, ब्रह्मासे प्राप्त
 प्राप्तामथर्वा पुरा पूर्वमुवाचोक्त- हुई उसी ब्रह्मविद्याको पूर्वकालमें
 वानङ्गिरेऽङ्गिर्नाम्ने ब्रह्मविद्याम् । अथर्वाने अङ्गिरसे यानी अङ्गिर्-
 नामक मुनिसे कहा । फिर उस
 स चाङ्गिर्भारद्वाजाय भरद्वाज- अङ्गिर् मुनिने उसे भारद्वाज सत्य-
 वहसे यानी भरद्वाजगोत्रमें उत्पन्न

गोत्राय सत्यवहाय सत्यवहनाम्ने । इए सत्यवहनामक मुनिसे कहा ।
 प्राह प्रोक्तवान् । भारद्वाजोऽङ्गिरसे । तथा भारद्वाजने अपने शिष्य अथवा
 स्वशिष्याय पुत्राय वा परावरां । पुत्र अङ्गिरसे वह परावरा—पर
 परस्मात्परस्माद्वरेण प्राप्तेति । (उत्कृष्ट) से अवर (कनिष्ठ)
 पगवरा पगपरसर्वविद्याविषय- । को प्राप्त हुई, अथवा पर और अवर
 व्याप्तेर्वा तां परावरामङ्गिरसे । सत्र विद्याओंके विषयोंकी व्याप्तिके
 प्राहेत्यनुषङ्गः ॥ २ ॥ । कारण 'परावरा' कही जानेवाली
 वह विद्या अङ्गिरसे कही । इस प्रकार
 'परावराम्' इस कर्मपदका पूर्वोक्त
 'प्राह' क्रियासे सम्बन्ध है ॥ २ ॥



शौनककी गुरूपसत्ति और प्रश्न

शौनको ह वै महाशालोऽङ्गिरसं विधिवदुपसन्नः
 पप्रच्छ । कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं
 भवतीति ॥ ३ ॥

शौनकनामक प्रसिद्ध महागृहस्थने अङ्गिराके पास विधिपूर्वक
 जाकर पूछा—'भगवन् ! किसके जान लिये जानेपर यह सत्र कुछ जान
 लिया जाता है ?' ॥ ३ ॥

शौनकः शुनकस्यापत्यं महा-
 शालो महागृहस्थोऽङ्गिरसं
 भारद्वाजशिष्यमाचार्यं विधि-
 वद्यथाशास्त्रमित्येतत् ; उपसन्न
 उपगतः सन्नपप्रच्छ पृष्टवान् ।
 शौनकाङ्गिरसोः संबन्धादर्वाग्

महाशाल—महागृहस्थ शौनक—
 शुनकके पुत्रने भारद्वाजके शिष्य
 आचार्य अङ्गिराके पास विधिवत्
 अर्थात् शास्त्रानुसार जाकर पूछा ।
 शौनक और अङ्गिराके सम्बन्धसे
 पश्चात् 'विधिवत्' विशेषण मिलनेसे

विधिवद्विशेषणादुपसदनविधेः

पूर्वेषामनियम इति गम्यते ।

मर्यादाकरणार्थं मध्यदीपिकान्या-

यार्थं वा विशेषणम्; अस्मदा-

दिष्वप्युपसदनविधेर्गृह्णत्वात् ।

किमित्याह—कस्मिन्नु भगवो

विज्ञाते नु इति वितर्के, भगवो

हे भगवन्मत्वं यदिदं विज्ञेयं

विज्ञातं विशेषेण ज्ञातमवगतं भव-

तीति एकस्मिञ्ज्ञाते सर्वविद्भव-

तीति शिष्टप्रवादं श्रुतवाञ्छौनकस्त-

द्विशेषं विज्ञातुकामः मन्कस्मिन्

न्विति वितर्कयन्पप्रच्छ ।

अथवा लोकसामान्यदृष्ट्या

ज्ञान्वैव पप्रच्छ । सन्ति लोके

यह जाना जाता है कि इनसे पूर्व आचार्योंमें [गुरूपसदनका] कोई नियम नहीं था । अतः इसकी मर्यादा निर्दिष्ट करनेके लिये अथवा मध्यदीपिकान्यायके लिये* यह विशेषण दिया गया है, क्योंकि यह उपसदनविधि हमलोगोंमें भी माननीय है ।

शौनकने क्या पूछा, सो बतलाते हैं—भगवः—हे भगवन् ! 'कस्मिन्नु' किस वस्तुके जान लिये जानेपर यह सब विज्ञेय पदार्थ विज्ञात—विशेषरूपसे ज्ञात यानी अवगत हो जाता है । यहाँ 'नु' का प्रयोग वितर्क (संशय) के लिये किया गया है । शौनकने 'एकहीको जान लेनेपर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है' ऐसी कोई सभ्य पुरुषोंको कहावत सुनी थी । उसे विशेषरूपसे जाननेकी इच्छासे ही उसने 'कस्मिन्नु' इत्यादि रूपसे वितर्क करते हुए पूछा । अथवा लोकोंकी सामान्य दृष्टिसे जान-बूझकर ही पूछा । लोकमें

* देहलीपर दीपक रखनेसे उसका प्रकाश भीतर-बाहर दोनों ओर पड़ता है—इसीको मध्यदीपिका या देहलीदीपन्याय कहते हैं । अतः यदि यह कथन इस न्यायसे ही हो तो यह समझना चाहिये कि गुरूपसदन-विधि इससे पूर्व भी थी और उससे पीछे हमलोगोंके लिये भी आवश्यक है; और यदि यह कथन मर्यादा निर्दिष्ट करनेके लिये हो तो यह समझना चाहिये कि यहाँसे इस पद्धतिका प्रारम्भ हुआ ।

सुवर्णादिशकलभेदाः सुवर्णत्वा-
द्येकत्वविज्ञानेन विज्ञायमाना
लौकिकैः । तथा किं न्वस्ति
सर्वस्य जगद्भेदस्यैकं कारणम्,
यदेकस्मिन्विज्ञाते सर्वं विज्ञातं
भवतीति ।

नन्वविदिते हि कस्मिन्निति

प्रश्नोऽनुपपन्नः । किमस्ति तदिति

तदा प्रश्नो युक्तः । सिद्धे ह्यस्त्वित्त्वे

कस्मिन्निति स्यात्, यथा कस्मिन्नि-

धेयमिति ।

नः अक्षरबाहुल्यादायाम-

भीरुत्वात्प्रश्नः सम्भवत्येव कस्मिन्

न्वेकस्मिन्विज्ञाते सर्ववित्स्यात्

इति ॥ ३ ॥

सुवर्णादि खण्डोंके ऐसे भेद हैं जो सुवर्णरूप होनेके कारण लौकिक पुरुषोंद्वारा [खर्णदृष्टिसे] उनकी एकताका ज्ञान होनेपर जान लिये जाते हैं । इसी प्रकार [प्रश्न होता है कि] 'सम्पूर्ण जगद्भेदका वह एक कारण कौन-सा है जिस एकके ही जान लिये जानेपर यह सब कुछ जान लिया जाता है ?'

शङ्का—जिस वस्तुका ज्ञान नहीं होता उसके विषयमे 'कस्मिन्' (किसको) * इस प्रकार प्रश्न करना तो बन नहीं सकता । उस समय तो 'क्या वह है ?' ऐसा प्रश्न ही उचित है; फिर उसका अस्तित्व सिद्ध हो जानेपर ही 'कस्मिन्' ऐसा प्रश्न हो सकता है । जैसा कि [अनेक आधारोंका ज्ञान होनेपर] 'किसमे रक्खा जाय' ऐसा प्रश्न किया जाता है ।

समाधान—ऐसा मत कहो, क्योंकि [तुम्हारे कथनानुसार प्रश्न करनेसे] अक्षरोंकी अधिकता होती है और अधिक आयासका भय रहता है, अतः 'किस एकके ही जान लेनेपर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है ?' ऐसा प्रश्न बन सकता है ॥ ३ ॥



* क्योंकि 'किस' या 'कौन' सर्वनामका प्रयोग वही होता है जहाँ अनेकोंकी सत्ता स्वीकारकर उनमेंसे किसी एकका निश्चय करना होता है ।

अङ्गिराका उत्तर-विद्या दो प्रकारकी है

तस्मै स होवाच । द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म
यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च ॥ ४ ॥

उससे उसने कहा—‘ब्रह्मवेत्ताओंने कहा है कि दो विद्याएँ जानने-योग्य हैं—एक परा और दूसरी अपरा’ ॥ ४ ॥

तस्मै शौनकायाङ्गिरा आह उम शौनकसे अङ्गिराने कहा ।
किलोवाच । किमित्युच्यते । द्वे । क्या कहा ’ सो बतलाते हैं—
विद्ये वेदितव्ये इत्येवं ह स्म । ‘दो विद्याएँ वेदितव्य अर्थात् जानने-
किल यद्ब्रह्मविदो वेदार्थाभिज्ञाः यो-ग्य है ऐसा जो ब्रह्मविद्—वेदके
परमार्थदर्शिनो वदन्ति । के अर्थको जाननेवाले परमार्थदर्शी हैं
ने इत्याह—परा च परमात्म- वे कहते हैं । वे दो विद्याएँ कौन-सी
विद्या । अपरा च धर्माधर्ममाधन- हैं ? इसपर कहते हैं—परा अर्थात्
तत्फलविषया । परमात्मविद्या और अपरा—धर्म,
अधर्मके साधन और उनके फलमे
सम्बन्ध रखनेवाली विद्या ।’

ननु कस्मिन्विदिते सर्व- शङ्का—शौनकने तो यह पूछा
विद्भवतीति शौनकेन पृष्टं पुरुष सर्वज्ञ हो जाता है ?’ उसके
तस्मिन्वक्तव्येऽपृष्टमाहाङ्गिरा द्वे उत्तरमें जो कहना चाहिये था
विद्ये इत्यादिना । उसकी जगह ‘दो विद्याएँ हैं’ आदि
बातें तो अङ्गिराने बिना पृछी ही
कही हैं ।

नैष दोषः; क्रमापेक्षत्वात् समाधान—यह कोई दोष नहीं
प्रतिवचनस्य । अपरा हि विद्या- है, क्योंकि उत्तर तो क्रमकी अपेक्षा
विद्या सा निराकर्तव्या । तद्- रखता है । अपरा विद्या तो
अविद्या ही है; अतः उसका निरा-
करण किया जाना चाहिये । उसके

विषये हि विदिते न किञ्चित्त्वतो विषयमें जान लेनेपर तो तत्त्वतः
 विदितं स्यादिति । निराकृत्य कुछ भी नहीं जाना जाता, क्योंकि
 हि पूर्वपक्षं पश्चात्सिद्धान्तो वक्तव्यो यह नियम है कि 'पहले पूर्वपक्षका
 भवतीति न्यायात् ॥ ४ ॥ खण्डन कर पीछे सिद्धान्त कहा
 जाता है' ॥ ४ ॥



परा और अपरा विद्याका स्वरूप

तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा
 कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा
 यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५ ॥

उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण,
 निरुक्त, छन्द और ज्योतिष—यह अपरा है तथा जिससे उस अक्षर
 परमात्माका ज्ञान होता है वह परा है ॥ ५ ॥

तत्र कापरेत्युच्यते—ऋग्वेदो । उनमें अपरा विद्या कौन-सी है,
 यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेद इत्यंते । सो बतलाते हैं । ऋग्वेद, यजुर्वेद,
 चत्वारो वेदाः शिक्षा कल्पो । सामवेद और अथर्ववेद—ये चार वेद
 व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिष- । तथा शिक्षा, कल्प, व्याकरण,
 मित्यङ्गानि षडेषापर विद्या । निरुक्त, छन्द और ज्योतिष—ये
 छः वेदाङ्ग अपरा विद्या कहे जाते हैं ।

अथेदानीमियं परा विद्या । अब यह परा विद्या बतलायी
 उच्यते यया तद्वक्ष्यमाणविशेषणम् । कहे जानेवाले विशेषणोंसे युक्त
 अक्षरमधिगम्यते प्राप्यते; अधि- । उस अक्षरका अधिगम अर्थात्
 प्राप्ति होती है, क्योंकि 'अधि'पूर्वक

पूर्वस्य गमेः प्रायशः प्राप्त्यर्थ-
त्वात् । न च परप्राप्तेरवगमा-
र्थस्य भेदोऽस्ति । अविद्याया अपाय
एव हि परप्राप्तिर्नार्थान्तरम् ।

ननु ऋग्वेदादिबाह्या तर्हि

विद्यायाः सा कथं परा विद्या
परापरभेद- स्यान्मोक्षसाधनं च ।
मीमांसा “या वेदबाह्याः

स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः ।
मर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमो-
निष्ठा हि ताः स्मृताः” (मनु०
१२।९) इति हि स्मरन्ति ।
कुदृष्टित्वान्निष्फलत्वादनादेया
स्यात् । उपनिषदां च ऋग्वेदादि-
बाह्यत्वं स्यात् । ऋग्वेदादित्वे तु
पृथकरणमनर्थकम् अथ परेति ।

नः वेद्यविषयविज्ञानस्य


विवक्षितत्वात् । उपनिषद्वेद्याक्षर-

‘गम’ धातु प्रायः ‘प्राप्ति’ अर्थमें
प्रयुक्त होती है; तथा परमात्मा-
की प्राप्ति और उसके ज्ञानके अर्थमें
कोई भेद भी नहीं है; क्योंकि अविद्या-
की निवृत्ति ही परमात्माकी प्राप्ति है,
इससे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं ।

शङ्का—तत्र तो वह (ब्रह्मविद्या)
ऋग्वेदादिसे बाह्य है, अतः वह
परा विद्या अथवा मोक्षकी साधनभूत
किस प्रकार हो सकती है ?
स्मृतियाँ तो कहती हैं कि “जो
वेदबाह्य स्मृतियाँ और जो कोई
कुदृष्टियाँ (कुविचार) हैं वे
परलोकमें निष्फल और नरककी
साधन मानी गयी हैं ।” अतः कुदृष्टि
होनेसे निष्फल होनेके कारण वह
प्राह्य नहीं हो सकती । तथा इससे
उपनिषद् भी ऋग्वेदादिसे बाह्य माने
जायेंगे और यदि इन्हें ऋग्वेदादिमें
ही माना जायगा तो ‘अथ परा’
आदि वाक्यसे जो परा विद्याको
पृथक् बतलाया गया है वह व्यर्थ
हो जायगा ।

समाधान—ऐसी बात नहीं है,
क्योंकि [परा विद्यासे] वेद्य-
विषयक ज्ञान बतलाना अभीष्ट है ।

विषयं हि विज्ञानमिह परा | यहाँ प्रधानतासे यही बतलाना इष्ट
 विद्येति प्राधान्येन विवक्षितं है कि उपनिषद्वेद्य अक्षरविषयक
 नोपनिषच्छब्दराशिः । वेदशब्देन विज्ञान ही परा विद्या है, उपनिषद्को
 तु सर्वत्र शब्दराशिर्विवक्षितः । शब्दसे सर्वत्र शब्दराशि ही कही
 शब्दराश्यधिगमेऽपि यत्नान्तर- जाती है । शब्दसमूहका ज्ञान हो
 मन्तरेण गुर्वभिगमनादिलक्षणं जानेपर भी गुरूपसत्ति आदिरूप
 वैराग्यं च नाक्षराधिगमः सम्भव- अक्षरब्रह्मका ज्ञान नहीं हो सकता;
 तीति पृथकरणं ब्रह्मविद्यायाः इसीलिये ब्रह्मविद्याका पृथकरण और
 परा विद्येति कथनं चेति ॥ ५ ॥ है ॥ ५ ॥



यथा विधिविषयं कर्त्राद्यनेक- जिस प्रकार विधि (कर्मकाण्ड)
 के सम्बन्धमे [उसका प्रतिपादन
 परविद्याया कारकोपसंहारद्वारेण करनेवाले] वाक्योंका अर्थ जाननेके
 वाक्यार्थज्ञान- वाक्यार्थज्ञानकालाद् समयसे भिन्न कर्ता आदि अनेकों
 ज-यत्वम् अन्यत्रानुष्ठेयोऽर्थोऽस्ति कारकों (क्रियानिष्पत्तिके साधनों)
 अग्निहोत्रादिलक्षणो न तथेह के उपसंहारद्वारा अग्निहोत्र आदि
 अनुष्ठेय अर्थ रह जाता है, उस
 परविद्याविषये; वाक्यार्थज्ञान- प्रकार परा विद्याके सम्बन्धमे नहीं
 होता । इसका कार्य तो वाक्यार्थ-
 समकाल एव तु पर्यवसितो ज्ञानके समकालमें ही समाप्त हो
 जाता है, क्योंकि केवल शब्दोंके
 भवति । केवलशब्दप्रकाशितार्थ- योगसे प्रकाशित होनेवाले अर्थ-
 ज्ञानमात्रनिष्ठाव्यतिरिक्ताभावात् । और कोई प्रयोजन नहीं है । अतः

तस्मादिह परां त्रिद्यां सविशेषणेन
अक्षरेण विशिनष्टि यत्तदद्रेश्यम्
इत्यादिना । वक्ष्यमाणं बुद्धौ
मंहृत्य सिद्धवत्परामृश्यते—
यत्तदिति ।

यहाँ 'यत्तदद्रेश्यम्' इत्यादि विशेषणों-
से विशेषित अक्षरब्रह्मका निर्देश
करते हुए उस परा विद्याको
विशेषित करते हैं । आगे जो कुछ
कहना है उसे अपनी बुद्धिमें
विठाकर 'यत्तद्' इत्यादि वाक्यसे
उसका सिद्ध वस्तुके समान उल्लेख
करते हैं—

परविद्याप्रदर्शन

यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणि-
पादम् नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं
परिपश्यन्ति धीराः ॥ ६ ॥

वह जो अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवर्ण और चक्षुःश्रोत्रादिहीन
है, इसी प्रकार अपाणिपाद, नित्य, विभु, सर्वगत, अत्यन्त सूक्ष्म और
अव्यय है तथा जो सम्पूर्ण भूतोंका कारण है उसे विवेकी लोग सब
ओर देखते हैं ॥ ६ ॥

अद्रेश्यमदृश्यं सर्वेषां बुद्धी-
न्द्रियाणामगम्यमित्येतत् । दृशेर्ब-
हिःप्रवृत्तस्य पञ्चेन्द्रियद्वारकत्वात् ।
अग्राह्यं कर्मेन्द्रियाविषयमित्येतत् ।
अगोत्रं गोत्रमन्वयो मूलमित्य-
नर्थान्तरमगोत्रमनन्वयमित्यर्थः ।

वह जो अद्रेश्य—अदृश्य
अर्थात् समस्त ज्ञानेन्द्रियोंका अ-
विषय है, क्योंकि बाहरको प्रवृत्त हुई
दृक्शक्ति पञ्चज्ञानेन्द्रियरूप द्वारवाली
है; अग्राह्य अर्थात् कर्मेन्द्रियोंका
अविषय है; अगोत्र—गोत्र अन्वय
अथवा मूल—ये किसी अन्य
अर्थके वाचक नहीं हैं [अर्थात्
इनका एक ही अर्थ है] अतः
अगोत्र यानी अनन्वय है, क्योंकि उस

न हि तस्य मूलमस्ति येन
 अन्वितं स्यात् । वर्ण्यन्त इति
 वर्णा द्रव्यधर्माः स्थूलत्वादयः
 शुक्लत्वादयो वा । अविद्यमाना
 वर्णा यस्य तदवर्णमक्षरम् ।
 अचक्षुःश्रोत्रं चक्षुश्च श्रोत्रं च
 नामरूपविषये करणे सर्वजन्तूनां
 ते अविद्यमाने यस्य तदचक्षुः-
 श्रोत्रम्, 'यः सर्वज्ञः सर्ववित्' इति
 चेतनावच्चविशेषणात् प्राप्तं
 संसारिणामिव चक्षुःश्रोत्रादिभिः
 करणैरर्थसाधकत्वं तदिहाचक्षुः-
 श्रोत्रमिति वार्यते "पश्यत्यचक्षुः
 स शृणोत्यकर्णः" (श्वे० उ० ३।
 १९) इत्यादिदर्शनात् ।

किं च तदपाणिपादं कर्मेन्द्रिय-
 रहितमित्येतत् । यत एवमग्राह-

अक्षर [अक्षरब्रह्म] का कोई मूल
 नहीं है जिससे वह अन्वित हो;
 जिनका वर्णन किया जाय वे
 स्थूलत्वादि या शुक्लत्वादि द्रव्यके
 धर्म ही वर्ण हैं—वे वर्ण जिसमें
 विद्यमान नहीं हैं वह अक्षर अवर्ण है;
 अचक्षुःश्रोत्र—चक्षु (नेत्रेन्द्रिय)
 और श्रोत्र (कर्णेन्द्रिय) ये सम्पूर्ण
 प्राणियोंकी रूप और शब्दको
 गृहीत करनेवाली इन्द्रियाँ हैं, वे
 जिसमें नहीं हैं उसे ही 'अचक्षुः-
 श्रोत्र' कहते हैं। 'यः सर्वज्ञः
 सर्ववित्' इस श्रुतिमें पुरुषके लिये
 चेतनावत्त्व विशेषण दिया गया है,
 अतः अन्य संसारी जीवोंके समान
 उसके लिये भी चक्षुःश्रोत्रादि इन्द्रियों-
 से अर्थसाधकत्व प्राप्त होता है, यहाँ
 'अचक्षुःश्रोत्रम्' कहकर उसीका
 निषेध किया जाता है, जैसा कि
 उसके विषयमें "बिना नेत्रवाला
 होकर भी देखता है, बिना कान-
 वाला होकर भी सुनता है" इत्यादि
 कथन देखा गया है ।

यही नहीं, वह अपाणिपाद
 अर्थात् कर्मेन्द्रियोंसे भी रहित है ।
 क्योंकि इस प्रकार वह अग्राह

मग्राहकं चातो नित्यम्, अविनाशि, विभुं विविधं ब्रह्मादि-
स्थावरान्तप्राणिभेदैर्भवति इति
विभुम् । सर्वगतं व्यापकमाकाश-
वत्सुसूक्ष्मं शब्दादिस्थूलत्व-
कारणरहितत्वात् । शब्दादयो
ह्याकाशवाय्वादीनामुत्तरोत्तरं
स्थूलत्वकारणानि तदभावात्
सुसूक्ष्मम् । किं च तदव्ययमुक्तधर्म-
त्वादेव न व्येतीत्यव्ययम् । न हि
अनङ्गस्य स्वाङ्गापचयलक्षणो व्ययः
सम्भवति शरीरस्येव । नापि कोशा-
पचयलक्षणो व्ययः सम्भवति
राज्ञ इव । नापि गुणद्वारको
व्ययः सम्भवत्यगुणत्वात्सर्वात्म-
कत्वाच्च ।

यदेवंलक्षणं भूतयोनिं भूतानां
कारणं पृथिवीव स्थावरजङ्ग-
मानां परिपश्यन्ति सर्वत आत्म-
भूतं सर्वस्याक्षरं पश्यन्ति धीरा

और अग्राहक भी है, इसलिये वह
नित्य—अविनाशी है । तथा विभु—
ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त प्राणि-
भेदसे वह विविध (अनेक प्रकारका)
हो जाता है, इसलिये विभु है,
सर्वगत—व्यापक है और शब्दादि
स्थूलताके कारणोंसे रहित होनेके
कारण आकाशके समान अत्यन्त
सूक्ष्म है, शब्दादि गुण ही आकाश-
वायु आदिकी उत्तरोत्तर स्थूलताके
कारण है, उनसे रहित होनेके
कारण वह [अक्षरब्रह्म] सुसूक्ष्म
है । तथा उपर्युक्त धर्मवाला होनेसे
ही कभी उसका व्यय (हास)
नहीं होता इसलिये वह अव्यय है;
क्योंकि अङ्गहीन वस्तुका शरीरके
समान अपने अङ्गोंका क्षयरूप
व्यय नहीं हो सकता, न राजाके
समान कोशक्षयरूप व्यय ही सम्भव
है और न निर्गुण तथा सर्वात्मक
होनेके कारण उसका गुणक्षयद्वारा
ही व्यय हो सकता है ।

पृथिवी जैसे स्थावर-जङ्गम
जगत्का कारण है उसी प्रकार
जिस ऐसे लक्षणोंवाले भूतयोनि—
भूतोंके कारण सबके आत्मभूत
अक्षरब्रह्मको धीर—बुद्धिमान्—

धीमन्तो विवेकिनः । ईदृशमक्षरं विवेकी पुरुष सब ओर देखते हैं,
यया विद्ययाधिगम्यते सा परा ऐसा अक्षर जिस विद्यासे जाना
विद्येति समुदायार्थः ॥६॥ जाता है वही परा विद्या है—यह
इस सम्पूर्ण मन्त्रका तात्पर्य है ॥६॥

अक्षरब्रह्मका विश्वकारणत्व

भूतयोन्यक्षरमित्युक्तम् । तत्कथं पहले कहा जा चुका है कि
भूतयोनिव्यमित्युच्यते प्रसिद्ध- अक्षरब्रह्म भूतोंकी योनि है । उसका
दृष्टान्तैः— वह भूतयोनिव्यमित्युच्यते प्रसिद्ध दृष्टान्तोंद्वारा बतलाया जाता है—

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च

यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति ।

यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि

तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वम् ॥ ७ ॥

जिस प्रकार मकड़ी जालेको बनाती और निगल जाती है,
जैसे पृथिवीमें ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं और जैसे सर्जिव पुरुषसे केश
एवं लोम उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार उस अक्षरसे यह विश्व प्रकट होता है ।

यथा लोके प्रसिद्धम्—ऊर्ण- जिस प्रकार लोकमें प्रसिद्ध है
नाभिर्लूताकीटः किञ्चित्कारणा- कि ऊर्णनाभि—मकड़ी किसी अन्य
न्तरमनपेक्ष्य स्वयमेव सृजते स्व- उपकरणकी अपेक्षा न कर स्वयं
शरीराव्यतिरिक्तानेव तन्तून्बहिः ही अपने शरीरसे अभिन्न तन्तुओंको
प्रमारयति पुनस्तानेव गृह्णते च है और फिर उन्हींको गृहीत भी
गृह्णाति स्वात्मभावमेवापादयति । कर लेती है, यानी अपने शरीरसे

यथा च पृथिव्यामोषधयो^१ अभिन्न कर देती है, तथा जैसे व्रीह्यादिस्थावरान्ता इत्यर्थः । पृथिवीमें व्रीहि-यव इत्यादिसे लेकर स्वात्मान्यतिरिक्ता एव प्रभवन्ति । वृक्षपर्यन्त समस्त ओषधियाँ उससे यथा च सतो विद्यमानाजीवतः अभिन्न ही उत्पन्न होती हैं और पुरुषात्केशलोमानि केशाश्च जैसे सत्—विद्यमान अर्थात् जीवित लोमानि च सम्भवन्ति विल- पुरुषसे उससे विलक्षण केश और क्षणानि । लोम उत्पन्न होते हैं ।

यथैते दृष्टान्तास्तथा विलक्षणं जैसे कि ये दृष्टान्त हैं उसी मलक्षणं च निमित्तान्तरानपे- प्रकार इस संसारमण्डलमें इससे क्षायथोक्तलक्षणादक्षगत्सम्भवति विश्व—समस्त जगत् किसी अन्य ममुत्पद्यत इह संसारमण्डले निमित्तकी अपेक्षा न करनेवाले उस विश्वं ममस्तं जगत् । अनेकदृष्टा- उपर्युक्त लक्षणविशिष्ट अक्षरसे ही न्तोपादानं तु सुखार्थप्रबोध- उत्पन्न होता है । ये अनेक दृष्टान्त नार्थम् ॥ ७ ॥ केवल विषयको सरलतासे समझनेके लिये ही लिये गये हैं ॥ ७ ॥

सृष्टिक्रम

यद्ब्रह्मण उत्पद्यमानं विश्वं^१ ब्रह्मसे उत्पन्न होनेवाला जो तदनेन क्रमेणोत्पद्यते न युगप- जगत् है वह इस क्रमसे उत्पन्न होता है, बेरोंकी मुट्टी फेंक देनेके समान एक साथ उत्पन्न नहीं होता । द्रदरमुष्टिप्रक्षेपवदिति क्रमनियम- इस प्रकार उस क्रमके नियमको बतलानेकी इच्छावाले इस मन्त्रका विवक्षार्थोऽयं मन्त्र आरभ्यते— आरम्भ किया जाता है— तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । अन्नात्प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम् ॥ ८ ॥

[ज्ञानरूप] तपके द्वारा ब्रह्म कुल उपचय (स्थूलता) को प्राप्त हो जाता है, उसीसे अन्न उत्पन्न होता है । फिर अन्नसे क्रमशः प्राण, मन, सत्य, लोक, कर्म और कर्मसे अमृतसंज्ञक कर्मफल उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥

तपसा ज्ञानेनोत्पत्तिविधिज्ञ-
तया भूतयोन्यक्षरं ब्रह्म चीयत
उपचीयत उत्पिपादयिषदिदं
जगदङ्कुरमिव बीजमुच्छ्रुनतां
गच्छति पुत्रमिव पिता हर्षेण ।

एवं सर्वज्ञतया सृष्टिस्थिति-
संहारशक्तिविज्ञानवत्तयोपचितात्
ततो ब्रह्मणोऽन्नमद्यते भुज्यते
इत्यन्नमव्याकृतं साधारणं संसा-
रिणां व्याचिकीर्षितावस्थारूपेण
अभिजायत उत्पद्यते । ततश्च
अव्याकृताद्व्याचिकीर्षितावस्थातः
अन्नात्प्राणो हिरण्यगर्भो ब्रह्मणो
ज्ञानक्रियाशक्त्यधिष्ठितजगत्सा-
धारणोऽविद्याकामकर्मभूतसमु-

उत्पत्तिविधिका ज्ञाता होनेके कारण तप अर्थात् ज्ञानसे भूतोंका कारण-रूप अक्षरब्रह्म उपचित होता है; अर्थात् इस जगत्को उत्पन्न करनेकी इच्छा करते हुए वह कुल स्थूलताको प्राप्त हो जाता है, जैसे अङ्कुर-रूपमें परिणत होता हुआ बीज कुल स्थूल हो जाता अथवा पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छावाला पिता हर्षसे उल्लसित हो जाता है ।

इस प्रकार सर्वज्ञ होनेके कारण सृष्टि स्थिति और संहार-शक्तिकी विज्ञानवन्तासे वृद्धिको प्राप्त हुए उस ब्रह्मसे अन्न—जो खाया यानी भोजन किया जाय उसे अन्न कहते हैं, वह सबका साधारण कारणरूप अव्याकृत संसारियोंकी व्याचिकीर्षित (व्यक्त की जाने-वाली) अवस्थारूपसे उत्पन्न होता है । उस अव्याकृतसे यानी व्याचिकीर्षित अवस्थावाले अन्नसे प्राण—हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मकी ज्ञान और क्रियाशक्तियोंसे अधिष्ठित, व्यष्टि जीवोंका समष्टिरूप तथा अविद्या, काम, कर्म और भूतोंके समुदायरूप

दायबीजाङ्कुरो जगदात्माभिजायत
इत्यनुपङ्गः ।

तस्माच्च प्राणान्मनो मनआख्यं
सङ्कल्पविकल्पसंशयनिर्णयाद्या-
त्मकमभिजायते । ततोऽपि
सङ्कल्पाद्यात्मकान्मनसः सत्यं
सत्याख्यमाकाशादि भूतपञ्चकम्
अभिजायते । तस्मात्सत्याख्याद्भूत-
पञ्चकाद् अण्डक्रमेण सप्तलोका
भूरादयः । तेषु मनुष्यादिप्राणि-
वर्णाश्रमक्रमेण कर्माणि । कर्मसु
च निमित्तभूतेष्वमृतं कर्मजं
फलम् । यावत्कर्माणि कल्पकोटि-
शतैरपि न विनश्यन्ति तावत्फलं
न विनश्यति इत्यमृतम् ॥ ८ ॥

बीजका अङ्कुर जगदात्मा उत्पन्न होता
है । यहाँ प्राण शब्दका 'अभिजायते'
क्रियासे सम्बन्ध है ।

तथा उस प्राणसे मन यानी
संकल्प-विकल्प-संशय-निर्णयात्मक
मननामक अन्तःकरण उत्पन्न
होता है । उस सङ्कल्पादिरूप
मनसे भी सत्य—सत्यनामक
आकाशादि भूतपञ्चककी उत्पत्ति
होती है । फिर उस सत्यसंज्ञक
भूतपञ्चकसे ब्रह्माण्डक्रमसे भूः
आदि सात लोक उत्पन्न होते हैं ।
उनमें मनुष्यादि प्राणियोंके वर्ण
और आश्रमके क्रमसे कर्म होते हैं
तथा उन निमित्तभूत कर्मोंसे अमृत-
कर्मजनित फल होता है । जबतक
सौ करोड़ कल्पतक भी कर्मोंका
नाश नहीं होता तबतक उनका
फल भी नष्ट नहीं होता; इसलिये
कर्मफलको 'अमृत' कहा है ॥८॥



उक्तमेवार्थमुपसंजिहीर्षुर्मन्त्रो
वक्ष्यमाणार्थमाह—

पूर्वोक्त अर्थका ही उपसंहार
करनेकी इच्छावाला [यह नवम]
मन्त्र आगे कहा जानेवाला अर्थ
कहता है—

प्रकरणका उपसंहार

यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः ।

तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥ ९ ॥

जो सबको [सामान्यरूपसे] जाननेवाला और सबका विशेषज्ञ है तथा जिसका ज्ञानमय तप है उस [अक्षरब्रह्म] से ही यह ब्रह्म (हिरण्यगर्भ), नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥

य उक्तलक्षणोऽक्षराख्यः जो ऊपर कहे हुए लक्षणोंवाला
सर्वज्ञः सामान्येन सर्वं जानातीति अक्षरसंज्ञक ब्रह्म सर्वज्ञ—सबकों
सर्वज्ञः । विशेषेण सर्वं वेत्तीति सामान्यरूपसे जानता है, इसलिये
सर्ववित् । यस्य ज्ञानमयं ज्ञान- सर्वज्ञ और विशेषरूपसे सब कुछ
विकारमेव सार्वज्ञ्यलक्षणं तपो जानता है इसलिये सर्ववित् है,
नायासलक्षणं तस्माद्यथोक्तात् जिसका ज्ञानमय अर्थात् सर्वज्ञतारूप
सर्वज्ञादेतदुक्तं कार्यलक्षणं ब्रह्म ज्ञानविकार ही तप है—आयास-
हिरण्यगर्भाख्यं जायते । किं च रूप तप नहीं है उस उपर्युक्त
नामासौ देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादि- सर्वज्ञसे ही यह पूर्वोक्त हिरण्यगर्भ-
लक्षणम्, रूपमिदं शुक्लं नील- संज्ञक कार्यब्रह्म उत्पन्न होता है ।
मित्यादि, अन्नं च त्रीहियवादि- तथा उसीसे पूर्वोक्त मन्त्रके क्रमानु-
लक्षणं जायते पूर्वमन्त्रोक्तक्रमेण, सार यह देवदत्त-यज्ञदत्त इत्यादि
इत्यविरोधो द्रष्टव्यः ॥ ९ ॥ नाम, यह शुक्ल-नील इत्यादि रूप
तथा त्रीहि-यवादिरूप अन्न उत्पन्न
होता है । अतः पूर्वमन्त्रसे इसका
अविरोध समझना चाहिये ॥९॥

इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषद्भाष्ये प्रथममुण्डके

प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥



द्वितीय खण्ड

कर्मनिरूपण

माङ्गा वेदा अपरा विद्योक्ता
 ऋग्वेदो यजुर्वेद इत्या-
 पूर्वापरसम्बन्ध-
 निरूपणम् दिना । यत्तदद्रेश्यम्
 इत्यादिना नामरूपम्
 अन्नं च जायत इत्यन्तेन ग्रन्थेन
 उक्तलक्षणमक्षरं यया विद्यया
 अधिगम्यत इति परा विद्या
 सविशेषणोक्ता । अतः परमनयो-
 विद्ययोर्विषयौ विवेक्तव्यौ संसार-
 मोक्षावित्युत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते ।
 तत्रापरविद्याविषयः कर्त्रादि-
 साधनक्रियाफलभेद-
 संसारमोक्षयोः स्वरूपनिर्देशः रूपः संसारोऽनादिः
 अनन्तो दुःखस्वरूप-
 न्वाद्वातव्यः प्रत्येकं शरीरिभिः
 सामस्त्येन नदीस्रोतोवद्व्यवच्छे-
 दरूपसम्बन्धः, तदुपशमलक्षणो

ऊपर 'ऋग्वेदो यजुर्वेदः'
 इत्यादि [पञ्चम] मन्त्रसे अङ्गों-
 सहित वेदोंको अपरा विद्या बतलाया
 है । तथा 'यत्तदद्रेश्यम्' इत्यादिसे
 लेकर 'नामरूपमन्नं च जायते'
 यहाँतकके ग्रन्थसे जिसके द्वारा
 उपर्युक्त लक्षणवाले अक्षरका ज्ञान
 होता है उस परा विद्याका उसके
 विशेषणोसहित वर्णन किया ।
 इसके पश्चात् इन दोनों विद्याओंके
 विषय संसार और मोक्षका विवेक
 करना है; इसीलिये आगेका ग्रन्थ
 आरम्भ किया जाता है ।

उनमें अपरा विद्याका विषय
 संसार है, जो कर्ता-करण आदि
 साधनोंसे होनेवाले कर्म और उसके
 फलरूप भेदवाला, अनादि,
 अनन्त और नदीके प्रवाहके समान
 अविच्छिन्न सम्बन्धवाला है तथा
 दुःखरूप होनेके कारण प्रत्येक
 देहधारीके लिये सर्वथा त्याज्य है ।
 उस (संसार) का उपशमरूप

मोक्षः परविद्याविषयोऽनाद्यनन्तोऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयः शुद्धः प्रसन्नः स्वात्मप्रतिष्ठाक्षणः परमानन्दोऽद्वय इति ।

पूर्व तावदपरविद्याया विषय-
प्रदर्शनार्थमारम्भः । तद्दर्शने हि
तन्निर्वेदोपपत्तेः । तथा च
वक्ष्यति—‘परीक्ष्य लोकान्कर्म-
चितान्’ (मु० उ० १ । २ । १२)
इत्यादिना । न ह्यप्रदर्शिते
परीक्षोपपद्यत इति तत्प्रदर्शय-
न्नाह—

मोक्ष परा विद्याका विषय है और
वह अनादि, अनन्त, अजर, अमर,
अमृत, अभय, शुद्ध, प्रसन्न, स्वस्व-
रूपमें स्थितिरूप तथा परमानन्द
एवं अद्वितीय है ।

उन दोनोंमें पहले अपरा
विद्याका विषय दिखलानेके लिये
आरम्भ किया जाता है, क्योंकि
उसे जान लेनेपर ही उससे विराग
हो सकता है । ऐसा ही ‘परीक्ष्य
लोकान्कर्मचितान्’ इत्यादि वाक्योंसे
आगे कहेंगे भी । बिना दिखलाये
हुए उसकी परीक्षा नहीं हो सकती;
अतः उस (कर्मफल) को दिख-
लाते हुए कहते हैं—

तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि
त्रेतायां बहुधा सन्ततानि । तान्याचरथ नियतं सत्यकामा
एष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके ॥ १ ॥

बुद्धिमान् ऋषियोंने जिन कर्मोंका मन्त्रोंमें साक्षात्कार किया था
वही यह सत्य है, त्रेतायुगमें उन कर्मोंका अनेक प्रकार विस्तार हुआ ।
सत्य (कर्मफल) की कामनासे युक्त होकर उनका नित्य आचरण करो;
लोकमें यही तुम्हारे लिये सुकृत (कर्मफलकी प्राप्ति) का मार्ग है ॥ १ ॥

तदेतत्सत्यमवितथम् । किं तत्? मन्त्रेष्वृग्वेदाद्याख्येषु कर्माणि अग्निहोत्रादीनि मन्त्रैरेव प्रकाशि-
वही यह सत्य अर्थात् अमिथ्या
है । वह क्या ? ऋग्वेदादि मन्त्रोंमें
मन्त्रोंद्वारा ही प्रकाशित जिन

तानि कवयो मेधाविनो वसिष्ठा-
दयो यान्यपश्यन्दृष्टवन्तः ।
यत्तदेतन्सत्यमेकान्तपुरुषार्थमाध-
नत्वात् । तानि च वेद-
विहितान्यृषिदृष्टानि कर्माणि
त्रेतायां त्रयीसंयोगलक्षणायां
होत्राध्वर्यवौद्रात्रप्रकारायामधि-
करणभूतायां बहुधा बहुप्रकारं
मन्ततानि प्रवृत्तानि कर्मिभिः
क्रियमाणानि त्रेतायां वा युगे
प्रायशः प्रवृत्तानि ।

अतो यूयं तान्याचरथ
निर्वर्तयत नियतं नित्यं सत्य-
कामा यथाभूतकर्मफलकामाः
मन्तः । एष वो युष्माकं पन्था
मार्गः सुकृतस्य स्वयं निर्वर्तितस्य
कर्मणो लोके, फलनिमित्तं लोकयते
दृश्यते भुज्यते इति कर्मफलं
लोक उच्यते; तदर्थं तत्प्राप्तय
एष मार्ग इत्यर्थः । यान्येतानि
अग्निहोत्रादीनि त्रय्यां विहितानि
कर्माणि तान्येष पन्था अवश्य-
फलप्राप्तिसाधनमित्यर्थः ॥ १ ॥

अग्निहोत्रादि कर्मोक्तो कवियों अर्थात्
वसिष्ठादि मेधावियोंने देखा था,
वही पुरुषार्थका एकमात्र साधन
होनेके कारण यह सत्य है । वे ही
वेदविहित और ऋषिदृष्ट कर्म
त्रेतामें—[ऋग्वेदविहित] होत्र,
[यजुर्वेदोक्त] आध्वर्यव और
[सामवेदविहित] औद्रात्र ही
जिसके प्रकारभेद हैं उस अधि-
करणभूत त्रयीसंयोगरूप त्रेतामें
अनेक प्रकार सन्तत—प्रवृत्त हुए,
अथवा कर्मोंद्वारा किये जाकर
प्रायशः त्रेतायुगमें प्रवृत्त हुए ।

अतः सत्यकाम यानी यथाभूत
कर्मफलकी इच्छावाले होकर तुम
उनका नियत—नित्य आचरण करो ।
यही तुम्हारे सुकृत—स्वयं किये हुए
कर्मोंके लोककी प्राप्तिके लिये मार्ग
है । फलके निमित्तसे लोकित, दृष्ट
अथवा भोगा जाता है इसलिये
कर्मफल 'लोक' कहलाता है; उस
(कर्मफल) के लिये अर्थात् उसकी
प्राप्तिके लिये यही मार्ग है । तात्पर्य
यह है कि वेदत्रयीमें विहित जो ये
अग्निहोत्र आदि कर्म हैं वे ही यह
मार्ग यानी अवश्य फलप्राप्तिका
साधन हैं ॥१॥



अग्निहोत्रका वर्णन

तत्राग्निहोत्रमेव तावत्प्रथमं । उनमें सबसे पहले प्रदर्शित करनेके लिये अग्निहोत्रका ही वर्णन प्रदर्शनार्थमुच्यते सर्वकर्मणां । किया जाता है, क्योंकि [अग्नि-साध्य कर्मोंमें] उसीकी प्रधानता प्राथम्यात् । तत्कथम् ? है । सो किस प्रकार ?

यदा लेलायते ह्यर्चिः समिद्धे हव्यवाहने ।

तदाज्यभागावन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेत् ॥ २ ॥

जिस समय अग्निके प्रदीप्त होनेपर उसकी ज्वाला उठने लगे उस समय दोनों आज्यभागोंके* मध्यमें [प्रातः और सायंकाल] आहुतियाँ डाले ॥ २ ॥

यदैवेन्धनैरभ्याहितैः सम्य-
गिद्धे समिद्धे हव्यवाहने लेलायते
चलत्यर्चिस्तदा तस्मिन्काले
लेलायमाने चलत्यर्चिष्याज्य-
भागावाज्यभागयोरन्तरेण मध्य
आवापस्थान आहुतीः प्रतिपाद-
येत्प्रक्षिपेदेवतामुद्दिश्य । अनेकाह-
प्रयोगापेक्षयाहुतीरिति बहु-
वचनम् ॥ २ ॥

जिस समय सब ओर आधान किये हुए ईंधनद्वारा सम्यक् प्रकार-से इद्ध अर्थात् प्रज्वलित होनेपर अग्निसे ज्वाला उठने लगे तब—उस समय ज्वालाओंके चञ्चल हो उठने-पर आज्यभागोंके अन्तर—मध्यमें आवापस्थानमें देवताओंके उद्देश्यसे आहुतियाँ देनी चाहिये। अनेक दिन-तक होनेवाले प्रयोगकी अपेक्षासे यहाँ 'आहुतीः' इस बहुवचनका प्रयोग किया गया है ॥ २ ॥

* दर्श-पौर्णमास यज्ञमें आहवनीय अग्निके उत्तर और दक्षिण ओर 'अग्नये स्वाहा' तथा 'सोमाय स्वाहा' इन मन्त्रोंसे दो घृताहुतियाँ दी जाती हैं। उन्हें 'आज्यभाग' कहते हैं। इनके बीचका भाग 'आवापस्थान' कहलाता है। शेष सब आहुतियाँ उसीमें दी जाती हैं।

विधिहीन कर्मका कुफल

एष सम्यगाहुतिप्रक्षेपादि- यह यथाविधि आहुतिप्रदानरूप
लक्षणः कर्ममार्गो लोकप्राप्तये कर्ममार्ग [स्वर्गादि] लोकोकी
पन्थास्तस्य च सम्यकरणं दुष्करम् । प्राप्तिका साधन है । इसका यथा-
वत् होना बड़ा ही दुष्कर है ।
विपत्तयस्त्वेका भवन्ति । कथम्? हैं । किस प्रकार ? [सो बतलाते हैं—]

यस्याग्निहोत्रमदर्शमपौर्णमास-

मचातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिवर्जितं च ।

अहुतमवैश्वदेवमविधिना हुत-

माससमांस्तस्य लोकान्दिह नस्ति ॥ ३ ॥

जिसका अग्निहोत्र दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य और आग्रयण—इन कर्मोंसे रहित, अतिथि-पूजनसे वर्जित, यथासमय किये जानेवाले हवन और वैश्वदेवसे रहित अथवा अविधिपूर्वक हवन किया होता है, उसकी मानों सात पीढ़ियोंका वह नाश कर देता है ॥ ३ ॥

यस्याग्निहोत्रिणोऽग्निहोत्रमदर्श जिस अग्निहोत्रीका अग्निहोत्र
दर्शाख्येन कर्मणा वर्जितम् । अदर्श—दर्शनामक कर्मसे रहित
अग्निहोत्रिणोऽवश्यकर्तव्यत्वाद् होता है, क्योंकि अग्निहोत्रियोंको
दर्शकर्म अवश्य करना चाहिये ।
दर्शस्य । अग्निहोत्रमम्बन्ध्यग्निहोत्र- अग्निहोत्रसे सम्बन्ध रखनेवाला
विशेषणमिव भवति । तदक्रिय- होनेके कारण [यह दर्शकर्म]
माणमित्येतत् । तथापौर्णमासम् अग्निहोत्रके विशेषणके समान
इत्यादिष्वप्यग्निहोत्रविशेषणत्वं प्रयुक्त हुआ है । अतः जिसके
द्रष्टव्यम्, अग्निहोत्राङ्गत्वस्य द्वारा इसका अनुष्ठान नहीं किया
जाता । इसी प्रकार 'अपौर्णमासम्'
आदिमें भी अग्निहोत्रका विशेषणत्व
देखना चाहिये, क्योंकि अग्निहोत्रके
अङ्ग होनेमें उन [पौर्णमास आदि]

अविशिष्टत्वात् । अपौर्णमासं
पौर्णमासकर्मवर्जितम्, अचातु-
र्मास्यं चातुर्मास्यकर्मवर्जितम्,
अनाग्रयणमाग्रयणं शरदादि-
कर्तव्यं तच्च न क्रियते यस्य,
तथातिथिवर्जितं चातिथिपूजनं
चाहन्यहन्यक्रियमाणं यस्य,
स्वयं सम्यग्अग्निहोत्रकालेऽहुतम्,
अदर्शादिवदवैश्वदेवं वैश्वदेव-
कर्मवर्जितम्, ह्यमानमप्यविधिना
हुतं न यथाहुतमित्येतद्
एवं दुःसम्पादितमसम्पादितम्
अग्निहोत्राद्युपलक्षितं कर्म किं
करोतीत्युच्यते ।

आसप्तमान्सप्तमसहितांस्तस्य

कर्तुर्लोकान्हिनस्ति हिनस्तीव

आयासमात्रफलत्वात्।सम्यक्क्रिय-

की दर्शसे समानता है । [अतः
जिनका अग्निहोत्र] अपौर्णमास—
पौर्णमास कर्मसे रहित, अचा-
तुर्मास्य—चातुर्मास्य कर्मसे रहित,
अनाग्रयण—शरदादि ऋतुओंमें
[नवीन अन्नसे] किया जानेवाला
जो आग्रयण कर्म है वह जिस
(अग्निहोत्र) का नहीं किया जाता
वह अनाग्रयण है, तथा अतिथि-
वर्जित—जिसमें नित्यप्रति अतिथि-
पूजन नहीं किया गया, ऐसा होता
है और जो स्वयं भी, जिसमें
विधिपूर्वक अग्निहोत्रकालमें हवन
नहीं किया गया, ऐसा है तथा जो
अदर्श आदिके समान अवैश्वदेव—
वैश्वदेवकर्मसे रहित है और यदि
[उसमें] हवन भी किया गया है
तो अविधिपूर्वक ही किया गया है,
यानी यथोचित रीतिसे जिसमें हवन
नहीं किया गया ऐसा है; इस प्रकार
अनुचित रीतिसे किया हुआ अथवा
बिना किया हुआ अग्निहोत्र आदिसे
उपलक्षित कर्म क्या करता है ?
सो बतलाया जाता है—

वह कर्म केवल परिश्रममात्र
फलवाला होनेके कारण उस कर्ताके
सातों—सप्तम लोकसहित सम्पूर्ण
लोकोंको नष्ट—विध्वस्त-सा कर
देता है । कर्मोंका यथावत् अनुष्ठान

माणेषु हि कर्मसु कर्मपरिणामा-
 नुरूपेण भूरादयः सत्यान्ताः
 सप्त लोकाः फलं प्राप्यन्ते । ते
 लोका एवंभूतेनाग्निहोत्रादि-
 कर्मणा त्वप्राप्यत्वाद्विंस्यन्त इव ।
 आयासमात्रं त्वव्यभिचारीत्यतो
 हिनस्तीत्युच्यते ।

पिण्डदानाद्यनुग्रहेण वा
 सम्ब्रधयमानाः पितृपितामह-
 प्रपितामहाः पुत्रपौत्रप्रपौत्राः
 स्वात्मोपकाराः सप्त लोका उक्त-
 प्रकारेणाग्निहोत्रादिना न भव-
 न्तीति हिंस्यन्त इत्युच्यते ॥३॥

किया जानेपर ही कर्मफलके अनुसार
 भूर्लोकसे लेकर सत्यलोकपर्यन्त
 सात लोक फलरूपसे प्राप्त होते हैं ।
 वे लोक इस प्रकारके अग्निहोत्रादि
 कर्मसे तो अप्राप्य होनेके कारण
 मानो नष्ट ही कर दिये जाते हैं ।
 हाँ उसका परिश्रममात्र फल तो
 अव्यभिचारी—अनिवार्य है, इसी-
 लिये 'हिनस्ति' [अर्थात् वह
 अग्निहोत्र उसके सातों लोकोंको
 नष्ट कर देता है] ऐसा कहा है ।

अथवा पिण्डदानादि अनुग्रहके
 द्वारा यजमानसे सम्बद्ध पिता,
 पितामह और प्रपितामह [ये तीन
 पूर्वपुरुष] तथा पुत्र, पौत्र और
 प्रपौत्र [ये तीन आगे होनेवाली
 सन्ततियाँ ये ही अपने सहित]
 अपना उपकार करनेवाले सात
 लोक हैं । ये उक्त प्रकारके अग्निहोत्र
 आदिसे प्राप्त नहीं होते; इसलिये 'नष्ट
 कर दिये जाते हैं' इस प्रकार कहा
 जाता है ॥ ३ ॥

अग्निकी सात जिह्वाएँ

काली कराली च मनोजवा च

सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा ।

स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी

लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः ॥ ४ ॥

काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिङ्गिनी और विश्वरुची देवी—ये उस (अग्नि) की लपलपानी हुई सात जिह्वाएँ हैं ॥ ४ ॥

काली कराली च मनोजवा च काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिङ्गिनी स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी और विश्वरुची देवी—ये अग्नि की लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः । लपलपानी हुई सात जिह्वाएँ हैं । काली-काल्याद्या विश्वरुच्यन्ता लेलाय- से लेकर विश्वरुचीतक—ये अग्नि की माना अग्नेर्हविराहुतिग्रसनार्था सात चञ्चल जिह्वाएँ हवि—आहुति- एताः सप्त जिह्वाः ॥ ४ ॥ का ग्रास करनेके लिये है ॥ ४ ॥



विधिवत् अग्निहोत्रादिसे स्वर्गप्राप्ति

एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु

यथाकालं चाहृतयो ह्याददायन् ।

तं नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयो

यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥ ५ ॥

जो पुरुष इन देदीप्यमान अग्निशिखाओंमें यथासमय आहुतियाँ देता हुआ [अग्निहोत्रादि कर्मका] आचरण करता है उसे ये सूर्य-की किरणें होकर वहाँ ले जाती हैं जहाँ देवताओंका एकमात्र स्वामो [इन्द्र] रहता है ॥ ५ ॥

एतेष्वग्निजिह्वाभेदेषु योऽग्नि-
होत्री चरते कर्माचरत्यग्निहोत्रादि
भ्राजमानेषु दीप्यमानेषु । यथा-
कालं च यस्य कर्मणो यः
कालस्तत्कालं यथाकालं यजमा-
नमाददायन्नाददाना आहुतयो
यजमानेन निर्वर्तितास्तं नयन्ति
प्रापयन्त्येता आहुतयो या इमा
अनेन निर्वर्तिताः सूर्यस्य रश्मयो
भूत्वा रश्मिद्वारैरित्यर्थः । यत्र
यस्मिन्स्वर्गे देवानां पतिरिन्द्र
एकः सर्वानुपरि अधि व्रमतीत्य-
धिवासः ॥ ५ ॥

जो अग्निहोत्री इन भ्राजमान—
दीप्तिमान् अग्निजिह्वाके भेदोमें यथा-
काल यानी जिस कर्मका जो काल
है उस कालका अतिक्रमण न
करते हुए अग्निहोत्रादि कर्मका
आचरण करता है, उस यजमानको
इसकी दी हुई वे आहुतियाँ सूर्यकी
किरणों होकर अर्थात् सूर्यकी
किरणोंद्वारा वहाँ पहुँचा देती है
जहाँ—जिस स्वर्गलोकमें देवताओंका
एकमात्र पति इन्द्र सबके ऊपर
अधिवास—अधिष्ठान करता है । ५।



कथं सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं
वहन्तीत्युच्यते—

वे सूर्यकी किरणोंद्वारा यजमानको
किस प्रकार ले जाती है, सो
बतलाया जाता है—

एह्येहीति तमाहुतयः सुवर्चसः

सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति ।

प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽर्चयन्त्य

एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥ ६ ॥

वे दीप्तिमती आहुतियाँ 'आओ, आओ, यह तुम्हारे सुकृतसे प्राप्त
हुआ पवित्र ब्रह्मलोक (स्वर्ग) है' ऐसी प्रियवाणी कहकर यजमानका
अर्चन (सत्कार) करती हुई उसे ले जाती है ॥ ६ ॥

एह्येहीत्याह्वयन्त्यः सुवर्च-
सो दीप्तिमत्यः किं च प्रियाम्
इष्टां वाचं स्तुत्यादिलक्षणामभि-
वदन्त्य उच्चारयन्त्योऽर्चयन्त्यः
पूजयन्त्यश्चैष वो युष्मार्कं पुण्यः
सुकृतः पन्था ब्रह्मलोकः फलरूपः ।
एवं प्रियां वाचमभिवदन्त्यो
वहन्तीत्यर्थः । ब्रह्मलोकः स्वर्गः
प्रकरणात् ॥ ६ ॥

वे दीप्तिमती आहुतियाँ 'आओ,
आओ' इस प्रकार पुकारती तथा प्रिय
यानी स्तुति आदिरूप इष्टवाणी बोल-
कर उसका अर्चन—पूजन करती हुई
अर्थात् 'यह तुम्हारे सुकृतका फल-
स्वरूप पवित्र ब्रह्मलोक है' इस
प्रकार प्रिय वाणी कहती हुई उसे
ले जाती है । यहाँ स्वर्गहीको
ब्रह्मलोक कहा है, क्योंकि प्रक-
रणसे यही ठोक मालूम होता है ॥६॥

ज्ञानरहित कर्मकी निन्दा

एतच्च ज्ञानरहितं कर्मैताव-
त्फलमविद्याकामकर्मकार्यमतो-
ऽसारं दुःखमूलमिति निन्द्यते—

इस प्रकार यह ज्ञानरहित कर्म
इतने ही फलवाला है । यह अविद्या
काम और कर्मका कार्य है; इसलिये
असार और दुःखकी जड़ है, सो
इसकी निन्दा की जाती है—

प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा

अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म ।

एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा

जरामृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥ ७ ॥

जिनमें [ज्ञानवाद्य होनेसे] अवर—निकृष्टकर्म आश्रित कहा गया
है वे [सोलह ऋत्विक् तथा यजमान और यजमानपत्नी] ये अठारह
यज्ञरूप (यज्ञके साधन) अस्थिर एवं नाशवान् बतलाये गये हैं । जो
मूढ 'यही श्रेय हैं' इस प्रकार इनका अभिनन्दन करते हैं, वे फिर भी
जरा-मरणको प्राप्त होते रहते हैं ॥ ७ ॥

प्लवा विनाशिन इत्यर्थः ।
 हि यस्मादेतेऽदृढा अस्थिरा यज्ञ-
 रूपा यज्ञस्य रूपाणि यज्ञरूपा
 यज्ञनिर्वर्तका अष्टादशाष्टादश-
 संख्याकाः षोडशत्विजः पत्नी
 यजमानश्चेत्यष्टादश, एतदाश्रयं
 कर्मोक्तं कथितं शास्त्रेण, येष्वष्टा-
 दशस्वरं केवलं ज्ञानवर्जितं कर्म;
 अतस्तेषामवरकर्मश्रयाणामष्टा-
 दशानामदृढतया प्लवत्वात्प्लवते
 सह फलेन तन्साध्यं कर्म ;
 कुण्डविनाशादिवत्क्षीरदध्यादीनां
 तन्स्थानां नाशः ।

यत एवमेतत्कर्म श्रेयः श्रेयः-
 करणमिति येऽभिनन्दन्त्यभि-
 हृष्यन्त्यविवेकिनो मूढा अतस्ते
 जरां च मृत्युं च जरा मृत्युं किञ्चि-
 त्कालं स्वर्गं स्थित्वा पुनरेवापि
 यन्ति भूयोऽपि गच्छन्ति ॥७॥

‘प्लव’ का अर्थ विनाशी है !
 क्योंकि सोलह ऋत्विक् तथा यजमान
 और पत्नी—ये अठारह यज्ञरूप—
 यज्ञके रूप यानी यज्ञके सम्पादक,
 जिनमें केवल ज्ञानरहित कर्म आश्रित
 है, अदृढ—अस्थिर हैं और शास्त्रोंमें
 इन्हींके आश्रित कर्म बतलाया
 है; अतः उस अवर कर्मके
 उन अठारह आश्रयोंके अदृढतावश
 प्लव अर्थात् विनाशशील होनेके
 कारण उनसे निष्पन्न होनेवाला कर्म,
 कुँडेके नाशसे उसमें रक्खे हुए दूध
 और दही आदिके नाशके समान,
 नष्ट हो जाता है ।

क्योंकि ऐसी बात है, इसलिये
 जो अविवेकी मूढ पुरुष ‘यह कर्म
 श्रेय यानी श्रेयका साधन है’ ऐसा
 मानकर अभिनन्दित—अत्यन्त
 हर्षित होते हैं वे इस (हर्ष) के
 द्वारा जरा और मृत्युको प्राप्त होते
 हैं; अर्थात् कुछ समय स्वर्गमें रहकर
 फिर भी उसी जन्म-मरणको प्राप्त
 हो जाते हैं ॥ ७ ॥

किञ्च—

तथा—

अविद्यायां बहुधा वर्तमाना

वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः ।

यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागा-

त्तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥ ९ ॥

बहुधा अविद्यामें ही रहनेवाले वे मूर्खलोग 'हम कृतार्थ हो गये हैं' इस प्रकार अभिमान किया करते हैं । क्योंकि कर्मठलोगोंको कर्मफल-विषयक रागके कारण तत्त्वका ज्ञान नहीं होता, इसलिये वे दुःखार्त्त होकर [कर्मफल क्षीण होनेपर] स्वर्गसे च्युत हो जाते हैं ॥ ९ ॥

अविद्यायां बहुधा बहुप्रकारं
वर्तमाना वयमेव कृतार्थाः कृत-
प्रयोजना इत्येवमभिमन्यन्त्यभि-
मानं कुर्वन्ति बाला अज्ञानिनः ।
यद्यस्मादेवं कर्मिणो न प्रवेदयन्ति
तत्त्वं न जानन्ति रागात्कर्मफल-
रागाभिभवनिमित्तं तेन कारणेन
आतुरा दुःखार्ताः सन्तः
क्षीणलोकाः क्षीणकर्मफलाः
स्वर्गलोकाश्च्यवन्ते ॥ ९ ॥

अविद्यामें बहुधा—अनेक प्रकारसे
विद्यमान वे अज्ञानी पुरुष 'केवल
हम ही कृतार्थ—कृतकृत्य हो गये
हैं' इसी प्रकार अभिमान किया
करते हैं । क्योंकि इस प्रकार वे
कर्मलोग रागवश यानी कर्मफल-
सम्बन्धी रागसे बुद्धिके अभिभूत
हो जानेके कारण तत्त्वको नहीं
जान पाते इसलिये वे आतुर—
दुःखार्त्त होकर कर्मफल क्षीण हो
जानेपर स्वर्गसे च्युत हो जाते हैं ॥९॥

इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं

नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः ।

नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वे-

मं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥ १० ॥

इष्ट और पूर्त कर्मोंको ही सर्वोत्तम माननेवाले वे महामूढ किसी अन्य वस्तुको श्रेयस्कर नहीं समझते । वे स्वर्गलोकके उच्च स्थानमें अपने कर्मफलोंका अनुभव कर इस [मनुष्य] लोक अथवा इससे भी निकृष्ट लोकमें प्रवेश करते हैं ॥ १० ॥

इष्टं यागादि श्रौतं कर्म,
 पूर्तं वापीकूपतडागादि स्मार्तं
 मन्यमाना एतदेवातिशयेन
 पुरुषार्थसाधनं वरिष्ठं प्रधानमिति
 चिन्तयन्तोऽन्यदात्मज्ञानारूप्यं
 श्रेयःसाधनं न वेदयन्ते न जान-
 न्ति, प्रमूढाः पुत्रपशुबन्धादिपु-
 प्रमत्ततया मूढाः । ते च नाकस्य
 स्वर्गस्य पृष्ठ उपरिस्थाने सुकृते
 भोगायतनेऽनुभूत्वानुभूय कर्म-
 फलं पुनरिमं लोकं मानुषमस्माद्वीन-
 तरं वा तिर्यङ्ग्नरकादिलक्षणं
 यथाकर्मशेषं विशन्ति ॥१०॥

इष्ट यानी यागादि श्रौतकर्म और पूर्त—वापी-कूप-तडागादि स्मार्तकर्म 'ये ही अधिकतासे पुरुषार्थके साधन हैं, अतः ये ही सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान हैं' इस प्रकार मानते अर्थात् चिन्तन करते हुए वे प्रमूढ—प्रमत्ततावश पुत्र, पशु और बान्धवादिमें मूढ हुए लोग आत्मज्ञानसंज्ञक किसी और श्रेयःसाधनको नहीं जानते । वे नाक यानी स्वर्गके पृष्ठ—उच्च स्थानमें अपने सुकृत—भोगायतन (पुण्यभोगके लिये प्राप्त हुए दिव्य देह) में कर्मफलका अनुभव कर अपने अवशिष्ट कर्मानुसार फिर इसी मनुष्यलोक अथवा इससे निकृष्टतर तिर्यङ्ग्नरकादिरूप योनियोंमें प्रवेश करते हैं ॥ १० ॥



तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये

शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्यां चरन्तः ।

सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति

यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ ११ ॥

किन्तु जो शान्त और विद्वान् लोग वनमें रहकर भिक्षावृत्तिका आचरण करते हुए तप और श्रद्धाका सेवन करते हैं वे पापरहित होकर सूर्यद्वार (उत्तरायणमार्ग) से वहाँ जाते हैं जहाँ वह अमृत और अव्यय-स्वरूप पुरुष रहता है ॥११॥

ये पुनस्तद्विपरीता ज्ञानयुक्ता
वानप्रस्थाः संन्यासिनश्च तपःश्रद्धे
हि तपः स्वाश्रमविहितं कर्म
श्रद्धा हिरण्यगर्भादिविषया विद्याः
ते तपःश्रद्धे उपवसन्ति सेवन्ते-
ऽरण्ये वर्तमानाः सन्तः; शान्ता
उपरतकरणग्रामाः; विद्वांसो
गृहस्थाश्च ज्ञानप्रधाना इत्यर्थः ।
भैक्ष्यचर्या चरन्तः परिग्रहाभा-
वादुपवसन्त्यरण्य इति सम्बन्धः
सूर्यद्वारेण सूर्योपलक्षितेनोत्तराय-
णेन पथा ते विरजा विरजसः
क्षीणपुण्यपापकर्माणः सन्त
इत्यर्थः; प्रयान्ति प्रकर्षेण यान्ति
यत्र यस्मिन्सत्यलोकादावमृतः
स पुरुषः प्रथमजो हिरण्यगर्भो
ह्यव्ययात्माव्ययस्वभावो यावत्सं-
सारस्थायी । एतदन्तास्तु संसार-
गतयोऽपरविद्यागम्याः ।

किन्तु इसके विपरीत जो ज्ञानसम्पन्न वानप्रस्थ और संन्यासी लोग तप और श्रद्धाका—अपने आश्रमविहित कर्मका नाम 'तप' है और हिरण्यगर्भादिविषयक विद्याको 'श्रद्धा' कहते हैं, उन तप और श्रद्धाका वनमें रहकर सेवन करते हैं; तथा जो शान्त—जिनकी इन्द्रियाँ विषयोंसे निवृत्त हो गयी हैं ऐसे विद्वान् लोग तथा ज्ञान-प्रधान गृहस्थ लोग परिग्रह न करनेके कारण भिक्षाचर्याका आचरण करते हुए वनमें रहते हैं वे विरज अर्थात् जिनके पाप-पुण्य क्षीण हो गये हैं ऐसे होकर सूर्यद्वारसे—सूर्योपलक्षित उत्तरमार्गसे वहाँ प्रयाण करते—प्रकर्षतः गमन करते हैं जहाँ—जिस सत्यलोकादिमें वह अमृत और अव्ययात्मा—संसारकी स्थितिपर्यन्त रहनेवाला अव्यय-स्वभाव पुरुष अर्थात् सबसे पहले उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ रहता है । अपरा विद्यासे प्राप्त होनेवाली सांसारिक गतियाँ तो बस यहाँ-तक हैं ।


ननु-एतं मोक्षमिच्छन्ति
केचित् ।

न; “इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति
कामाः” (मु० उ० ३।२।२)
“ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा
युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति”
(मु० उ० ३।२।५) इत्यादि-
श्रुतिभ्योऽप्रकरणाच्च । अपर-
विद्याप्रकरणे हि प्रवृत्ते न ह्यक-
स्मान्मोक्षप्रसङ्गोऽस्ति । विरज-
स्त्वं त्वापेक्षिकम् । समस्तमपर-
विद्याकार्यं साध्यसाधनलक्षणं
क्रियाकारकफलभेदभिन्नं द्वैतम्
एतावदेव यद्विरण्यगर्भप्राप्त्यव-
सानम् । तथा च मनुनोक्तं स्था-
वराद्यां संसारगतिमनुक्रामता
“ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महान-
व्यक्तमेव च । उत्तमां सात्त्वि-

शक्ता-परन्तु कोई-कोई तो
इसीको मोक्ष समझते हैं ?

समाधान-ऐसा समझना उचित
नहीं है । “उसकी सम्पूर्ण कामनाएँ
यहीं लीन हो जाती है” “वे संयतचित्त
धीर पुरुष उस सर्वगत ब्रह्मको
सब ओर प्राप्त कर सभीमें प्रवेश कर
जाते हैं” इत्यादि श्रुतियोंसे [ब्रह्म-
वेत्ताको इसी लोकमें सम्पूर्ण कामना-
ओंसे मुक्ति और सर्वात्मभावकी प्राप्ति
बतलायी गयी है] । इसके सिवा
यह मोक्षका प्रकरण भी नहीं है ।
अपरा विद्याके प्रकरणके चालू
रहते हुए अकस्मात् मोक्षका प्रसङ्ग
नहीं आ सकता । और उसकी
विरजस्कृता (निष्पापता) तो
आपेक्षिक है । अपरा विद्याका
साध्य-साधनरूप, क्रिया-कारक
और फलरूप भेदोंसे भिन्न तथा
द्वैतरूप समस्त कार्य इतना ही है
जिसका कि हिरण्यगर्भकी प्राप्तिमें
पर्यवसान होता है । स्थावरोसे
लेकर क्रमशः संसारगतिकी गणना
करते हुए मनुजीने भी ऐसा ही
कहा है—“ब्रह्मा, मरीचि आदि
प्रजापतिगण, यमराज, महत्तत्त्व
और अव्यक्त [इनके लोकोंको प्राप्त

कीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः” होना]—यह विद्वानोंने उत्तम
(मनु० १२।५०) इति ॥ ११ ॥ सात्त्विकी गति बतलायी है” ॥ ११ ॥



ऐहिक और पारलौकिक भोगोंकी असारता देखनेवाले पुरुषके लिये
संन्यास और गुरूपसदनका विधान

अथेदानीमस्मात्साध्यसाधन- | तत्पश्चात् अब इस साध्य-
रूपात्मवस्मात्संसारद्विरक्तस्य | साधनरूप सम्पूर्ण संसारसे विरक्त
परस्यां विद्यायामधिकारप्रदर्श- | हुए पुरुषका परा विद्यामें अधिकार
नार्थमिदमुच्यते— | दिखानेके लिये यह कहा जाता है—

परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्ब्राह्मणो

निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन ।

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्

समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥ १२ ॥

कर्मद्वारा प्राप्त हुए लोकोंकी परीक्षा कर ब्राह्मण निर्वेदको प्राप्त हो
जाय, [क्योंकि संसारमें] अकृत (नित्य पदार्थ) नहीं है, और कृतसे
[हमें प्रयोजन क्या है ?] अतः उस नित्य वस्तुका साक्षात् ज्ञान प्राप्त
करनेके लिये तो हाथमे समिधा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरुके ही
पास जाना चाहिये ॥ १२ ॥

परीक्ष्य यदेतद्गवेदाद्यपर- | यह जो ऋग्वेदादि अपरविद्या-
विद्याविषयं स्वाभाविक्यविद्या- | विषयक, तथा अविद्यादि दोषयुक्त
कामकर्मदापवत्पुरुषानुष्ठेयम- | पुरुषके लिये ही विहित होनेके
विद्यादिदोषवन्तमेव पुरुषं प्रति | कारण स्वभावसे ही अविद्या काम
विहितत्वात्तदनुष्ठानकार्यभूताश्च | और कर्मरूपदोषसे युक्त पुरुषोंद्वारा
अनुष्ठान किये जानेयोग्य कर्म है
तथा उसके अनुष्ठानके कार्यभूत

लोका ये दक्षिणोत्तरमार्गलक्षणाः
 फलभूताः, ये च विहिताकरण-
 प्रतिषेधातिक्रमदोषसाध्या नरक-
 तिर्यक्प्रेतलक्षणास्तानेतान्परीक्ष्य
 प्रत्यक्षानुमानोपमानागमैः सर्वतो
 याथात्म्येनावधार्य लोकान्
 संसारगतिभूतान् अव्यक्तादि-
 स्थावरान्तान्व्याकृताव्याकृत-
 लक्षणान् ब्रीजाङ्कुरवदितरेतरोत्प-
 त्तिनिमित्ताननेकानर्थशतसहस्र-
 सङ्कुलान्कदलीगर्भवदसारान्
 मायामरीच्युदकगन्धर्वनगराकार-
 स्वप्नजलबुद्बुदफेनसमान्प्रति-
 क्षणप्रध्वंसान्पृष्ठतः कृत्वाविद्या-
 कामदोषप्रवर्तितकर्मचितान्धर्मा-
 धर्मनिर्वर्तितानित्येतत् । ब्राह्मण-
 स्यैव विशेषतोऽधिकारः सर्वत्या-
 गेन ब्रह्मविद्यायामिति ब्राह्मण-
 ग्रहणम् । परीक्ष्य लोकान्किं कुर्यात्

अर्थात् फलस्वरूप दक्षिण एवं
 उत्तरमार्गरूप लोक हैं और विहित
 कर्मके न करने एवं प्रतिषिद्धके
 करनेके दोषसे प्राप्त होनेवाली जो
 नरक, तिर्यक् तथा प्रेतादि योनियाँ हैं
 उन इन सभीकी परीक्षा कर अर्थात्
 प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और
 आगम—इन चारों प्रमाणोंसे सब
 प्रकार उनका यथावत् निश्चय कर
 जो बीज और अङ्कुरके समान
 एक-दूसरेकी उत्पत्तिके कारण हैं,
 अनेकों—सैकड़ों-हजारों अनर्थोंसे
 व्याप्त हैं, केलेके भीतरी भागके
 समान सारहीन हैं, माया, मृगजल
 और गन्धर्वनगरके समान भ्रमपूर्ण
 तथा स्वप्न, जलबुद्बुद और फेनके
 सदृश क्षण-क्षणमें नष्ट होनेवाले
 हैं और अविद्या एवं कामरूप दोषसे
 प्रवर्तित कर्मोंसे प्राप्त यानी धर्मा-
 धर्मजनित हैं उन व्यक्त-अव्यक्तरूप
 तथा संसारगतिभूत अव्यक्तसे लेकर
 स्थावरपर्यन्त समस्त लोकोंकी
 ओरसे मुख मोड़कर ब्राह्मण
 [उनसे विरक्त हो जाय] । सर्व-
 त्यागके द्वारा ब्राह्मणका ही ब्रह्म-
 विद्यामें विशेषरूपसे अधिकार है;
 इसलिये यहाँ 'ब्राह्मण' पदका ग्रहण
 किया गया है । इस प्रकार लोकोंकी
 परीक्षा कर वह क्या करे, सो बत-

इत्युच्यते—निर्वेदम् । निःपूर्वो
विदिरत्र वैराग्यार्थे वैराग्य-
मायात्कुर्यादित्येतत् ।

स वैराग्यप्रकारः प्रदर्श्यते ।

इह संसारे नास्ति कश्चिदप्यकृतः
पदार्थः । सर्व एव हि लोकाः
कर्मचिताः कर्मकृतत्वाच्चानित्याः,
न नित्यं किञ्चिदस्तीत्यभिप्रायः ।
सर्वं तु कर्मानित्यस्यैव साधनम् ।
यस्माच्चतुर्विधमेव हि सर्वं कर्म
कार्यमुत्पाद्यमाप्यं संस्कार्यं
विकार्यं वा, नातः परं कर्मणो
विशेषोऽस्ति । अहं च नित्येन
अमृतेनाभयेन कूटस्थेनाचलेन
ध्रुवणार्थेनार्थी न तद्विपरीतेन ।
अतः किं कृतेन कर्मणायासबहु-
लेनानर्थसाधनेनेत्येवं निर्विण्णो-
ऽभयं शिवमकृतं नित्यं पदं
यत्तद्विज्ञानार्थं विशेषेणाधिगमार्थं
स निर्विण्णो ब्राह्मणो गुरुमेवा-
चार्यं शमदमदयादिसम्पन्नमभि-
गच्छेत् । शास्त्रज्ञोऽपि स्वातन्त्र्येण

ठाते हैं—‘निर्वेद करे’ । यहाँ ‘नि’
पूर्वक ‘विद्’ धातु वैराग्य अर्थमें है;
अतः तात्पर्य यह है कि ‘वैराग्य करे’ ।

अत्र वह वैराग्यका प्रकार
दिखलाया जाता है । इस संसारमें
कोई भी अकृत (नित्य) पदार्थ
नहीं है । सभी लोक कर्मसे सम्पादन
किये जानेवाले हैं और कर्मकृत
होनेके कारण अनित्य हैं । तात्पर्य
यह कि इस संसारमें नित्य कुछ भी
नहीं है । सारा कर्म अनित्य फलका
ही साधन है । क्योंकि सारे कर्म,
कार्य, उत्पाद्य, आप्य और विकार्य
अथवा संस्कार्य चार ही प्रकारके
हैं, इनसे भिन्न कर्मका और कोई
प्रकार नहीं है । किन्तु मैं तो एक
नित्य, अमृत, अभय, कूटस्थ, अचल
और ध्रुव पदार्थकी इच्छा करनेवाला
हूँ; उससे विपरीत स्वभाववालेकी
मुझे आवश्यकता नहीं है । अतः
इस श्रमबहुल एवं अनर्थके साधन-
भूत कृत—कर्मसे मुझे क्या प्रयो-
जन है ? इस प्रकार विरक्त होकर जो
अभय, शिव, अकृत और नित्य-
पद है उसके विज्ञानके लिये—
विशेषतया जाननेके लिये वह विरक्त
ब्राह्मण शम-दमादिसम्पन्न गुरु यानी
आचार्यके पास ही जाय । शास्त्रज्ञ
होनेपर भी स्वतन्त्रतापूर्वक ब्रह्मज्ञान-

ब्रह्मज्ञानान्वेषणं न कुर्यादित्येतद्
गुरुमेवेत्यवधारणफलम् ।

समित्पाणिः समिद्धारगृहीत-
हस्तः श्रोत्रियमध्ययनश्रुतार्थ-
सम्पन्नं ब्रह्मनिष्ठं हित्वा सर्व-
कर्माणि केवलेऽद्वये ब्रह्मणि निष्ठा
यस्य सोऽयं ब्रह्मनिष्ठो जपनिष्ठ-
स्तपोनिष्ठ इति यद्वत् । न हि
कर्मिणो ब्रह्मनिष्ठता सम्भवति
कर्मात्मज्ञानयोर्विरोधात् । म
तं गुरुं विधिवदुपसन्नः प्रसाद्य
पृच्छेदक्षरं पुरुषं सत्यम् ॥१२॥

का अन्वेषण न करे—यही 'गुरुमेव'
इस पदसमूहमें आये हुए निश्चयात्मक
'एव' पदका अभिप्राय है ।

समित्पाणिः अर्थात् हाथमें
समिधाओंका भार लेकर श्रोत्रिय
यानी अध्ययन और श्रवण किये
अर्थसे सम्पन्न तथा ब्रह्मनिष्ठ
[गुरुके पास जाय]—सम्पूर्ण
कर्मोंको त्यागकर जिसकी केवल
अद्वितीय ब्रह्ममें ही निष्ठा है वह
ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है; जपनिष्ठ
तपोनिष्ठ आदिके समान ही यह
'ब्रह्मनिष्ठ' शब्द है । कर्मठ पुरुषको
ब्रह्मनिष्ठा कर्मी नहीं हो सकती,
क्योंकि कर्म और आत्मज्ञानका
परस्पर विरोध है । इस प्रकार उन
गुरुदेवके पास विधिपूर्वक जाकर
उन्हे प्रसन्न कर सत्य और अक्षर
पुरुषके सम्बन्धमें पूछे ॥ १२ ॥

गुरुके लिये उपदेशप्रदानकी विधि

तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्य-

कप्रशान्तचित्ताय शमान्विताय ।

येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं

प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥ १३ ॥

वह विद्वान् गुरु अपने समीप आये हुए उस पूर्णतया शान्तचित्त एवं जितेन्द्रिय शिष्यको उस ब्रह्मविद्याका तत्त्वतः उपदेश करे जिससे उस सत्य और अक्षर पुरुषका ज्ञान होता है ॥ १३ ॥

तस्मै स विद्वान् गुरुर्ब्रह्मविद् वह विद्वान्—ब्रह्मवेत्ता गुरु अपने समीप आये हुए उस सम्यक्—यथाशास्त्र प्रशान्तचित्त—गर्व आदि दोषोसे रहित तथा शमसम्पन्न—बाह्य इन्द्रियोंकी उपरतिसे युक्त और सब ओरसे विरक्त हुए शिष्यको, जिस विज्ञान अथवा जिस परा विद्यासे उस अद्रेस्यादि विशेषणवाले तथा पूर्ण होने या शरीररूप पुरमे शयन करनेके कारण 'पुरुष' शब्दवाच्य अक्षरको, जो क्षरण (च्युत होना) क्षत (व्रण) और क्षय (नाश) से रहित होनेके कारण 'अक्षर' कहलाता है, जानता है उस ब्रह्मविद्याका तत्त्वतः—यथावत् उपदेश करे—यह इसका भावार्थ है । आचार्यके लिये भी यही नियम है कि न्यायानुसार अपने समीप आये हुए सच्छिष्यको अविद्यामहासमुद्रसे पार कर दे ॥ १३ ॥

इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषद्भाष्ये प्रथममुण्डके

द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

समाप्तमिदं प्रथमं मुण्डकम् ।

द्वितीय मण्डक

—०५०—

प्रथम खण्ड

अपरविद्यायाः सर्वं कार्य-
मुक्तम् । स च
वक्ष्यमाणग्रन्थस्य
प्रयोजनम्
मंसारो यत्सारो
यस्मान्मूलादक्षरात्
सम्भवति यस्मिंश्च प्रलीयते तद-
क्षरं पुरुषाख्यं सत्यम् । यस्मिन्
विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति
तत्परस्या ब्रह्मविद्याया विषयः
स वक्तव्य इत्युत्तरो ग्रन्थ
आरभ्यते—

यहाँतक अपरा विद्याका सारा
कार्य कहा । यही संसार है;
उसका जो सार है, जिस अपने
मूलभूत अक्षरसे वह उत्पन्न होता
है और जिसमें उसका लय होता
है वह पुरुषसंज्ञक अक्षरब्रह्म ही
सत्य है, जिसका ज्ञान होनेपर यह
सब कुछ जान लिया जाता है,
वह परा विद्याका विषय है । उसे
बतलाना है, इसीलिये आगेका
ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है—

अग्निसे स्फुलिङ्गोंके समान ब्रह्मसे जगत्की उत्पत्ति

तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिङ्गाः

सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः ।

तथाक्षराद्विधाः सोम्य भावाः

प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति ॥ १ ॥

वह यह (अक्षरब्रह्म) सत्य है । जिस प्रकार अत्यन्त प्रदीप्त
अग्निसे उसीके समान रूपवाले हजारों स्फुलिङ्ग (चिनगारियाँ) निकलते
हैं, हे सोम्य ! उसी प्रकार उस अक्षरसे अनेकों भाव प्रकट होते हैं
और उसीमें लीन हो जाते हैं ॥ १ ॥

यदपरविद्याविषयं कर्मफल-
लक्षणं सत्यं तदापेक्षिकम् । इदं
तु परविद्याविषयं परमार्थसल्लक्षण-
त्वात् । तदेतत्सत्यं यथाभूतं
विद्याविषयम्, अविद्याविषय-
त्वाच्चानुतमितरत् । अत्यन्तपरो-
क्षत्वात्कथं नाम प्रत्यक्षवत्सत्य-
मक्षरं प्रतिपद्येरन्निति दृष्टान्तमाह—

यथा सुदीप्तात्सुष्टु दीप्ताद्
इद्रात्पावकादग्नेर्विस्फुलिङ्गा
अग्न्यवयवाः सहस्रशोऽनेकशः
प्रभवन्ते निर्गच्छन्ति सरूपा अग्नि-
सलक्षणा एव तथोक्तलक्षणात्
अक्षराद्विविधा नानादेहोपाधि-
भेदमनुविधीयमानत्वाद्विविधा हे
सोम्य भावा जीवा आकाशादिव
घटादिपरिच्छिन्नाः सुषिरभेदा
घटाद्युपाधिप्रभेदमनुभवन्ति,
एवं नानानामरूपकृतदेहोपाधि-

जो अपरा विद्याका विषय
कर्मफलरूप सत्य है वह आपेक्षिक
है; परन्तु यह परा विद्याका विषय
परमार्थसत्स्वरूप होनेके कारण
[निरपेक्ष सत्य है] । वह यह
विद्याविषयक सत्य ही यथार्थ सत्य
है; इससे इतर तो अविद्याका
विषय होनेके कारण मिथ्या
है । उस सत्य अक्षरको अत्यन्त परोक्ष
होनेके कारण किस प्रकार प्रत्यक्षवत्
जाने ? इसके लिये श्रुतिने यह
दृष्टान्त दिया है—

जिस प्रकार सुदीप्त—अच्छी-
तरह दीप्त अर्थात् प्रज्वलित हुए
अग्निसे उसीके-से रूपवाले सहस्रों-
अनेकों विस्फुलिङ्ग—अग्निके
अवयव निकलते हैं उसी प्रकार हे
सोम्य ! उक्त लक्षणवाले अक्षर
ब्रह्मसे विविध—अनेक देहरूप
उपाधिभेदके अनुसार विहित होनेके
कारण अनेक प्रकारके भाव—
जीव उस नाना नाम-रूपकृत
देहोपाधिके जन्मके साथ उसी
प्रकार उत्पन्न हो जाते हैं जैसे
घटादि उपाधिभेदके अनुसार
आकाशसे उन घटादिसे परिच्छिन्न
बहुतसे छिद्र (घटाकाशादि) ।

प्रभवमनुप्रजायन्ते तत्र चैव
तस्मिन्नेवाक्षरेऽपि यन्ति देहोपाधि-
विलयमनुलीयन्ते घटादिविलय-
मन्विव सुषिरभेदाः ।

यथाकाशस्य सुषिरभेदोत्पत्ति-
प्रलयनिमित्तत्वं घटाद्युपाधि-
कृतमेव तद्वदक्षरस्यापि नामरूप-
कृतदेहोपाधिनिमित्तमेव जीवो-
त्पत्तिप्रलयनिमित्तत्वम् ॥ १ ॥

तथा जिस प्रकार घटादिके नष्ट होनेपर वे [घटाकाशादि] छिद्र लीन हो जाते हैं उसी प्रकार देहरूप उपाधिके लीन होनेपर वे सब उस अक्षरमें ही लीन हो जाते हैं ।

जिस प्रकार छिद्रभेदोंकी उत्पत्ति और प्रलयमें आकाशका निमित्तत्व घटादि उपाधिके ही कारण है उसी प्रकार जीवोंकी उत्पत्ति और प्रलयमें नामरूपकृत देहोपाधिके कारण ही अक्षरब्रह्मका निमित्तत्व है ॥ १ ॥



नामरूपबीजभूतादव्याकृता-
ख्यात्स्वविकारापेक्षया परादक्ष-
रात्परं यत्सर्वोपाधिभेदवर्जित-
मक्षरस्यैव स्वरूपमाकाशस्येव
सर्वमूर्तिवर्जितं नेति नेतीत्यादि-
विशेषणं विवक्षन्नाह—

अपने विकारोंकी अपेक्षा महान् तथा नामरूपके बीजभूत अव्याकृत-संज्ञक अक्षरसे भी उत्कृष्ट जो अक्षर परमात्माका आकाशके समान सब प्रकारके आकारोंसे रहित 'नेति नेति' इत्यादि वाक्योंसे विशेषित एवं सम्पूर्ण औपाधिक भेदोंसे रहित स्वरूप है उसे ब्रतलानेकी इच्छासे श्रुति कहती है—

ब्रह्मका पारमार्थिक स्वरूप

दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः ।

अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ॥ २ ॥

[वह अक्षर ब्रह्म] निश्चय ही दिव्य, अमूर्त, पुरुष, बाहर-भीतर विद्यमान, अजन्मा, अप्राण, मनोहीन, विशुद्ध एवं [अपने कार्यवर्गकी अपेक्षा] श्रेष्ठ अक्षर (अव्याकृत प्रकृति) से भी उत्कृष्ट है ॥ २ ॥

दिव्यो द्योतनवान्स्वयंज्यो-
तिष्ठात् । दिवि वा स्वात्मनि
भवोऽलौकिको वा । हि यस्माद-
मूर्तः सर्वमूर्तिवर्जितः पुरुषः पूर्णः
पुरिशयो वा, दिव्यो ह्यमूर्तः
पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरः सह
बाह्याभ्यन्तरेण वर्तते इति ।
अजो न जायते कुतश्चित्स्वतोऽ-
न्यस्य जन्मनिमित्तस्य चाभावात्;
यथा जलबुद्बुदादेर्वाय्वादि,
यथा नभःसुषिरभेदानां घटादि ।
सर्वभावविकाराणां जनिमूलत्वात्
तत्प्रतिषेधेन सर्वे प्रतिषिद्धा
भवन्ति । सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजोऽ-
तोऽजरोऽमृतोऽक्षरो ध्रुवोऽभय
इत्यर्थः ।

[वह अक्षरब्रह्म] स्वयंप्रकाश होनेके कारण दिव्य—प्रकाशित होनेवाला है, अथवा दिवि—अपने स्वरूपमें ही स्थित या अलौकिक है; क्योंकि वह अमूर्त—सब प्रकारके आकारसे रहित, पुरुष—पूर्ण अथवा शरीररूप पुरमें शयन करनेवाला, सबाह्याभ्यन्तर—बाहर और भीतरके सहित सर्वत्र वर्तमान और अज—जो किसीसे उत्पन्न न हो—ऐसा है; क्योंकि अपनेसे भिन्न कोई उसके जन्मका निमित्त है ही नहीं; जिस प्रकार कि जलसे उत्पन्न होनेवाले बुद्बुदोंका कारण वायु आदि है तथा घटाकाशादि भेदोंका हेतु घट आदि पदार्थ हैं [उसी प्रकार उस अजन्माके जन्मका कोई भी कारण नहीं है] । वस्तुके सारे विकारोंका मूल जन्म ही है; अतः उस (जन्म) का प्रतिषेध कर दिये जानेपर वे सभी प्रतिषिद्ध हो जाते हैं । क्योंकि वह परमात्मा सबाह्याभ्यन्तर अज है इसलिये वह अजर, अमर, अक्षर, ध्रुव और भयगून्य है—यह इसका तात्पर्य है ।

यद्यपि देहाद्युपाधिभेददृष्टी-
नामविद्यावशाद् देहभेदेषु सप्राणः
समनाः सेन्द्रियः सविषय इव
प्रत्यवभासते तलमलादिमदिव
आकाशं तथापि तु स्वतः परमार्थ-
दृष्टीनामप्राणोऽविद्यमानः क्रिया-
शक्तिभेदवांश्चलनात्मको वायुर्य-
स्मिन्नसावप्राणः । तथामना अनेक-
ज्ञानशक्तिभेदवत्सङ्कल्पाद्यात्मकं
मनोऽप्यविद्यमानं यस्मिन्सोऽय-
ममनाः । अप्राणो ह्यमनाश्चेति
प्राणादिवायुभेदाः कर्मेन्द्रियाणि
तद्विषयाश्च तथा च बुद्धिमनसी
बुद्धीन्द्रियाणि तद्विषयाश्च प्रति-
षिद्धा वेदितव्याः । तथा श्रुत्य-
न्तरे—“ध्यायतीव लेलायतीव”
(बृ० उ० ४ । ३ । ७) इति ।

यस्माच्चैवं प्रतिषिद्धोपाधिद्वयः
तस्माच्छुभ्रः शुद्धः । अतोऽक्ष-
रात्नामरूपबीजोपाधिलक्षितस्व-

जिस प्रकार [दृष्टिदोषसे]
आकाश तल-मलादियुक्त भासता है
उसी प्रकार देहादि उपाधिभेदमें
दृष्टि रखनेवालोंको यद्यपि विभिन्न
देहोंमें [वह अक्षर ब्रह्म] प्राण,
मन, इन्द्रिय एवं विषयसे युक्त-सा
भासता है तो भी परमार्थस्वरूप-
दर्शियोंको तो वह अप्राण—जिसमें
क्रियाशक्तिभेदवाला चलनात्मक
वायु न रहता हो तथा अमना—
जिसमें ज्ञानशक्तिके अनेकों भेदवाला
सङ्कल्पादिरूप मन भी न हो,
[इस प्रकार प्राण और मनसे रहित
हीं भासता है ।] ‘अप्राणः’ और
‘अमनाः’ इन दोनों विशेषणोंसे
प्राणादि वायुभेद, कर्मेन्द्रियाँ और
उनके विषय तथा बुद्धि, मन,
ज्ञानेन्द्रियाँ और उनके विषय
प्रतिषिद्ध हुए समझने चाहिये;
जैसा कि एक दूसरी श्रुति उसे
‘मानो ध्यान करता हुआ-सा, मानो
चेष्टा करता हुआ-सा’—ऐसा
बतलाती है ।

इस प्रकार क्योंकि वह [प्राण
और मन इन] दोनों उपाधियोंसे
रहित है इसलिये वह शुभ्र—शुद्ध
है । अतः नाम-रूपकी बीजभूत
उपाधिसे जिसका स्वरूप लक्षित

रूपात्सर्वकार्यकरणबीजत्वेनोप-
लक्ष्यमाणत्वात्परं तदुपाधिलक्षण-
मव्याकृताख्यमक्षरं सर्वविकारेभ्यः
तस्मात्परतोऽक्षरात्परो निरु-
पाधिकः पुरुष इत्यर्थः ।

यस्मिंस्तदाकाशाख्यमक्षरं
संव्यवहारविषयमोतं प्रोतं च
कथं पुनरप्राणादिमत्त्वं तस्येत्यु-
च्यते । यदि हि प्राणादयः प्रागु-
त्पत्तेः पुरुष इव स्वेनात्मना
सन्ति तदा पुरुषस्य प्राणादिना
विद्यमानेन प्राणादिमत्त्वं भवेन्न
तु ते प्राणादयः प्रागुत्पत्तेः
पुरुष इव स्वेनात्मना सन्ति
तदा, अतोऽप्राणादिमान्परः
पुरुषः; यथानुत्पन्ने पुत्रेऽपुत्रो
देवदत्तः ॥ २ ॥

होता है उस अक्षरसे—सम्पूर्ण
कार्य-करणके बीजरूपसे उपलक्षित
होनेके कारण उन उपाधियोंवाला
अव्याकृतसंज्ञक वह अक्षर अपने
सम्पूर्ण विकारसे श्रेष्ठ है; उस सर्वोत्कृष्ट
अक्षरसे भी वह निरुपाधिक पुरुष
उत्कृष्ट है—ऐसा इसका तात्पर्य है ।

किन्तु जिसमें सम्पूर्ण व्यवहार-
का विषयभूत वह आकाशसंज्ञक
अक्षरतत्त्व ओतप्रोत है वह
प्राणादिसे रहित कैसे हो सकता
है ? ऐसी शङ्का होनेपर कहते
हैं—यदि प्राणादि अपनी उत्पत्तिसे
पूर्व भी पुरुषके समान स्वरूपसे
विद्यमान रहते तो उन विद्यमान
प्राणादिके कारण पुरुषका प्राणादि-
युक्त होना माना जा सकता था ।
किन्तु उस समय वे अपनी उत्पत्तिसे
पूर्व पुरुषके समान स्वरूपतः हैं नहीं;
इसलिये, जिस प्रकार पुत्र उत्पन्न न
होनेतक देवदत्त पुत्रहीन कहा जाता
है उसी प्रकार परम पुरुष भी
अप्राणादिमान् है ॥ २ ॥



ब्रह्मका सर्वकारणत्व

कथं ते न सन्ति प्राणादयः | वे प्राणादि उस अक्षरमें क्यों
इत्युच्यते, यस्मात्— | नहीं हैं? सो बतल्यते हैं—क्योंकि—

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।

खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३ ॥

इस (अक्षर पुरुष) से ही प्राण उत्पन्न होता है तथा इससे ही मन, सम्पूर्ण इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, तेज, जल और सारे संसारको धारण करनेवाली पृथिवी [उत्पन्न होती है] ॥ ३ ॥

एतस्मादेव पुरुषान्नामरूप- नाम-रूपकी बीजभूत [अविद्या-
बीजोपाधिलक्षिताज्जायत उत्प- रूप] उपाधिसे उपलक्षित* इस
द्यतेऽविद्याविषयविकारभूतो नाम- पुरुषसे ही अविद्याका विषय
विकारभूत केवल नाममात्र तथा
धेयोऽनृतात्मकः प्राणः “वाचा- मिथ्या प्राण उत्पन्न होता है; जैसा
रम्भणं विकारो नामधेयम्” कि “विकार वाणीका विलास और
(छा० उ० ६ । १ । ४) “अनृ- नाममात्र है” “वह मिथ्या है” ऐसी
तम्” इति श्रुत्यन्तरात् । न हि अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है । उस
तेनाविद्याविषयेणानृतेन प्राणेन अविद्याविषयक मिथ्या प्राणसे
सप्राणत्वं परस्य स्यादपुत्रस्य परब्रह्मका सप्राणत्व सिद्ध नहीं
स्वप्नदृष्टेनेव पुत्रेण सपुत्रत्वम् । हो सकता, जैसे कि स्वप्नमें देखें हुए
पुत्रसे पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान् नहीं हो सकता ।

एवं मनः सर्वाणि चेन्द्रियाणि | इस प्रकार मन, सम्पूर्ण इन्द्रियाँ
विषयाश्चैतस्मादेव जायन्ते । और उनके विषय भी इसीसे उत्पन्न

* निरुपाधिक विशुद्ध ब्रह्ममें किसी भी विकारकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है । इसलिये जब उससे किसीकी उत्पत्तिका प्रतिपादन किया जायगा तो उसमें अविद्या या मायाके सम्बन्धका आरोप करके ही किया जायगा ।

तस्मात्सिद्धमस्य निरुपचरित-
मप्राणादिमन्वमित्यर्थः । यथा च
प्रागुत्पत्तेः परमार्थतोऽसन्तस्तथा
प्रलीनाश्चेति द्रष्टव्याः । यथा
करणानि मनश्चेन्द्रियाणि तथा
शरीरविषयकारणानि भूतानि
ग्वमाकाशं वायुरन्तर्बाह्य आव-
हादिभेदः, ज्योतिरग्निः, आप
उदकम्, पृथिवी धरित्री
विश्वस्य सर्वस्य धारिणी एतानि च
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धोत्तरोत्तर-
गुणानि पूर्वपूर्वगुणमहितान्ये-
तस्मादेव जायन्ते ॥ ३ ॥

होते हैं । अतः उसका मुख्यरूपसे
अप्राणादिमान् होना सिद्ध हुआ ।
वे जिस प्रकार अपनी उत्पत्तिसे पूर्व
वस्तुतः असत् ही थे उसी प्रकार
लीन होनेपर भी असत् ही रहते
हैं—ऐसा समझना चाहिये । जिस
प्रकार करण—मन और इन्द्रियाँ
[इससे उत्पन्न होते हैं] उसी
प्रकार शरीर और इन्द्रियोंके
विषयोंके कारणस्वरूप भूतवर्ग
आकाश, आवहादि भेदोंवाला
बाह्य वायु, अग्नि, जल और विश्व
यानी सबको धारण करनेवाली
पृथिवी—ये पाँच भूत, जो पूर्व-पूर्व
गुणके सहित उत्तरोत्तर क्रमशः
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध
इन गुणोंसे युक्त है, उत्पन्न
होते हैं ॥ ३ ॥

संक्षेपतः परविद्याविषयमक्षरं
निर्विशेषं पुरुषं सत्यं दिव्यो
ह्यमूर्त इत्यादिना मन्त्रेणोक्त्वा
पुनस्तदेव सविशेषं विस्तरेण
वक्तव्यमिति प्रवृत्ते; संक्षेपविस्त-
रोक्तो हि पदार्थः सुखाधिगम्यो

परविद्याके विषयभूत निर्विशेष
सत्य पुरुषका 'दिव्यो ह्यमूर्तः'
इत्यादि मन्त्रसे संक्षेपतः वर्णन कर
अब उसी तत्त्वका सविशेषरूपसे
विस्तारपूर्वक वर्णन करना है—
इसीके लिये यह श्रुति प्रवृत्त होती
है; क्योंकि सूत्र और उसके भाष्यके
समान [पहले] संक्षेपमें और
[फिर] विस्तारपूर्वक कहा हुआ

भवति सूत्रभाष्योक्तिवदिति ।
 योजपि प्रथमजात्प्राणाद्विरण्य-
 गर्भाजायतेऽण्डस्यान्तर्विराट् स
 तत्त्वान्तरितत्वेन लक्ष्यमाणोऽप्ये-
 तस्मादेव पुरुषाजायत एतन्मय-
 श्वेत्येतदर्शमाह । तं च विशिनष्टि—

पदार्थ सुगमतासे समझमें आ जाता
 है । जो ब्रह्माण्डान्तर्वर्ती विराट्
 प्रथम उत्पन्न हुए प्राण यानी
 हिरण्यगर्भसे उत्पन्न होता है वह
 अन्य तत्त्वरूपसे लक्षित कराया
 जानेपर भी इस पुरुषसे ही उत्पन्न
 होता है और पुरुषरूप ही है—
 यही बात यह मन्त्र बतलाता है
 और उसके विशेषणोंका उल्लेख
 करता है—

सर्वभूतान्तरात्मा ब्रह्मका विश्वरूप

अग्निमूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ

दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः ।

वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य

पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥

अग्नि (द्युलोक) जिसका मस्तक है, चन्द्रमा और सूर्य नेत्र हैं,
 दिशाएँ कर्ण हैं, प्रसिद्ध वेद वाणी हैं, वायु प्राण है, सारा विश्व जिसका
 हृदय है और जिसके चरणोंसे पृथिवी प्रकट हुई है वह देव सम्पूर्ण
 भूतोंका अन्तरात्मा है ॥ ४ ॥

अग्निद्युलोकः “असौ वाव
 लोको गौतमाग्निः” (छा० उ०
 ५ । ४ । १) इति श्रुतेः, मूर्धा
 यस्योत्तमाङ्गं शिरः । चक्षुषी
 चन्द्रश्च सूर्यश्चेति चन्द्रसूर्यां

अग्नि अर्थात् “हे गौतम ! यह
 [स्वर्ग] लोक ही अग्नि है” इस श्रुतिके
 अनुसार द्युलोक ही जिसका मूर्धा—
 उत्तमाङ्ग यानी शिर है, चन्द्र-सूर्य यानी
 चन्द्रमा और सूर्य ही नेत्र हैं । इस मन्त्रमें

यस्येति सर्वत्रानुपङ्गः कर्तव्यः, अस्येत्यस्य पदस्य वक्ष्यमाणस्य यस्येति विपरिणामं कृत्वा । दिशः श्रोत्रे यस्य । वाग्वि-
वृता उद्घाटिताः प्रसिद्धा वेदा यस्य । वायुः प्राणो यस्य । हृदयमन्तःकरणं विश्वं समस्तं जगदस्य यस्येत्येतत् । सर्वं ह्यन्तःकरणविकारमेव जगन्मन-
स्येव सुषुप्ते प्रलयदर्शनात् । जागरितेऽपि तत एवाग्नि-
विस्फुलिङ्गवद्विप्रतिष्ठानात् । यस्य च पद्भ्यां जाता पृथिवी । एष देवो विष्णुरनन्तः प्रथमशरीरी त्रैलोक्यदेहोपाधिः सर्वेषां भूता-
नामन्तरात्मा ॥ ४ ॥

आगे कहे हुए 'अस्य' पदको 'यस्य' में परिणत कर उसकी सर्वत्र अनुवृत्ति करनी चाहिये । दिशाएँ जिसके कर्ण हैं, विवृत—उद्घाटित यानी प्रसिद्ध वेद जिसकी वाणी हैं, वायु जिसका प्राण है, विश्व—समस्त जगत् जिसका हृदय—अन्तःकरण है; सम्पूर्ण जगत् अन्तःकरणका ही विकार है, क्योंकि सुषुप्तिमें मनहीमें उसका प्रलय होता देखा जाता है और जाग्रत् अवस्थामें अग्निसे स्फुलिङ्गके समान उसे उसीसे निकलकर स्थित होता देखते हैं । तथा जिसके चरणों-मे पृथिवी उत्पन्न हुई है वह त्रैलोक्य-देहोपाधिक प्रथम शरीरी अनन्त देव विष्णु ही समस्त भूतोंका अन्तरात्मा है ॥ ४ ॥



स हि सर्वभूतेषु द्रष्टा श्रोता
मन्ता विज्ञाता सर्वकारणात्मा
पञ्चाम्निद्वारेण च याः संसरन्ति

सबका कारणरूप वह परमात्मा ही समस्त प्राणियोंमें द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और विज्ञाता है तथा पञ्चाम्नि-के द्वारा*जो प्रजाएँ जन्म-मृत्युरूप संसारको प्राप्त होती हैं वे भी

* स्वर्ग, मेघ, पृथिवी, पुरुष और स्त्री इन पाँचोंका छान्दोग्योपनिषद्के पञ्चम प्रपाठकके तृतीय खण्डमें पञ्चाम्निरूपसे वर्णन किया है ।

प्रजास्ता अपि तस्मादेव पुरुषा- | उस पुरुषसे ही उत्पन्न होती हैं—
 त्प्रजायन्त इत्युच्यते— | यह बात अगले मन्त्रसे बतलायी
 जाती है—

अक्षर पुरुषसे चराचरकी उत्पत्तिका क्रम

तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः

सोमात्पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम् ।

पुमान्नेतः सिञ्चति योषितायां

बह्वीः प्रजाः पुरुषात्सम्प्रसूताः ॥ ५ ॥

उस पुरुषसे ही, सूर्य जिसका समिधा है वह अग्नि उत्पन्न हुआ है । [उस ध्रुलोकरूप अग्निसे निष्पन्न हुए] सोमसे मेघ और [मेघसे] पृथिवीतलमें ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं । पुरुष स्वामें [ओषधियोंसे उत्पन्न हुआ] वीर्य सींचता है; इस प्रकार पुरुषसे ही यह बहुत-सी प्रजा उत्पन्न हुई है ॥ ५ ॥

तस्मात्परस्मात्पुरुषात्प्रजावस्थान- | उस परम पुरुषमे प्रजाका
 विशेषरूपोऽग्निः । स विशेष्यते | अवस्थाविशेषरूप अग्नि उत्पन्न
 समिधो यस्य सूर्यः समिध इव हुआ । उसकी विशेषता बतलाते
 समिधः । सूर्येण हि ध्रुलोकः समि- हैं—सूर्य जिसका समिधा (इन्धन)
 ध्यते । ततो हि ध्रुलोकान्निष्पन्नात् है—[अग्निहोत्रके] समिधाके
 सोमात्पर्जन्यो द्वितीयोऽग्निः | समान ही समिधा है, क्योंकि सूर्यसे
 सम्भवति । तस्माच्च पर्जन्यात् ही ध्रुलोक समिद्ध (प्रदीप्त) होता
 ओषधयः पृथिव्यां सम्भवन्ति । है । उस ध्रुलोकरूप अग्निसे निष्पन्न
 ओषधिभ्यः पुरुषाग्नौ हुताभ्य हुए सोमसे [पञ्चाग्नियोंमें] दूसरा
 उपादानभूताभ्यः । पुमानग्नी रेतः | अग्नि मेघ उत्पन्न होता है । फिर
 उस मेघमे पृथिवीतलमें ओषधियाँ
 उत्पन्न होती हैं । पुरुषरूप अग्निमें
 हवन की हुई वीर्यकी कारणरूप
 ओषधियोंसे [वीर्य होता है] । उस

सिञ्चति योषितायां योषिति
योषाद्यौ स्त्रियामिति। एवं क्रमेण
बर्हीर्बह्वयः प्रजा ब्राह्मणाद्याः
पुरुषात्परस्मात्सम्प्रसृताः समु-
त्पन्नाः ॥ ५ ॥

वीर्यको पुरुषरूप अग्नि योषित्—
योषिट्रूप अग्नि यानी स्त्रीमें सींचता
है। इस क्रमसे यह ब्राह्मणादिरूप
बहुत-सी प्रजा परम पुरुषसे ही
उत्पन्न हुई है ॥ ५ ॥



कर्म और उनके साधन भी पुरुषप्रसृत ही हैं

किं च कर्मसाधनानि फलानि यही नहीं, कर्मके साधन और
च तस्मादेवेत्याह; कथम् ? फल भी उसीसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा
श्रुति कहती है—सो किस प्रकार ?

तस्मादृचः साम यजूषि दीक्षा

यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च ।

संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः

सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः ॥ ६ ॥

उस पुरुषसे ही ऋचाएँ, साम, यजुः, दीक्षा, सम्पूर्ण यज्ञ, क्रतु,
दक्षिणा, संवत्सर, यजमान, लोक और जहाँतक चन्द्रमा पवित्र करता
है तथा सूर्य तपता है वे लोक उत्पन्न हुए हैं ॥ ६ ॥

तस्मात्पुरुषादृचो नियताक्षर-
पादावसाना गायत्र्यादिच्छन्दो-
विशिष्टा मन्त्राः । साम पाञ्च-
भक्तिकं च साप्तभक्तिकं च
स्तोभादिगीतविशिष्टम् । यजूषि

उस पुरुषसे ही ऋचाएँ—
जिनके पाद नियत अक्षरोंमें समाप्त
होनेवाले हैं वे गायत्री आदि छन्दों-
वाले मन्त्र, साम—पाञ्चभक्तिक
अथवा साप्तभक्तिक स्तोभादि*
गानविशिष्ट मन्त्र तथा यजुः—

* जिस मन्त्रमें हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन—ये पाँच
अवयव रहते हैं उसे 'पाञ्चभक्तिक' और जिसमें उपद्रव तथा आदि—ये दो
अवयव और होते हैं उसे 'साप्तभक्तिक' कहते हैं। 'हुं फट्' आदि अर्थशून्य
वर्णोंका नाम 'स्तोभ' है।

अनियताक्षरपादावसानानि
वाक्यरूपाण्येवं त्रिविधा मन्त्राः ।
दीक्षा मौञ्ज्यादिलक्षणा कर्तृ-
नियमविशेषाः । यज्ञाश्च सर्वेऽग्नि-
होत्रादयः । क्रतवः सयूपाः ।
दक्षिणाश्चैकगवाद्यपरिमितसर्व-
स्वान्ताः । संवत्सरश्च कालः
कर्माङ्गः । यजमानश्च कर्ता ।
लोकास्तस्य कर्मफलभूतास्ते
विशेष्यन्ते; सोमो यत्र येषु लोकेषु
पवते पुनाति लोकान्यत्र येषु
सूर्यस्तपति च ते च दक्षिणाय-
नोत्तरायणमार्गद्वयगम्या विद्वद्-
विद्वत्कर्तृफलभूताः ॥ ६ ॥

जिनके पादोंका अन्त नियमित
अक्षरोंमें नहीं होता ऐसे वाक्यरूप
मन्त्र—इस प्रकार ये तीनों प्रकारके
मन्त्र [उत्पन्न हुए हैं । तथा
उसीसे] दीक्षा—मौञ्जी-बन्धन आदि
यज्ञकर्ताके नियमविशेष, अग्निहोत्रादि
सम्पूर्ण यज्ञ, क्रतु—यूपसहित यज्ञ,
दक्षिणा—एक गौसे लेकर अपने
अपरिमित सर्वस्वदानपर्यन्त,
संवत्सर—कर्मका अङ्गभूत काल,
यजमान—यज्ञकर्ता, तथा उसके
कर्मके फलस्वरूप लोक उत्पन्न हुए
हैं । उन लोकोंकी विशेषताएँ
बतलाते हैं—जिन लोकोंमें चन्द्रमा
लोकोंको पवित्र करता है और
जिनमें सूर्य तपता रहता है वे
विद्वान् और अविद्वान् कर्ताके
कर्मफलभूत दक्षिणायन-उत्तरायण
इन दो मार्गसे प्राप्त होनेवाले लोक
उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥



तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः

साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि ।

प्राणापानौ व्रीहियवौ तपश्च

श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च ॥ ७ ॥

उससे ही [कर्मके अङ्गभूत] बहुत-से देवता उत्पन्न हुए । तथा साध्यगण, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण-अपान, व्रीहि, यव, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि [ये सब भी उसीसे उत्पन्न हुए हैं] ॥ ७ ॥

तस्माच्च पुरुषात्कर्माङ्गभूता देवा बहुधा वस्वादिगणभेदेन सम्प्रसूताः सम्यक्प्रसूताः । साध्या देवविशेषाः । मनुष्याः कर्माधिकृताः । पशवो ग्राम्यारण्याः । वयांसि पक्षिणः । जीवनं च मनुष्यादीनां प्राणापानौ व्रीहियवौ हविरर्थौ । तपश्च कर्माङ्गं पुरुषसंस्कारलक्षणं स्वतन्त्रं च फलसाधनम् । श्रद्धा यत्पूर्वकः सर्वपुरुषार्थसाधनप्रयोगश्चित्तप्रमाद आस्तिक्यबुद्धिस्तथा सत्यमनृतवर्जनं यथाभूतार्थवचनं चापीडाकरम् । ब्रह्मचर्यं मैथुनासमाचारः । विधिश्चेतिकर्तव्यता ॥ ७ ॥

उस पुरुषसे ही वसु आदि गणके भेदसे कर्मके अङ्गभूत बहुत-से देवता उत्पन्न हुए हैं । तथा साध्यगण देवताओंकी जाति-विशेष, कर्मके अधिकारी मनुष्य, गाँव और जङ्गलमें रहनेवाले पशु, वयस्—पक्षी, मनुष्यके जीवनरूप प्राण-अपान (श्वासोच्छ्वास) हविके लिये व्रीहि और यव, पुरुषका संस्कार करनेवाला तथा स्वतन्त्रतासे फल देनेवाला कर्मका अंगभूत तप, श्रद्धा—जिसके कारण सम्पूर्ण पुरुषार्थसाधनोंका प्रयोग, चित्त-प्रसाद और आस्तिक्यबुद्धि होती है, तथा सत्य—मिथ्याका त्याग एवं यथार्थ और किसीको पीडा न देनेवाला वचन, ब्रह्मचर्य—मैथुन न करना और ऐसा करना चाहिये—इस प्रकारकी विधि [ये सब भी उस पुरुषसे ही उत्पन्न हुए हैं] ॥७॥



इन्द्रिय, विषय और इन्द्रियस्थानादि भी ब्रह्मजानित ही हैं
किं च— तथा—

सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्

सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः ।

सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा

गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥ ८ ॥

उस पुरुषसे ही सात प्राण (मस्तकस्थ सात इन्द्रियाँ) उत्पन्न हुए हैं । उसीसे उनकी सात दीप्तियाँ, सात समिधा (विषय), सात होम (विषयज्ञान) और जिनमें वे सञ्चार करते हैं वे सात स्थान प्रकट हुए हैं । [इस प्रकार] प्रति देहमें स्थापित ये सात-सात पदार्थ [उस पुरुषसे ही हुए हैं] ॥ ८ ॥


सप्त शीर्षण्याः प्राणास्तस्मा-
देव पुरुषात्प्रभवन्ति । तेषां च
सप्तार्चिषो दीप्तयः स्वविषयाव-
द्योतनानि । तथा सप्तसमिधः
सप्त विषयाः, विषयैर्हि समि-
ध्यन्ते प्राणाः । सप्त होमास्तद्वि-
षयविज्ञानानि “यदस्य विज्ञानं
तज्जुहोति” (महानारा० २५।१)
इति श्रुत्यन्तरात् ।

किं च सप्तेमे लोका इन्द्रिय-
स्थानानि येषु चरन्ति सञ्चरन्ति
प्राणाः । प्राणा येषु चरन्तीति
प्राणानां विशेषणमिदं प्राणाया-

[दो नेत्र, दो श्रवण, दो घ्राण
और एक रसना—ये] सात
मस्तकस्थ प्राण उसी पुरुषसे उत्पन्न
होते हैं । तथा अपने-अपने विषयों-
को प्रकाशित करनेवाली उनकी
सात दीप्तियाँ, सात समिध—
उनके सात विषय, क्योंकि प्राण
(इन्द्रियवर्ग) अपने विषयोंसे ही
समिध (प्रदीप्त) हुआ करते हैं । सात
होम अर्थात् अपने विषयोंके विज्ञान,
जैसा कि “इसका जो विज्ञान है
उसीको हवन करता है” इस अन्य
श्रुतिसे सिद्ध होता है, [ये सब
इस पुरुषसे ही प्रकट हुए हैं] ।

तथा ये सात लोक—इन्द्रिय-
स्थान, जिनमें कि ये प्राण सञ्चार
करते हैं । ‘जिनमें प्राण सञ्चार
करते हैं’ यह प्राणोंका विशेषण
[उनके प्रसिद्ध अर्थ] प्राणापानादि-

<p>नादिनिवृत्त्यर्थम् । गुहायां शरीरे हृदये वा स्वापकाले शेरत इति गुहाशयाः, निहिताः स्थापिता धात्रा सप्त सप्त प्रतिप्राणिभेदम् । यानि चात्मयाजिनां विदुषां कर्माणि कर्मफलानि चाविदुषां च कर्माणि तत्साधनानि कर्म- फलानि च सर्वं चैतत्परस्मादेव पुरुषात्सर्वज्ञात्प्रसूतमिति प्रक- र्णार्थः ॥ ८ ॥</p>	<p>की आशंका निवृत्त करनेके लिये है । जो सुषुप्ति-अवस्थामें गुहा— शरीर अथवा हृदयमें शयन करते हैं वे गुहाशय तथा विधाताद्वारा प्रत्येक प्राणीमें निहित—स्थापित ये सात-सात पदार्थ [इस पुरुषसे ही उत्पन्न हुए हैं] । इस प्रकार जो भी आत्मयाजी विद्वानोंके कर्म और कर्मफल तथा अज्ञानियोंके कर्म, कर्मफल और उनके साधन हैं वे सब उस परम पुरुषसे ही उत्पन्न हुए हैं—यह इस प्रकरणका अर्थ है ॥ ८ ॥</p>
--	---



पर्वत, नदी और ओषधि आदिका ब्रह्मजन्यत्व

अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे-

ऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः ।

अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च

येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥ ९ ॥

इसीसे समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं; इसीसे अनेक रूपोंवाली नदियाँ बहती हैं; इसीसे सम्पूर्ण ओषधियाँ और रस प्रकट हुए हैं, जिस (रस) से भूतोंसे परिवेष्टित हुआ यह अन्तरात्मा स्थित होता है ॥ ९ ॥

अतः पुरुषात्समुद्राः सर्वे क्षारा- इस पुरुषसे ही क्षारादि सात
द्याः, गिरयश्च हिमवदादयोऽस्मा- समुद्र और इसीसे हिमालय आदि
देव पुरुषात्सर्वे । स्यन्दन्ते स्रवन्ति । समस्त पर्वत उत्पन्न हुए हैं । गङ्गा

गङ्गाद्याः सिन्धवो नद्यः सर्व-
रूपा बहुरूपा अस्मादेव पुरुषात्
सर्वा ओषधयो व्रीहियवाद्याः ।
रसश्च मधुरादिः षड्विधो येन
रसेन भूतैः पञ्चभिः स्थूलैः
परिवेष्टितस्तिष्ठते तिष्ठति ह्यन्त-
रात्मा लिङ्गं सूक्ष्मं शरीरम् ।
तद्व्यन्तराले शरीरस्यात्मनश्चा-
त्मवद्वर्तत इत्यन्तरात्मा ॥ ९ ॥

आदि अनेक रूपोंवाली नदियाँ भी
इसीसे प्रवाहित होती हैं । इसी
पुरुषसे व्रीहि, यव आदि सम्पूर्ण
ओषधियाँ तथा मधुरादि छः प्रकारका
रस उत्पन्न हुआ है, जिस रससे
कि पाँच स्थूल भूतोंद्वारा परिवेष्टित
हुआ अन्तरात्मा—लिंगदेह यानी
सूक्ष्म शरीर स्थित रहता है । यह
शरीर और आत्माके मध्यमें आत्मा-
के समान स्थित है; इसलिये
अन्तरात्मा कहलाता है ॥ ९ ॥



ब्रह्म और जगत्का अभेद तथा ब्रह्मज्ञानसे अविद्या-ग्रन्थिका नाश

एवं पुरुषात्सर्वमिदं सम्प्रसू-
तम् । अतो वाचारम्भणं विकारो
नामधेयमनृतं पुरुष इत्येव
सत्यम् । अतः—

इस प्रकार यह सब पुरुषसे ही
उत्पन्न हुआ है; अतः विकार वाणी-
का आरम्भ और नाममात्रके लिये
तथा मिथ्या ही है, केवल पुरुष ही
सत्य है । इसलिये—

पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् । एतद्यो वेद
निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ १० ॥

यह सारा जगत्, कर्म और तप (ज्ञान) पुरुष ही है । वह पर
और अमृतरूप ब्रह्म है । उसे जो सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित
जानता है, हे सोम्य ! वह इस लोकमें अविद्याकी ग्रन्थिका छेदन कर
देता है ॥ १० ॥

पुरुष एवेदं विश्वं सर्वम् ।
न विश्वं नाम पुरुषादन्यत्कि-
ञ्चिदस्ति । अतो यदुक्तं तदेवेदम्

पुरुष ही यह विश्व—सारा
जगत् है; पुरुषसे भिन्न 'विश्व' कोई
वस्तु नहीं है । अतः 'हे भगवन् !

अभिहितं 'कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति' । एतस्मिन्नि परस्मिन्नात्मनि सर्वकारणे पुरुषे विज्ञाते पुरुष एवेदं विश्वं नान्यदस्तीति विज्ञातं भवतीति ।

किं पुनरिदं विश्वमित्युच्यते । कर्माग्निहोत्रादिलक्षणम् । तपो ज्ञानं तत्कृतं फलमन्यदेतावद्भीदं सर्वम् । तच्चैतद्ब्रह्मणः कार्यम् । तस्मात्सर्वं ब्रह्म परामृतं परममृतम् अहमेवेति यो वेद निहितं स्थितं गुहायां हृदि सर्वप्राणिनां स एवं विज्ञानादविद्याग्रन्थि ग्रन्थिमिव दृढीभूतामविद्यावासनां विकिरति विशिपति नाशयतीह जीवन्नेव न मृतः सन् हे सोम्य प्रियदर्शन १०

किसको जान लेनेपर यह सब कुछ जान लिया जाता है ?' ऐसा जो प्रश्न किया गया था उसीका यहाँ उत्तर दिया गया है कि 'सबके कारण-स्वरूप इस परमात्माको जान लेनेपर ही यह ज्ञान हो जाता है कि यह विश्व पुरुष ही है, उससे भिन्न नहीं है ।'

किन्तु यह विश्व है क्या ? ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं— अग्निहोत्रादिरूप कर्म, तप यानी ज्ञान, उसका फल तथा इसी प्रकारका यह और सब भी [विश्व कहलाता है] । यह सब ब्रह्मका ही कार्य है । इसलिये यह सब पर अमृत ब्रह्म है और परामृत ब्रह्म मैं ही हूँ—ऐसा जो पुरुष सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें स्थित उस ब्रह्मको जानता है हे सोम्य—हे प्रियदर्शन ! वह अपने ऐसे विज्ञानसे अविद्या-ग्रन्थिको यानी ग्रन्थि (गाँठ) के समान दृढ़ हुई अविद्याकी वासनाको इस लोकमें जीवित रहते ही काट डालता है—मरकर नहीं ॥ १० ॥

इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषद्भाष्ये द्वितीयमुण्डके

प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥

द्वितीय स्कण्ड

ब्रह्मका स्वरूपनिर्देश तथा उसे जाननेके लिये आदेश

अरूपं सदक्षरं केन प्रकारेण | रूपहीन होनेपर भी उस अक्षर-
को किस प्रकार जानना चाहिये—
विज्ञेयमित्युच्यते— यह अब बतलाया जाता है—

आविः संनिहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्रैतत्सम-
र्पितम् । एजत्प्राणन्निमिषच्च यदेतज्जानथ सदसद्वरेण्यं
परं विज्ञानाद्यद्वरिष्ठं प्रजानाम् ॥ १ ॥

यह ब्रह्म प्रकाशस्वरूप सबके हृदयमें स्थित, गुहाचर नामवाला और महत्पद है। इसीमें चलनेवाले, प्राणन करनेवाले और निमेषोन्मेष करनेवाले ये सब समर्पित हैं। तुम इसे सदसद्रूप, प्रार्थनीय, प्रजाओंके विज्ञानसे परे और सर्वोत्कृष्ट जानो ॥ १ ॥

आविः प्रकाशं संनिहितं | आविः—प्रकाशस्वरूप, संनिहित—
समीपस्थित; वागादि उपाधियोंद्वारा
वागाद्युपाधिभिर्ज्वलति भ्राजतीति प्रज्वलित होता है, प्रकाशित होता
है—ऐसी एक अन्य श्रुतिके अनुसार
श्रुत्यन्तराच्छब्दादीनुपलभमान- वह शब्दादि विषयोंको उपलब्ध
करता-सा जान पड़ता है अर्थात्
वदवभासते । दर्शनश्रवणमनन- सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें दर्शन,
श्रवण, मनन और विज्ञान आदि
विज्ञानाद्युपाधिधर्मैराविर्भूतं उपाधिके धर्मोंसे आविर्भूत हुआ
सलक्ष्यते हृदि सर्वप्राणिनाम् । दिखायी देता है [अतः संनिहित है] ।

यदेतदाविब्रह्म संनिहितं सम्यक्

स्थितं हृदि तद्गुहाचरं नाम ।

गुहायां चरतीति दर्शनश्रवणा-

दिप्रकारैर्गुहाचरमिति प्रख्यातम् ।

महत्सर्वमहत्त्वात् । पदं पद्यते

सर्वेणेति सर्वपदार्थास्पदत्वात् ।

कथं तन्महत्पदमित्युच्यते ।

यतोऽत्रास्मिन्ब्रह्मण्येतत्सर्वं समर्पितं

प्रवेशितं रथनाभाविवाराः ।

एजच्चलत्पक्ष्यादि, प्राणत्प्राणि-

तीति प्राणापानादिमन्मनुष्य-

पश्वादि, निमिषच्च यन्निमेषादि-

क्रियावद्यच्चानिमिषच्चशब्दात्सम-

स्तमेतदत्रैव ब्रह्मणि समर्पितम् ।

एतद्यदास्पदं सर्वं जानथ हे

शिष्या अवगच्छथ तदात्मभूतं

भवतां सदसत्स्वरूपम् । सदसतो-

इस प्रकार जो प्रकाशमान ब्रह्म हृदयमें संनिहित—सम्यक् स्थित है वह गुहाचर—दर्शन-श्रवणादि प्रकारोंसे गुहा (बुद्धि) में सञ्चार करता है इसलिये गुहाचर नामसे विख्यात है । [वही महत्पद है] सबसे बड़ा होनेके कारण वह 'महत्' है और सबसे प्राप्त किया जाता है अथवा सारे पदार्थों-का आश्रय है, इसलिये 'पद' है ।

वह 'महत्पद' किस प्रकार है? सो बतलाते हैं—क्योंकि इस ब्रह्ममें ही, रथकी नाभिमें अरोंके समान यह सब कुछ समर्पित अर्थात् भली प्रकार प्रवेशित है । एजत्—चलने-फिरनेवाले पक्षी आदि, प्राणत्—जो प्राणन करते हैं वे प्राणा-पानादिमान् मनुष्य और पशु आदि, निमिषत् च—जो निमेषादि क्रियावाले और च शब्दके सामर्थ्यसे जो निमेष नहीं करनेवाले हैं वे भी इस प्रकार ये सब इस ब्रह्ममें ही समर्पित हैं ।

हे शिष्यगण ! ये सब जिस [ब्रह्मरूप] आश्रयवाले हैं उसे तुम जानो—समज्ञो; वह सदसत्स्वरूप तुम्हारा आत्मा है, क्योंकि उससे भिन्न

मूर्तामूर्तयोः स्थूलसूक्ष्मयोस्त-
द्व्यतिरेकेणाभावात् । वरेण्यं
वरणीयं तदेव हि सर्वस्य नित्य-
त्वात्प्रार्थनीयम् । परं व्यतिरिक्तं
विज्ञानात्प्रजानामिति व्यवहितेन
सम्बन्धः; यल्लौकिकविज्ञानागोच-
रमित्यर्थः । यद्वरिष्ठं वरतमं
सर्वपदार्थेषु वरेषु तद्व्येकं
ब्रह्मातिशयेन वरं सर्वदोषरहित-
त्वात् ॥ १ ॥

कोई सत् या असत्—मूर्त्त या अमूर्त्त
अर्थात् स्थूल या सूक्ष्म है ही नहीं ।
और वही नित्य होनेके कारण
सबका वरेण्य—वरणीय—प्रार्थनीय
है । तथा प्रजाओंके विज्ञानसे परे
यानी व्यतिरिक्त है—इस प्रकार इस
[पर शब्द] का व्यवधानयुक्त
[प्रजानाम्] पदसे सम्बन्ध है ।
तात्पर्य यह कि जो लौकिक
विज्ञानका अविषय है, और वरिष्ठ
यानी सम्पूर्ण श्रेष्ठ पदार्थोंमें श्रेष्ठतम
है, क्योंकि सम्पूर्ण दोषोंसे रहित
होनेके कारण एक वह ब्रह्म ही
अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ १ ॥

ब्रह्ममें मनोनिवेश करनेका विधान

किं च—

तथा—

यदर्चिमद्यदणुभ्योऽणु च यस्मिँल्लोका निहिता
लोकिनश्च । तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाङ्मनः ।
तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्वेद्भव्यं सोम्य विद्धि ॥ २ ॥

जो दीप्तिमान् और अणुसे भी अणु है तथा जिसमें सम्पूर्ण लोक
और उनके निवासी स्थित हैं वही यह, अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है तथा
वही वाक् और मन है । वही यह सत्य और अमृत है । हे सोम्य !
उसका [मनोनिवेशद्वारा] वेधन करना चाहिये; तू उसका वेधन कर ॥२॥

यदर्चिमदीप्तिमत्, दीप्त्या जो अर्चिमत् यानी दीप्तिमान्
है; ब्रह्मकी दीप्तिसे ही सूर्य आदि
देदीप्यमान होते हैं, इसलिये ब्रह्म


मद्ब्रह्म । किं च यदणुभ्यः श्यामा-
कादिभ्योऽप्यणु च सूक्ष्मम् । च-
शब्दात्स्थूलेभ्योऽप्यतिशयेन स्थूलं
पृथिव्यादिभ्यः । यस्मिंल्लोका
भूरादयो निहिताः स्थिताः, ये
च लोकिनो लोकनिवासिनो
मनुष्यादयश्चैतन्याश्रया हि सर्वे
प्रसिद्धाः । तदेतत्सर्वाश्रयमक्षरं ब्रह्म
स प्राणस्तदु वाङ्मनो वाक्च मनश्च
सर्वाणि च करणानि तदन्तश्चै-
तन्यं चैतन्याश्रयो हि प्राणेन्द्रि-
यादिसर्वसंघातः “प्राणस्य प्राणम्”
(बृ० उ० ४ । ४ । १८) इति
श्रुत्यन्तरात् ।

यत्प्राणादीनामन्तश्चैतन्यमक्षरं
तदेतत्सत्यमवितथमतोऽमृत-
मविनाशि तद्वेद्ब्रह्म मनसा
ताडयितव्यम् । तस्मिन्मनःसमा-
धानं कर्तव्यमित्यर्थः । यस्मादेवं

दोसिमान् है । और जो श्यामाक
आदि अणुओंसे भी अणु—सूक्ष्म
है । ‘च’ शब्दसे यह समझना
चाहिये कि जो पृथिवी आदि स्थूल
पदार्थोंसे भी अत्यन्त स्थूल है ।
जिसमें भूलोक आदि सम्पूर्ण लोक
तथा उन लोकोके निवासी मनुष्यादि
स्थित हैं, क्योंकि सारे पदार्थ
चैतन्यके ही आश्रित प्रसिद्ध हैं,
वही सबका आश्रयभूत यह अक्षर
ब्रह्म है, वही प्राण है तथा वही
वाणी और मन आदि समस्त इन्द्रिय-
वर्ग है; उन सभीमें चैतन्य ओतप्रोत
है, क्योंकि प्राण और इन्द्रिय
आदिका सारा संघात चैतन्यके ही
आश्रित है, जैसा कि “वह प्राणका
प्राण है” इत्यादि एक अन्य श्रुतिसे
सिद्ध होता है ।

[इस प्रकार] प्राणादिके
भीतर रहनेवाला जो अक्षर चैतन्य
है वही यह सत्य यानी अवितथ है;
अतः वह अमृत—अविनाशी है ।
उसका वेधन यानी मनसे ताडन
करना चाहिये । अर्थात् उसमें
मनको समाहित करना चाहिये ।
हे सोम्य ! क्योंकि ऐसी बात है,

हे सोम्य विद्वद्यक्षरे चेतः | इसलिये तू वेधन कर यानी अपने
समाधत्स्व ॥ २ ॥ | चित्तको उस अक्षरमें लगा दे ॥ २ ॥



ब्रह्मवेधनकी विधि

कथं वेद्व्यमित्युच्यते— उसका किस प्रकार वेधन करना
चाहिये, सो बतलाया जाता है—

धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्त्रं
शरं ह्युपासानिशितं सन्धयीत ।
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥३॥

हे सोम्य ! उपनिषद्वेद्य महान् अस्त्ररूप धनुष् लेकर उसपर
उपासनाद्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ा; और फिर उसे खींचकर ब्रह्म-
भावानुगत चित्तसे उस अक्षररूप लक्ष्यका ही वेधन कर ॥ ३ ॥

धनुरिष्वासनं गृहीत्वादायौ- औपनिषद—उपनिषदोंमें वर्णित
पनिषदमुपनिषत्सु भवं प्रसिद्धं यानी उपनिषदप्रसिद्ध महास्त्र—
महास्त्रं महच्च तदस्त्रं च महास्त्रं महान् अस्त्ररूप धनुष्—शरासन
धनुस्तस्मिञ्शरम्; किंविशिष्टम् लेकर उसपर बाण चढ़ावे—
इत्याह—उपासानिशितं सन्तता- किस प्रकारका बाण चढ़ावे? इसपर
मिध्यानेन तनूकृतं संस्कृतमित्ये- कहते हैं—उपासनासे निशित यानी
तत्, सन्धयीत सन्धानं कुर्यात् । निरन्तर ध्यान करनेसे पैनाया
सन्धाय चायम्याकृष्य सेन्द्रियम् हुआ—संस्कार किया हुआ बाण
अन्तःकरणं स्वविषयाद्विनिवर्त्य इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणको

लक्ष्य एवावर्जितं कृत्वेत्यर्थः । उनके विषयोसे हटा अपने लक्ष्यमें
 न हि हस्तेनेव धनुष आयमनमिह ही जोड़कर—क्योंकि इस धनुषको
 सम्भवति । तद्भावगतेन तस्मिन् हाथसे धनुष चढ़ानेके समान नहीं
 ब्रह्मण्यक्षरे लक्ष्ये भावना भावः खींचा जा सकता—तद्भावगत अर्थात्
 तद्गतेन चेतसा लक्ष्यं तदेव यथो अपने लक्ष्य उस अक्षरब्रह्ममें जो
 क्तलक्षणमक्षरं सोम्य विद्धि ॥३॥ भावना है उस भावमें गये हुए
 चित्तसे हे सोम्य ! ऊपर कहे हुए
 लक्षणोंवाले अपने उसी लक्ष्य अक्षर-
 ब्रह्मका वेधन कर ॥ ३ ॥

वेधनके लिये ग्रहण किये जानेवाले धनुषादिका स्पष्टीकरण

यदुक्तं धनुरादि तदुच्यते—

ऊपर जो धनुष आदि बतलाये
 गये हैं उनका उल्लेख किया
 जाता है—

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ।

अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥४॥

प्रणव धनुष है, [सोपाधिक] आत्मा बाण है और ब्रह्म उसका
 लक्ष्य कहा जाता है । उसका सावधानतापूर्वक वेधन करना चाहिये
 और बाणके समान तन्मय हो जाना चाहिये ॥ ४ ॥

प्रणव ओङ्कारो धनुः । प्रणव यानी ओङ्कार धनुष है ।
 यथेष्वासनं लक्ष्ये शरस्य प्रवेश- जिस प्रकार शरासन (धनुष)
 कारणं तथात्मशरस्याक्षरे लक्ष्ये लक्ष्यमें बाणके प्रवेश कर जानेका
 प्रवेशकारणमोङ्कारः । प्रणवेन साधन है उसी प्रकार [सोपाधिक]
 ह्यभ्यस्यमानेन संस्क्रियमाणस्तदा- आत्मारूप बाणके अपने लक्ष्य
 लम्बनोऽप्रतिबन्धेनाक्षरेऽवतिष्ठते; अक्षरमें प्रवेश करनेका कारण
 ओङ्कार है । अभ्यास किये हुए
 प्रणवके द्वारा ही संस्कृत होकर
 वह उसके आश्रयसे बिना किसी
 बाधाके अक्षरब्रह्ममें इस प्रकार
 स्थित होता है, जैसे धनुषसे छोड़ा

यथा धनुषास्त इषुर्लक्ष्ये । अतः
 प्रणवो धनुरिव धनुः । शरो
 ह्यात्मोपाधिलक्षणः पर एव
 जले सूर्यादिवदिह प्रविष्टो देहं
 सर्वबौद्धप्रत्ययसाक्षितया । स
 शर इव स्वात्मन्येवार्पितोऽक्षरे
 ब्रह्मण्यतो ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ।
 लक्ष्य इव मनःसमाधित्सुभिः
 आत्मभावेन लक्ष्यमाणत्वात् ।

तत्रैवं सत्यप्रमत्तेन बाह्यविष-
 योपलब्धितृष्णाप्रमादवर्जितेन
 सर्वतो विरक्तेन जितेन्द्रियेणैकाग्र-
 चित्तेन वेद्मव्यं ब्रह्म लक्ष्यम् ।
 ततस्तद्बोधनादूर्ध्वं शरवत्तन्मयो
 भवेत् । यथा शरस्य लक्ष्यैकात्म-
 त्वं फलं भवति तथा देहाद्यात्म-
 प्रत्ययतिरस्करणेनाक्षरैकात्मत्वं
 फलमापादयेदित्यर्थः ॥ ४ ॥

हुआ बाण अपने लक्ष्यमें । अतः
 धनुषके समान होनेसे प्रणव ही
 धनुष है । तथा आत्मा ही बाण है,
 जो कि जलमें प्रतिबिम्बित हुए
 सूर्य आदिके समान इस शरीरमें
 सम्पूर्ण, बौद्ध प्रतीतियोंके साक्षीरूपसे
 प्रविष्ट हो रहा है । वह बाणके
 समान अपने ही आत्मा (स्वरूपभूत)
 अक्षरब्रह्ममें अनुप्रविष्ट हो रहा
 है । इसलिये ब्रह्म उसका लक्ष्य
 कहा जाता है, क्योंकि मनको
 समाहित करनेकी इच्छावाले पुरुषों-
 को वही आत्मभावसे लक्षित होता है ।

अतः ऐसा होनेके अनन्तर
 अप्रमत्त—बाह्य विषयोंकी उपलब्धि-
 की तृष्णारूप प्रमादसे रहित होकर
 अर्थात् सब ओरसे विरक्त यानी
 जितेन्द्रिय होकर एकाग्रचित्तसे
 ब्रह्मरूप अपने लक्ष्यका वेधन करना
 चाहिये । और फिर उसका वेधन कर-
 नेके अनन्तर बाणके समान तन्मय हो
 जाना चाहिये । तात्पर्य यह कि
 जिस प्रकार बाणका अपने लक्ष्यसे
 एकरूप हो जाना ही फल है उसी
 प्रकार देहादिमें आत्मत्वकी प्रतीति-
 का तिरस्कार कर उस अक्षरब्रह्मसे
 एकात्मत्वरूप फल प्राप्त करे ॥ ४ ॥



आत्मसाक्षात्कारके लिये पुनः विधि

अक्षरस्यैव दुर्लक्ष्यत्वात्पुनः
पुनर्वचनं सुलक्षणार्थम्—

कठिनतासे लक्षित होनेवाला होनेके कारण उस अक्षरका ही, भली प्रकार लक्ष्य करानेके लिये बार-बार वर्णन किया जाता है—

यस्मिन्द्यौः पृथिवी चान्तरिक्ष-

मोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः ।

तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या

वाचो विमुञ्चथामृतस्यैष सेतुः ॥ ५ ॥

जिसमें ब्रह्मलोक, पृथिवी, अन्तरिक्ष और सम्पूर्ण प्राणोंके सहित मन ओतप्रोत है उस एक आत्माको ही जानो, और सब बातोंको छोड़ दो; यही अमृत (मोक्षप्राप्ति) का सेतु (साधन) है ॥ ५ ॥

यस्मिन्नक्षरे पुरुषे द्यौः पृथिवी
चान्तरिक्षं चोतं समर्पितं मनश्च
सह प्राणैः करणैरन्यैः सर्वैस्तमेव
सर्वाश्रयमेकमद्वितीयं जानथ
जानीत हे शिष्याः । आत्मानं
प्रत्यक्स्वरूपं युष्माकं सर्वप्राणिनां
च ज्ञात्वा चान्या वाचोऽपर-
विद्यारूपा विमुञ्चथ विमुञ्चत
परित्यजत तत्प्रकाश्यं च सर्वं
कर्म ससाधनम्; यतोऽमृतस्यैष

हे शिष्यगण ! जिस अक्षर पुरुषमें ब्रह्मलोक, पृथिवी, अन्तरिक्ष और प्राणों यानी अन्य समस्त इन्द्रियोंके सहित मन ओत— समर्पित है उस एक—अद्वितीय आत्माको ही जानो; तथा इस प्रकार आत्माको अपने और समस्त प्राणियों-के प्रत्यक्स्वरूपको जानकर अपर-विद्यारूप अन्य वाणीको तथा उससे प्रकाशित होनेवाले समस्त कर्मको उसके साधनसहित छोड़ दो— उसका सब प्रकार त्याग कर दो, क्योंकि यह अमृतका सेतु है—

सेतुरेतदात्मज्ञानममृतस्यामृतत्वस्य यह आत्मज्ञान संसार-महासागरको
 मोक्षस्य प्राप्तये सेतुरिव सेतुः पार करनेका साधन होनेके कारण
 संसारमहोदधेः उत्तरण- अमृत—अमरत्व यानी मोक्षकी
 हेतुत्वात्तथा च श्रुत्यन्तरं प्राप्तिके लिये [नदीके पार जानेके
 “तमेव विदित्वातिमृत्युमेति साधनभूत] सेतुके समान सेतु है ।
 नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” जैसा कि—“उसीको जानकर
 (श्वे० उ० ३।८, ६।१५) पुरुष मृत्युको पार कर जाता है,
 इति ॥ ५ ॥ और कोई मार्ग नहीं है” इत्यादि
 एक अन्य श्रुति भी कहती है ॥ ५ ॥

ओङ्काररूपसे ब्रह्मचिन्तनकी विधि

किं च—

तथा—

अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः

स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः ।

ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं

स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात् ॥६॥

रथचक्रकी नाभिमें जिस प्रकार अरे लगे होते हैं उसी प्रकार जिसमें सम्पूर्ण नाडियाँ एकत्रित होती हैं उम (हृदय) के भीतर यह अनेक प्रकारसे उत्पन्न हुआ सञ्चार करता है । उस आत्माका ‘ॐ’ इस प्रकार ध्यान करो । अज्ञानके उस पार गमन करनेमें तुम्हारा कल्याण हो [अर्थात् तुम्हें किसी प्रकारका विघ्न प्राप्त न हो] ॥६॥

अरा इव, यथा रथनाभौ अरोंके समान अर्थात् जिस प्रकार रथकी नाभिमें अरेसमर्पित रहते हैं उसी प्रकार शरीरमें सर्वत्र व्याप्त नाडियाँ जिस हृदयमें संहत अर्थात् प्रविष्ट हैं उसके भीतर यह बौद्ध प्रतीतियों-

बुद्धिप्रत्ययसाक्षिभूतः स एष
प्रकृत आत्मान्तर्मध्ये चरते चरति
वर्तते; पश्यञ्भृष्वन्मन्वानो
विजानन्बहुधानेकधा क्रोधहर्षादि-
प्रत्ययैर्जायमान इव जायमा-
नोऽन्तःकरणोपाध्यनुविधायित्वा-
द्ददन्ति लौकिका हृष्टो जातः
क्रुद्धो जात इति । तमात्मानम्
ओमित्येवमोङ्कारालम्बनाः सन्तो
यथोक्तकल्पनया ध्यायथ चिन्त-
यत ।

उक्तं वक्तव्यं च शिष्येभ्य
आचार्येण जानता । शिष्याश्च
ब्रह्मविद्याविविदिपुत्वाभिवृत्त-
कर्माणो मोक्षपथे प्रवृत्ताः । तेषां
निर्विघ्नतया ब्रह्मप्राप्तिमाशास्त्या-
चार्यः । स्वस्ति निर्विघ्नमस्तु वो
युष्माकं पाराय परकूलाय ।
परस्तात्कस्मादविद्यातमसः ।
अविद्यारहितब्रह्मात्मस्वरूपगम-
नायेत्यर्थः ॥ ६ ॥

का साक्षीभूत और जिसका प्रकरण
चल रहा है वह आत्मा देखता,
सुनता, मनन करता और जानता
हुआ अन्तःकरणरूप उपाधिका
अनुकरण करनेवाला होनेसे उसके
हर्ष-क्रोधादि प्रत्ययोंसे मानो [नवीन-
नवीनरूपसे] उत्पन्न होता हुआ
मध्यमें सञ्चार करता—वर्तमान
रहता है । इसीसे लौकिक पुरुष 'वह
हर्षित हुआ, वह क्रोधित हुआ' ऐसा
कहा करते हैं । उस आत्माको 'उँ'
इस प्रकार अर्थात् उपर्युक्त कल्पनासे
ओङ्कारको आलम्बन बनाकर ध्यान
यानी चिन्तन करो ।

विद्वान् आचार्यको शिष्योंसे
जो कुछ कहना था वह कह
दिया । इससे ब्रह्मविद्याके जिज्ञासु
होनेके कारण शिष्यगण भी सब
कर्मोंसे उपरत होकर मोक्षमार्गमें
जुट गये । अतः आचार्य
उन्हें निर्विघ्नतापूर्वक ब्रह्मप्राप्तिका
आशीर्वाद देते हैं—'पार अर्थात्
पर तीरपर जानेके लिये तुम्हें स्वस्ति
—निर्विघ्नता प्राप्त हो ।' किसके
पार जानेके लिये ? अविद्या-
रूप अन्धकारके पार जानेके लिये
अर्थात् अविद्यारहित ब्रह्मात्म-
स्वरूपकी प्राप्तिके लिये ॥ ६ ॥



अपर ब्रह्मका वर्णन तथा उसके चिन्तनका प्रकार

योऽसौ तमसः परस्तात्संसार- | यह जो अज्ञानान्धकारके परे
महोदधिं तीर्त्वा गन्तव्यः पर- | संसारमहासागरको पार करके
विद्याविषय इति स कस्मिन्वर्तत | जाने योग्य परविद्याका प्रदेश है
इत्याह— | वह किसमें वर्तमान है ? इसपर
कहते हैं—

यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्यैष महिमा भुवि ।

दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योमन्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥

मनोमयः प्राणशरीरनेता

प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय ।

तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा

आनन्दरूपममृतं यद्विभाति ॥ ७ ॥

जो सर्वज्ञ और सर्ववित् है और जिसकी यह महिमा भूलोकमें स्थित है वह यह आत्मा दिव्य ब्रह्मपुर आकाश (हृदयाकाश) में स्थित है । वह मनोमय तथा प्राण और [सूक्ष्म] शरीरको [एक देहसे दूसरे देहमें] ले जानेवाला पुरुष हृदयको आश्रित कर अन्न (अन्नमय देह) में स्थित है । उसका विज्ञान (अनुभव) होनेपर ही विवेकी पुरुष, जो आनन्दस्वरूप अमृत ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है, उसका सम्यक् साक्षात्कार करते हैं ॥ ७ ॥

यः सर्वज्ञः सर्वविद्व्याख्यातः | 'जो सर्वज्ञ और सर्ववित् है'
तं पुनर्विंशिनष्टिः यस्यैष प्रसिद्धो | इसकी व्याख्या पहले (मुण्ड० ? ।
महिमा विभूतिः । कोऽसौ महिमा ? | १ । २ में) की जा चुकी है ।
यस्येमे द्यावापृथिव्यौ शासने | उसीके फिर और विशेषण बतलाते
विधृते तिष्ठतः सूर्याचन्द्रमसौ | हैं—जिसकी यह प्रसिद्ध महिमा
यानी विभूति है; वह महिमा क्या
है ? ये द्युलोक और पृथिवी जिसके
शासनमें धारण किये हुए (यानी
स्थिरतापूर्वक) स्थित हैं, जिसके

यस्य शासनेऽलातचक्रवदजस्रं
 भ्रमतः । यस्य शासने सरितः
 सागराश्च स्वगोचरं नातिक्रामन्ति ।
 तथा स्यावरं जङ्गमं च यस्य
 शासने नियतम् । तथा चर्तवो-
 ऽयने अब्दाश्च यस्य शासनं नाति-
 क्रामन्ति । तथा कर्तारः कर्माणि
 फलं च यच्छासनात्स्वं स्वं कालं
 नातिवर्तन्ते स एष महिमा भुवि
 लोके यस्य स एष सर्वज्ञः एवं-
 महिमा देवो दिव्ये द्योतनवति
 सर्वबौद्धप्रत्ययकृतद्योतने ब्रह्म-
 पुरे, ब्रह्मणोऽत्र चैतन्यस्वरूपेण
 नित्याभिव्यक्तत्वाद्ब्रह्मणः पुरं
 हृदयपुण्डरीकं तस्मिन्व्योम-
 तस्मिन्व्योमन्याकाशे हृत्पुण्डरीक-
 मध्यस्थे, प्रतिष्ठित इवोपलभ्यते ।
 न ह्याकाशवत्सर्वगतस्य गतिरा-
 गतिः प्रतिष्ठा वान्यथा सम्भवति ।

शासनमें सूर्य और चन्द्रमा अलात-
 चक्रके समान निरन्तर घूमते रहते
 हैं, जिसके शासनमें नदियाँ और
 समुद्र अपने स्थानका अतिक्रमण नहीं
 करते, इसी प्रकार स्यावरजङ्गम
 जगत् जिसके शासनमें नियमित
 रहता है; तथा ऋतु, अयन और
 वर्ष—ये भी जिसके शासनका
 उल्लङ्घन नहीं करते एवं कर्ता, कर्म
 और फल जिसके शासनसे अपने-
 अपने कालका अतिक्रमण नहीं
 करते—ऐसी यह महिमा संसारमें
 जिसकी है वह ऐसी महिमावाला
 सर्वज्ञ देव दिव्य—द्युतिमान् यानी
 समस्त बौद्ध प्रत्ययोंसे होनेवाले
 प्रकाशयुक्त ब्रह्मपुरमें—क्योंकि
 चैतन्यस्वरूपसे इस (हृदयकमलस्थित
 आकाश) में ब्रह्मकी सर्वदा
 अभिव्यक्ति होती है इसलिये
 हृदयकमल ब्रह्मपुर है, उसमें जो
 आकाश है उस हृदयपुण्डरी-
 क्रान्तर्गत आकाशमें प्रतिष्ठित
 (स्थित) हुआ-सा उपलब्ध होता
 है । इसके सिवा आकाशवत्
 सर्वव्यापक ब्रह्मका जाना-आना
 अथवा स्थित होना और किसी
 प्रकार सम्भव नहीं है ।

स ह्यात्मा तत्रस्थो मनोवृत्ति-
भिरेव विभाव्यत इति मनोमयो
मनउपाधित्वात्प्राणशरीरनेता
प्राणश्च शरीरं च प्राणशरीरं
तस्यायं नेता स्थूलाच्छरीराच्छ-
रीरान्तरं प्रति । प्रतिष्ठितोऽव-
स्थितोऽन्ने भुज्यमानान्नविपरिणा-
मे प्रतिदिनमुपचीयमानेऽपचीय-
माने च पिण्डरूपान्ने हृदयं बुद्धिं
पुण्डरीकच्छिद्रे संनिधाय समव-
स्थाप्य । हृदयावस्थानमेव ह्यात्मनः
स्थितिर्न ह्यात्मनः स्थितिरन्ने ।

तदात्मतत्त्वं विज्ञानेन
विशिष्टेन शास्त्राचार्योपदेशजनि-
तेन ज्ञानेन शमदमध्यानसर्व-
त्यागवैराग्योद्भूतेन परिपश्यन्ति
सर्वतः पूर्णं पश्यन्त्युपलभन्ते
धीरा विवेकिनः आनन्दरूपं
सर्वानर्थदुःखायासप्रहीणममृतं
यद्विभाति विशेषेण स्वात्मन्येव
भाति सर्वदा ॥ ७ ॥

वहाँ (हृदयाकाशमें) स्थित
वही आत्मा मनोवृत्तिसे ही अनुभव
किया जाता है; इसलिये मनरूप
उपाधिवाला होनेसे वह मनोमय है ।
तथा प्राणशरीरनेता—प्राण और
शरीरका नाम प्राणशरीर है, उसे यह
एक स्थूल शरीरसे दूसरे शरीरमें
ले जानेवाला है । यह हृदय अर्थात्
बुद्धिको उसके पुण्डरीकाकाशमें
आश्रित कर अन्न यानी खाये हुए
अन्नके परिणामरूप और निरन्तर
बढ़ने-घटनेवाले पिण्डरूप अन्न
(अन्नमय देह) में स्थित है, क्योंकि
हृदयमें स्थित होना ही आत्माकी
स्थिति है, अन्यथा अन्नमें आत्माकी
स्थिति नहीं है ।

धीर—विवेकी पुरुष शास्त्र
और आचार्यके उपदेशसे प्राप्त तथा
शम, दम, ध्यान, सर्वत्याग एवं
वैराग्यसे उत्पन्न हुए विशेष ज्ञानद्वारा
उस आत्मतत्त्वको सर्वत्र परिपूर्ण
देखते यानी अनुभव करते हैं, जो
आनन्दस्वरूप—सम्पूर्ण अनर्थ, दुःख
और आयाससे रहित, सुखस्वरूप
एवं अमृतमय सर्वदा अपने अन्तः-
करणमें ही विशेषरूपसे भास
रहा है ॥ ७ ॥

ब्रह्मसाक्षात्कारका फल

अस्य परमात्मज्ञानस्य फल- | इस परमात्मज्ञानका यह फल
मिदमभिधीयते— | बतलाया जाता है—

मिद्यते हृदयग्रन्थिरिच्छन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ ८ ॥


उस परावर (कारणकार्यरूप) ब्रह्मका साक्षात्कार कर लेनेपर इस जीवकी हृदयग्रन्थि टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं ॥ ८ ॥

मिद्यते हृदयग्रन्थिरविद्या-
वासनाप्रचयो बुद्ध्याश्रयः कामः
“कामा येऽस्य हृदि श्रिताः”
(क० उ० २ । ३ । १४, बृ०
उ० ४ । ४ । ७) इति श्रुत्यन्त-
रात् । हृदयाश्रयोऽसौ नान्माश्रयः
मिद्यते भेदं विनाशमायाति ।
छिद्यन्ते सर्वज्ञेयविषयाः संशया
लौकिकानामामरणात्तु गङ्गा-
स्रोतोवत्प्रवृत्ता विच्छेदमायान्ति ।
अस्य विच्छिन्नसंशयस्य निवृत्ता-
विद्यस्य यानि विज्ञानोत्पत्तेः
प्राक्तनानि जन्मान्तरे चाप्रवृत्त-

“इसके हृदयमें जो कामनाएँ
आश्रित हैं” इत्यादि अन्य श्रुतिके
अनुसार ‘हृदयग्रन्थि’ बुद्धिमें स्थित
अविद्यावासनामय कामको कहते
हैं । यह हृदयके ही आश्रित
रहनेवाली है आत्माके आश्रित
नहीं । [उस आत्मतत्त्वका
साक्षात्कार होनेपर यह] भेद
अर्थात् नाशको प्राप्त हो जाती है ।
तथा लौकिक पुरुषोंके ज्ञेय पदार्थ-
विषयक सम्पूर्ण सन्देह, जो उनके
मरणपर्यन्त गङ्गाप्रवाहवत् प्रवृत्त
होते रहते हैं, विच्छिन्न हो जाते
हैं । जिसके संशय नष्ट हो गये
हैं और जिसकी अविद्या निवृत्त
हो चुकी है ऐसे इस पुरुषके जो
विज्ञानोत्पत्तिसे पूर्व जन्मान्तरमें
किये हुए कर्म फलोन्मुख नहीं हुए

फलानि ज्ञानोत्पत्तिसहभावीनि
 च क्षीयन्ते कर्माणि । न त्वेत-
 ज्जन्मारम्भकाणि प्रवृत्तफलत्वात् ।
 तस्मिन्सर्वज्ञेऽसंसारिणि परावरे
 परं च कारणात्मनावरं च
 कार्यात्मना तस्मिन्परावरे साक्षा-
 दहमस्मीति दृष्टे संसारकारणो-
 च्छेदान्मुच्यत इत्यर्थः ॥८॥

हैं और जो ज्ञानोत्पत्तिके साथ-
 साथ किये जाते हैं वे सभी नष्ट हो
 जाते हैं; किन्तु इस (वर्तमान)
 जन्मको आरम्भ करनेवाले कर्म
 क्षीण नहीं होते, क्योंकि उनका
 फल देना आरम्भ हो जाता है ।
 तात्पर्य यह है कि उस सर्वज्ञ
 असंसारी परावर—कारणरूपसे
 पर और कार्यरूपसे अवर ऐसे उस
 परावरके 'यह साक्षात् मैं ही हूँ' इस
 प्रकार देख लिये जानेपर संसारके
 कारणका उच्छेद हो जानेसे यह
 पुरुष मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥



उक्तस्यैवार्थस्य सङ्घेपाभि-
 धायका उत्तरे मन्त्रास्त्रयोऽपि—

आगेके तीन मन्त्र भी पूर्वोक्त
 अर्थको ही संक्षेपसे बतलाने-
 वाले हैं—

ज्योतिर्मय ब्रह्म

हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् ।

यच्चुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥ ९ ॥

वह निर्मल और कलाहीन ब्रह्म हिरण्मय (ज्योतिर्मय) परम कोशमें
 विद्यमान है । वह शुद्ध और सम्पूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थोंकी ज्योति है और
 वह है जिसे कि आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं ॥ ९ ॥

हिरण्मये ज्योतिर्मये बुद्धि-
विज्ञानप्रकाशे परे कोशे कोश
इवासेः, आत्मस्वरूपोपलब्धि-
स्थानत्वात्; परं तत्सर्वाभ्यन्तर-
त्वात् तस्मिन् विरजमविद्याद्यशेष-
दोषरजोमलवर्जितं ब्रह्म सर्व-
महत्त्वात् सर्वात्मत्वाच्च । निष्कलं
निर्गताः कला यस्मात्तन्निष्कलं
निरवयवम् इत्यर्थः ।

यस्माद्विरजं निष्कलं चातस्त-
च्छुभ्रं शुद्धं ज्योतिषां सर्वप्रका-
शात्मनामग्न्यादीनामपि तज्ज्यो-
तिरवभासकम् । अग्न्यादीनाम्
अपि ज्योतिष्टमन्तर्गतब्रह्मात्म-
चैतन्यज्योतिर्निमित्तमित्यर्थः ।
तद्वि परं ज्योतिर्यदन्यानवभाष्यम्
आत्मज्योतिस्तद्यदात्मविद
आत्मानं स्वं शब्दादिविषयबुद्धि-
प्रत्ययसाक्षिणं ये विवेकिनो
विदुर्विजानन्ति त आत्मविद-

हिरण्मय—ज्योतिर्मय अर्थात्
बुद्धिवृत्तिके प्रकाशरूप परमकोशमें,
जो आत्मस्वरूपकी उपलब्धिका
स्थान होनेके कारण तलवारके
कोश (म्यान) के समान है और
सबसे भीतरी होनेके कारण श्रेष्ठ है,
उसमें विरज—अविद्यादि सम्पूर्ण
दोषरूप मलसे रहित ब्रह्म विराजमान
है, जो सबसे बड़ा तथा सर्वरूप
होनेके कारण ब्रह्म है । वह निष्कल है;
जिससे सब कलाएँ निकल गयीं हों
उसे निष्कल कहते हैं अर्थात् वह
निरवयव है ।

क्योंकि ब्रह्म विरज और निष्कल
है इसलिये वह शुभ्र यानी शुद्ध
और ज्योतियों—अग्नि आदि
सम्पूर्ण प्रकाशमय पदार्थोंका भी
ज्योतिः—प्रकाशक है । तात्पर्य
यह है कि अग्नि आदिका ज्योति-
र्मयत्व भी अपने अन्तर्वर्ती ब्रह्मात्म-
चैतन्यरूप ज्योतिके ही कारण है ।
जो किसी अन्यसे प्रकाशित न
होनेवाला आत्मज्योति है वही परम
ज्योति है, जिसे कि आत्मवेत्ता—
जो विवेकी पुरुष आत्मा अर्थात्
अपनेको शब्दादि विषय और
बुद्धिप्रत्ययोंका साक्षी जानते हैं

स्तद्विदुरात्मप्रत्ययानुसारिणः । वे आत्मानुभवका अनुसरण करने-
 यस्मात्परं ज्योतिस्तस्मात् एव वाले आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं ।
 तद्विदुर्नेतरे बाह्यार्थप्रत्ययानु- क्योंकि वह परम ज्योति है इसलिये
 सारिणः ॥ ९ ॥ उसे वे ही जानते हैं; दूसरे बाह्य
 प्रतीतियोंका अनुसरण करनेवाले
 पुरुष नहीं जानते ॥ ९ ॥

कथं तज्ज्योतिषां ज्योति- वह ज्योतियोंका ज्योति किस
 रित्युच्यते— प्रकार है? सो बतलाया जाता है—

ब्रह्मका सर्वप्रकाशकत्व

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं
 नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।
 तमेव भान्तमनुभाति सर्वं
 तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥१०॥

वहाँ (उस आत्मस्वरूप ब्रह्ममें) न सूर्य प्रकाशित होता है और
 न चन्द्रमा या तारे । वहाँ यह बिजली भी नहीं चमकती फिर यह अग्नि
 किस गिनतीमें है? उसके प्रकाशित होनेसे ही सब प्रकाशित होता है
 और यह सब कुछ उसीके प्रकाशसे प्रकाशमान है ॥ १० ॥

न तत्र तस्मिन्स्वात्मभूते वहाँ—अपने आत्मस्वरूप
 ब्रह्मणि सर्वावभासकोऽपि सूर्यो ब्रह्ममें सबको प्रकाशित करनेवाला
 भाति । तद्ब्रह्म न प्रकाशयति सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता
 इत्यर्थः । स हि तस्यैव भासा अर्थात् वह भी उस ब्रह्मको प्रकाशित
 सर्वमन्यदनात्मजातं प्रकाशयति नहीं करता । वह (सूर्य) तो
 उस (ब्रह्म) के प्रकाशसे ही अन्य सब अनात्मपदार्थोंको

इत्यर्थः । न तु तस्य स्वतः
प्रकाशनसामर्थ्यम् । तथा न
चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति
कुतोऽयमग्निरस्मदोचरः ।

किं बहुना; यदिदं जगद्भाति
तत्तमेव परमेश्वरं स्वतो भारूप-
त्वाद्भान्तं दीप्यमानमनुभात्यनु-
दीप्यते । यथा जलोल्मुकाद्य-
ग्निसंयोगादग्निं दहन्तमनुदहति
न स्वतस्तद्वत्तस्यैव भासा दीप्या
सर्वमिदं सूर्यादि जगद्विभाति ।

यत एवं तदेव ब्रह्म भाति च
विभाति च कार्यगतेन विविधेन
भासातस्तस्य ब्रह्मणो भारूपत्वं
स्वतोऽवगम्यते । न हि स्वतोऽ-
विद्यमानं भासनमन्यस्य कर्तुं

प्रकाशित करता है, उसमें स्वतः
प्रकाश करनेका सामर्थ्य है ही
नहीं । इसी प्रकार वहाँ न तो
चन्द्रमा या तारे ही प्रकाशित होते
हैं और न यह त्रिजली ही; फिर
हमें साक्षात् दिखलायी देनेवाला
यह अग्नि तो हो ही कैसे सकता है ?

अधिक क्या ? यह जो जगत्
भासता है वह स्वयं प्रकाशरूप
होनेके कारण उस परमेश्वरके
प्रकाशित होनेपर उसीके पीछे
प्रकाशित—देदीप्यमान हो रहा है ।
जिस प्रकार अग्निके संयोगसे जल
और उल्मुक (अंगारा) आदि
अग्निके प्रज्वलित होनेपर उसके
कारण जलाने लगते हैं—स्वतः
नहीं जल्यते उसी प्रकार यह सूर्य
आदि सम्पूर्ण जगत् उस (परब्रह्म)
के प्रकाश—तेजसे ही प्रकाशित
होता है ।

क्योंकि ऐसी बात है, इसलिये
वह ब्रह्म ही कार्यगत विविध
प्रकाशसे विशेषरूपसे प्रकाशित हो
रहा है । इससे उस ब्रह्मकी
प्रकाशरूपता स्वतः ज्ञात हो जाती
है । जिसमें स्वयं प्रकाश नहीं है
वह दूसरेको भी प्रकाशित नहीं

शक्रोति । घटादीनामन्यावभास-
कत्वाददर्शनाद्भारूपाणां चादि-
त्यादीनां तद्दर्शनात् ॥१०॥

कर सकता, क्योंकि घटादि पदार्थोंमें
दूसरोंको प्रकाशित करना नहीं
देखा जाता तथा प्रकाशस्वरूप सूर्य
आदिमें वह देखा जाता है ॥ १० ॥



यत्तज्ज्योतिषां ज्योतिर्ब्रह्म
तदेव सत्यं सर्वं तद्विकारं
वाचारम्भणं विकारो नामधेय-
मात्रमनृतमितरदित्येतमर्थं विस्त-
रेण हेतुतः प्रतिपादितं निगमन-
स्थानीयेन मन्त्रेण पुनरुपसंहरति ।

जो ब्रह्म ज्योतियोंका ज्योति है,
वही सत्य है तथा सब कुछ उसीका
विकार है जो विकार केवल
वाणीका आरम्भ और नाममात्र है
अतः अन्य सभी मिथ्या है—ऊपर
विस्तार और हेतुपूर्वक कहे हुए
इस अर्थका इस निगमनस्थानीय
मन्त्रसे पुनः उपसंहार करते हैं—

ब्रह्मका सर्वव्यापकत्व

ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद्ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण ।

अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥११॥

यह अमृत ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दायीं-
बायीं ओर है तथा ब्रह्म ही नीचे-ऊपर फैला हुआ है । यह सारा
जगत् सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है ॥ ११ ॥

ब्रह्मैवोक्तलक्षणमिदं यत्पुर-
स्तादग्रे ब्रह्मैवाविद्यादृष्टीनां प्रत्यक्ष-
भासमानं तथा पश्चाद्ब्रह्म तथा
दक्षिणतश्च तथोत्तरेण तथैवाध-

यह जो अविद्यामयी दृष्टिवालों-
को सामने दिखायी दे रहा है वह
उपर्युक्त लक्षणोंवाला ब्रह्म ही है ।
इसी प्रकार पीछे भी ब्रह्म है, दायीं
और बायीं ओर भी ब्रह्म है तथा

स्तादूर्ध्वं च सर्वतोऽन्यदिव कार्या- नीचे-ऊपर सभी ओर कार्यरूपसे
कारेण प्रसृतं प्रगतं नामरूपव- नामरूपविशिष्ट होकर फैला हुआ
दवभासमानम् । किं बहुना ब्रह्मैव वह ब्रह्म ही अन्य पदार्थोंके समान
इदं विश्वं समस्तमिदं जगद्वरिष्ठं विश्व अर्थात् सारा जगत् श्रेष्ठतम
वर्ततम् । अब्रह्मप्रत्ययः सर्वो- ब्रह्म ही है । यह सम्पूर्ण अब्रह्मरूप
ऽविद्यामात्रो रज्ज्वामिव सर्प- प्रतीति रज्जुमें सर्पप्रतीतिके समान
प्रत्ययः । ब्रह्मैवैकं परमार्थसत्य- ही परमार्थ सत्य है—यह वेदका
मिति वेदानुशासनम् ॥ ११ ॥ उपदेश है ॥ ११ ॥



इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषद्भाष्ये द्वितीयमुण्डके

द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥



समाप्तमिदं द्वितीयं मुण्डकम् ॥ २ ॥



तृतीय सुण्डक



प्रथम खण्ड



प्रकारान्तरसे ब्रह्मनिरूपण

परा विद्योक्ता यया तदक्षरं
पुरुषाख्यं सत्यमधिगम्यते ।
यदधिगमे हृदयग्रन्थ्यादिसंसार-
कारणस्यात्यन्तिकविनाशः स्यात् ।
तद्दर्शनोपायश्च योगो धनुराद्यु-
पादानकल्पनयोक्तः । अथेदानीं
तत्सहकारीणि सत्यादिसाधनानि
वक्तव्यानीति तदर्थमुत्तरारम्भः ।
प्राधान्येन तत्त्वनिर्धारणं च
प्रकारान्तरेण क्रियते अत्यन्त-
दुरवगाह्यत्वात्कृतमपि । तत्र
सूत्रभूतो मन्त्रः परमार्थवस्त्वव-
धारणार्थमुपन्यस्यते—

जिससे उस अक्षर पुरुषसंज्ञक
सत्यका ज्ञान होता है उस परा
विद्याका वर्णन किया गया, जिसका
ज्ञान होनेपर हृदयग्रन्थि आदि
संसारके कारणका आत्यन्तिक नाश
हो जाता है । तथा धनुर्ग्रहण आदिकी
कल्पनासे उसके साक्षात्कारके उपाय
योगका भी उल्लेख किया गया ।
अब उसके सहकारी सत्यादि
साधनोंका वर्णन करना है; इसी-
के लिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ
किया जाता है । यद्यपि ऊपर
तत्त्वका निश्चय किया जा चुका है
तो भी अत्यन्त दुर्बोध होनेके
कारण उसका प्रधानतासे दूसरी
तरह फिर निश्चय किया जाता है ।
अतः परमार्थवस्तुको समझनेके
लिये पहले इस सूत्रभूत मन्त्रका
उपन्यास (उल्लेख) करते हैं—

समान वृक्षपर रहनेवाले दो पक्षी

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया

समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्य-

नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ १ ॥

साथ-साथ रहनेवाले तथा समान आख्यानवाले दो पक्षी एक ही वृक्षका आश्रय करके रहते हैं । उनमें एक तो स्वादिष्ट (मधुर) पिप्पल (कर्मफल) का भोग करता है और दूसरा भोग न करके केवल देखता रहता है ॥ १ ॥

द्वा द्वौ सुपर्णा सुपर्णौ शोभन- [जीव और ईश्वररूप] दो
सुपर्ण—सुन्दर पर्णवाले अर्थात्
पतनौ सुपर्णौ पक्षिसामान्याद्वा [नियम्य-नियामकभावकी प्राप्तिरूप]
शोभन पतनवाले* अथवा पक्षियोंके
सुपर्णौ मयुजा सयुजौ सहैव समान [वृक्षपरनिवास तथा फलभोग
करनेवाले] होनेसे सुपर्ण—पक्षी
सर्वदा युक्तौ सखाया सखाया तथा सयुज—सर्वदा साथ-साथ ही
समानाख्यानाौ समानाभिव्यक्ति- रहनेवाले और सखा यानी समान
आख्यानवाले अर्थात् जिनकी अभि-
कारणावेवंभूतौ सन्तौ समान- व्यक्तिका कारण समान है ऐसे दो
सुपर्ण समान—सामान्यरूपसे
मविशेषमुपलब्ध्यधिष्ठानतयैकं वृक्षं [दोनोंकी] उपलब्धिका कारण होनेसे
एक ही वृक्ष—वृक्षके समान उच्छेदमें
वृक्षमिवोच्छेदनसामान्याच्छरीरं समानता होनेके कारण शरीररूप

* ईश्वर सर्वज्ञ होनेके कारण नियामक है तथा जीव अल्पज्ञ होनेसे नियम्य है । इसलिये उनमें नियम्य-नियामकभावकी प्राप्ति उचित ही है ।

वृक्षं परिष्वजाते परिष्वक्त-
वन्तौ सुपर्णाविवैकं वृक्षं फलोप-
भोगार्थम् ।

अयं हि वृक्ष ऊर्ध्वमूलोऽवा-
कशाखोऽश्वत्थोऽव्यक्तमूलप्रभवः
क्षेत्रसंज्ञकः सर्वप्राणिकर्मफला-
श्रयस्तं परिष्वक्तौ सुपर्णाविवा-
विद्याकामकर्मवासनाश्रयलिङ्गो-
पाध्यात्मेश्वरौ । तयोः परिष्वक्त-
योरन्य एकः क्षेत्रज्ञो लिङ्गो-
पाधिवृक्षमाश्रितः पिप्पलं कर्म-
निष्पन्नं सुखदुःखलक्षणं फलं
स्वाद्वनेकविचित्रवेदनास्वादरूपं
स्वाद्वत्ति भक्षयत्युपभुङ्क्तेऽविवे-
कतः । अनशन्नन्य इतर ईश्वरो
नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः सर्वज्ञः
सर्वसत्त्वोपाधिरीश्वरो नाश्नाति ।
प्रेरयिता ह्यसावुभयोर्भोज्य-

वृक्षपर आलिङ्गन किये हुए हैं,
अर्थात् फलोपभोगके लिये पक्षियोंके
समान एक ही वृक्षपर निवास
करते हैं ।

अव्यक्तरूप मूलसे उत्पन्न हुआ
सम्पूर्ण प्राणियोंके कर्मफलका आश्रय-
भूत यह क्षेत्रसंज्ञक अश्वत्थवृक्ष
ऊपरको मूल और नीचेकी ओर
शाखाओंवाला है । उस वृक्षपर
अविद्या, काम, कर्म और वासनाके
आश्रयभूत लिङ्गदेहरूप उपाधिवाले
जीव और ईश्वर दो पक्षियोंके समान
आलिङ्गन किये निवास करते हैं ।
इस प्रकार आलिङ्गन करके रहने-
वाले उन दोनोंमेंसे एक—
लिङ्गोपाधिरूप वृक्षको आश्रित
करनेवाला क्षेत्रज्ञ पिप्पल यानी
अपने कर्मसे प्राप्त होनेवाला सुख-
दुःखरूप फल, जो अनेक प्रकारसे
विचित्र अनुभवरूप स्वादके कारण
स्वादु है, खाता—भक्षण करता
यानी अविवेकवश भोगता है ।
किन्तु अन्य—दूसरा, जो नित्य शुद्ध-
बुद्ध-मुक्तस्वरूप सर्वज्ञ मायोपाधिक
ईश्वर है, उसे ग्रहण न करता
हुआ नहीं भोगता । यह तो
साक्षित्वरूप सत्तामात्रसे भोक्ता और

भोक्त्रोर्नित्यसाक्षित्वसत्तामात्रेण । भोग्यदोनोंका प्रेरक ही है । अतः
 स त्वनश्चन्नन्योऽभिचाकशीति वह दूसरा तो फल-भोग न करके
 पश्यत्येव केवलम् । दर्शनमात्रं केवल देखता ही है—उसका
 हि तस्य प्रेरयितृत्वं राजवत् ॥१॥ प्रेरकत्व तो राजाके समान केवल
 दर्शनमात्र ही है ॥ १ ॥



ईश्वरदर्शनसे जीवकी शोकनिवृत्ति

तत्रैवं सति—

अतः ऐसा होनेसे—

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो-

ऽनीशया शोचति मुह्यमानः ।

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य

महिमानमिति

वीतशोकः ॥ २ ॥

[ईश्वरके साथ] एक ही वृक्षपर रहनेवाला जीव अपने दीन-
 स्वभावके कारण मोहित होकर शोक करता है । वह जिस समय
 [ध्यानद्वारा] अपनेसे विलक्षण योगिसेवित ईश्वर और उसकी महिमा
 [संसार] को देखता है उस समय शोकरहित हो जाता है ॥ २ ॥

समाने वृक्षे यथोक्ते शरीरे समान वृक्षपर यानी पूर्वोक्त
 पुरुषो भोक्ता जीवोऽविद्याकाम- शरीरमें अविद्या, कामना, कर्मफल
 कर्मफलरागादिगुरुभाराक्रान्तो- होकर समुद्रके जलमें डूबे हुए
 ज्वाबुरिव सामुद्रे जले निमग्नो- तूँबके समान निमग्न—निश्चयपूर्वक
 निश्चयेन देहात्मभावमापन्नोऽय- देहात्मभावको प्राप्त हुआ यह भोक्ता
 मेवाहममुष्य पुत्रोऽस्य नसा कृशः जीव 'मैं यही हूँ', 'मैं अमुकका पुत्र
 हूँ', 'इसका नाती हूँ', 'कृश हूँ',

स्थूलो गुणवान्निर्गुणः सुखी
दुःखीत्येवंप्रत्ययो नास्त्यन्यो-
ऽस्मादिति जायते म्रियते संयुज्यते
वियुज्यते च सम्बन्धिवान्धवैः ।

अतोऽनीशया न कस्यचित्
समर्थोऽहं पुत्रो मम विनष्टो मृता
मे भार्या किं मे जीवितेनेत्येवं
दीनभावोऽनीशा तथा शोचति
सन्तप्यते मुञ्चमानोऽनेकैरनर्थ-
प्रकारैरविवेकतया चिन्तामापद्य-
मानः ।

स एवं प्रेततिर्यङ्मनुष्यादि-
योनिष्वजाजवं जवीभावमापन्नः
कदाचिदनेकजन्मसु शुद्धधर्म-
सञ्चितनिमित्ततः केनचित्परम-
कारुणिकेन दर्शितयोगमार्गो-
ऽहिंसासत्यब्रह्मचर्यसर्वत्यागशम-
दमादिसम्पन्नः समाहितात्मा
सन् जुष्टं सेवितमनेकैर्योगमार्गैः

‘स्थूल हूँ’, ‘गुणवान् हूँ’, ‘गुणहीन
हूँ’, ‘सुखी हूँ’ ‘दुःखी हूँ’, इत्यादि
प्रकारके प्रत्ययोंवाला होनेसे तथा
‘इस देहसे भिन्न और कुछ नहीं है’
ऐसा समझनेके कारण उत्पन्न होता,
मरता एवं अपने सम्बन्धियोंसे
मिलता और विछुड़ता रहता है ।

अतः अनीशावश—‘मैं किसी
कार्यके लिये समर्थ नहीं हूँ, मेरा
पुत्र नष्ट हो गया और स्त्री भी मर
गयी, अब मेरे जीवनसे क्या लाभ
है ?’—इस प्रकारके दीनभावको
अनीशा कहते हैं, उससे युक्त होकर
अविवेकवश अनेकों अनर्थमय
प्रकारोंसे मोहित अर्थात् आन्तरिक
चिन्ताको प्राप्त हुआ वह शोक
यानी सन्ताप करता रहता है ।

इस प्रकार प्रेत, तिर्यक् और
मनुष्यादि योनियोंमें निरन्तर
लघुताको प्राप्त हुआ वह जिस समय
अनेकों जन्मोंमें कभी अपने शुद्ध
धर्मके सञ्चयके कारण किसी परम
कारुणिक गुरुके द्वारा योगमार्ग
दिखलाये जानेपर अहिंसा, सत्य,
ब्रह्मचर्य, सर्वत्याग और शम-दमादि-
से सम्पन्न तथा समाहितचित्त होकर
ध्यान करनेपर अनेकों योगमार्गों और

कर्मभिश्च यदा यस्मिन्काले पश्य-
ति ध्यायमानोऽन्यं वृक्षोपाधि-
लक्षणाद्विलक्षणमीशमसंसारिण-
मशनायापिपासाशोकमोहजरा-
मृत्यवतीतमीशं सर्वस्य जगतो-
ऽयमहमस्म्यात्मा सर्वस्य समः
सर्वभूतस्थो नेतरोऽविद्याजनितो-
पाधिपरिच्छिन्नो मायात्मेति
विभूतिं महिमानं च जगद्रूप-
मस्यैव मम परमेश्वरस्येति यदैवं
द्रष्टा तदा वीतशोको भवति
सर्वस्वाच्छोकसागराद्विप्रमुच्यते
कृतकृत्यो भवतीत्यर्थः ॥ २ ॥

कर्मोंद्वारा सेवित अन्य—वृक्षरूप
उपाधिसे विलक्षण ईश्वर यानी भूख,
प्यास, शोक, मोह और जरा-मृत्यु
आदिसे अतीत संसारधर्मशून्य
सम्पूर्ण जगत्के स्वामीको 'मैं यह
सम्पूर्ण भूतोमें स्थित और सबके
लिये समान आत्मा ही हूँ, अविद्या-
जनित उपाधिसे परिच्छिन्न दूसरा
मायात्मा नहीं हूँ' इस प्रकार देखता
है तथा उसकी महिमा यानी
जगत् रूप विभूतिको 'यह इस
परमेश्वरस्वरूप मेरी ही है' इस
प्रकार [जानता है] उस समय
वह शोकरहित हो जाता है—
सम्पूर्ण शोकसागरसे मुक्त हो जाता
है अर्थात् कृतकृत्य हो जाता है ॥२॥

अन्योऽपि मन्त्र इममेवार्थमाह
सविस्तरम्—

दूसरा मन्त्र भी इसी बातको
विस्तारपूर्वक बतलाता है—

यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं

कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् ।

तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय

निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥ ३ ॥

जिस समय द्रष्टा सुवर्णवर्ण और ब्रह्माके भी उत्पत्तिस्थान उस
जगत्कर्ता ईश्वर पुरुषको देखता है उस समय वह विद्वान् पाप-पुण्य
दोनोंको त्यागकर निर्मल हो अत्यन्त समताको प्राप्त हो जाता है ॥ ३ ॥

यदा यस्मिन्काले पश्यः
 पश्यतीति विद्वान्साधक इत्यर्थः ।
 पश्यते पश्यति पूर्ववद्रुक्मवर्णं
 स्वयंज्योतिःस्वभावं रुक्मस्येव वा
 ज्योतिरस्याविनाशि कर्तारं सर्वस्य
 जगत ईशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं
 ब्रह्म च तद्योनिश्चासौ ब्रह्म-
 योनिस्तं ब्रह्मयोनिं ब्रह्मणो
 वापरस्य योनिं स यदा चैवं
 पश्यति तदा स विद्वान्पश्यः
 पुण्यपापे बन्धनभूते कर्मणी
 समूले विधूय निरस्य दग्ध्वा
 निरञ्जनो निर्लेपो विगतक्लेशः
 परमं प्रकृष्टं निरतिशयं साम्यं
 समतामद्वयलक्षणं द्वैतविषयाणि
 साम्यान्यतोऽर्वाञ्च्येवातोऽद्वय-
 लक्षणमेतत्परमं साम्यमुपैति
 प्रतिपद्यते ॥ ३ ॥

जिस समय देखनेवाला होनेके
 कारण पश्य—द्रष्टा विद्वान् अर्थात्
 साधक रुक्मवर्ण—स्वयंप्रकाश-
 स्वरूप अथवा सुवर्णके समान जिसका
 प्रकाश अविनाशी है उस सकल-
 जगत्कर्ता ईश्वर पुरुष ब्रह्मयोनि-
 को—जो ब्रह्म है और योनि भी
 है अथवा जो अपर ब्रह्म (ब्रह्मा)
 की योनि है उस ब्रह्मयोनिको
 इस प्रकार पूर्ववत् देखता है उस समय
 वह विद्वान् द्रष्टा पुण्य-पाप यानी
 अपने बन्धनभूत कर्मोंको समूल
 त्यागकर—भस्म करके निरञ्जन—
 निर्लेप अर्थात् क्लेशरहित होकर
 अद्वयरूप परम—उत्कृष्ट यानी
 निरतिशय समताको प्राप्त हो जाता
 है । द्वैतविषयक समता इस
 अद्वैतरूप साम्यसे निकृष्ट ही है;
 अतः वह अद्वैतरूप परम साम्यको
 प्राप्त हो जाता है ॥ ३ ॥

श्रेष्ठतम ब्रह्मज्ञ

किं च—

तथा—

प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैर्विभाति

विजानन्विद्वान्भवते नातिवादी ।

आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावा-

नेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ ४ ॥

यह, जो सम्पूर्ण भूतोंके रूपमें भासमान हो रहा है प्राण है । इसे जानकर विद्वान् अतिवादी नहीं होता । यह आत्मामें क्रीडा करने-वाला और आत्मामें ही रमण करनेवाला क्रियावान् पुरुष ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठतम है ॥ ४ ॥

योऽयं प्राणस्य प्राणः पर इक्ष्वरो ह्येष प्रकृतः सर्वभूतैर्ब्रह्मा-
दिस्तम्बपर्यन्तैः, इत्थंभूतलक्षणे
तृतीया, सर्वभूतस्थः सर्वात्मा
सन्नित्यर्थः; विभाति विविधं
दीप्यते । एवं सर्वभूतस्थं यः
साक्षादात्मभावेनायमहमस्मीति
विजानन्विद्वान्वाक्यार्थज्ञानमात्रेण
स भवते भवति न भवतीत्येतत्
किमतिवाद्यतीत्य सर्वानन्यान्
वदितुं शीलमस्येत्यतिवादी ।

यह जो प्राणका प्राण परमेश्वर है वह प्रकृत [परमात्मा] ही सम्पूर्ण भूतों—ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त प्राणियोंके द्वारा अर्थात् सर्वभूतस्थ सर्वात्मा होकर विभासित यानी विविध प्रकारसे देदीप्यमान हो रहा है । 'सर्वभूतैः' इस पदमें इत्थंभूतलक्षणा तृतीया* है । इस प्रकार जो विद्वान् उस सर्वभूतस्थ प्राणको 'मैं यही हूँ' ऐसा साक्षात् आत्म-स्वरूपसे जाननेवाला है वह उस वाक्यके अर्थज्ञानमात्रसे भी नहीं होता । क्या नहीं होता ? [इसपर कहते हैं—] अतिवादी नहीं होता । जिसका स्वभाव और सबका अतिक्रमण करके बोलनेका होता है उसे अतिवादी कहते हैं ।

* इत्थंभूतलक्षणे (२ । ३ । २१) इस पाणिनिसूत्रसे यहाँ तृतीया विभक्ति हुई है । किसी प्रकारकी विशेषताको प्राप्त हुई वस्तुको जो लक्षित कराता है

यस्त्वेवं साक्षादात्मानं प्राणस्य प्राणं विद्वानतिवादी स न भवतीत्यर्थः । सर्वं यदात्मैव नान्यदस्तीति दृष्टं तदा किं ह्यसावतीत्य वदेत् । यस्य त्वपरमन्यद् दृष्टमस्ति स तदतीत्य वदति । अयं तु विद्वानात्मनोऽन्यन्न पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति । अतो नातिवदति ।

किं चात्मक्रीड आत्मन्येव च क्रीडा क्रीडनं यस्य नान्यत्र पुत्रदारादिषु स आत्मक्रीडः । तथात्मरतिरात्मन्येव च रती रमणं प्रीतिर्यस्य स आत्मरतिः । क्रीडा बाह्यसाधनसापेक्षा, रतिस्तु

तात्पर्य यह कि जो इस प्रकार प्राणके प्राण साक्षात् आत्माको जाननेवाला है वह अतिवादी नहीं होता । जब कि उसने यह देखा है कि सब आत्मा ही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है तब वह किसका अतिक्रमण करके बोलेगा ? जिसकी दृष्टिमें कुछ और दीखनेवाला पदार्थ है वही उसका अतिक्रमण करके बोलता है । किन्तु यह विद्वान् तो आत्मासे भिन्न न कुछ देखता है, न सुनता है और न कुछ जानता ही है । इसलिये यह अतिवादन भी नहीं करता ।

यही नहीं, वह [आत्मक्रीड, आत्मरति और क्रियावान् हो जाता है ।] आत्मक्रीड—जिसकी आत्मामें ही क्रीडा हो, अन्य स्त्री-पुत्रादिमें न हो उसे आत्मक्रीड कहते हैं; तथा जिसकी आत्मामें ही रति—रमण यानी प्रीति हो वह आत्मरति कहलाता है । क्रीडा बाह्य साधनकी अपेक्षा रखनेवाली होती है और

वह 'इत्थंभूतलक्षण' कहलाता है; उसमें तृतीया विभक्ति होती है । जैसे 'जटाभिस्तापसः' (जटाओंसे तपस्वी है) इस वाक्यमें जटाओंके द्वारा तपस्वी होना लक्षित होता है; अतः 'जटा' में तृतीया विभक्ति है । इसी प्रकार 'सर्वभूत' शब्दसे ईश्वरका सब भूतोंमें स्थित होना लक्षित होता है ।

साधननिरपेक्षा बाह्यविषयप्रीति-
मात्रमिति विशेषः । तथा क्रिया-
वाञ्छानध्यानवैराग्यादिक्रिया
यस्य सोऽयं क्रियावान् । समास-
पाठ आत्मरतिरेव क्रियास्य विद्यत
इति बहुव्रीहिमतुर्बर्थयोरन्यतरो-
ऽतिरिच्यते ।

केचिन्वग्निहोत्रादिकर्मब्रह्म-

समुच्चयवादिमत-
खण्डनम् विद्ययोः समुच्चयार्थ-
मिच्छन्ति । तच्चैष
ब्रह्मविदां वरिष्ठ
इत्यनेन मुख्यार्थवचनेन विरु-
ध्यते । न हि बाह्यक्रियावानात्म-
क्रीड आत्मरतिश्च भवितुं शक्तः,
कश्चिद्बाह्यक्रियाविनिवृत्तो ह्यात्म-
क्रीडो भवति बाह्यक्रियात्मक्रीड-
योर्विरोधात् । न हि तमःप्रकाश-
योर्युगपदेकत्र स्थितिः संभवति ।

रति साधनकी अपेक्षा न करके
बाह्य विषयकी प्रीतिमात्रको कहते
हैं—यही इन दोनोंमें विशेषता
(अन्तर) है । तथा क्रियावान्
अर्थात् जिसकी ज्ञान, ध्यान एवं
वैराग्यादि क्रियाएँ हों उसे क्रियावान्
कहते हैं । किन्तु ['आत्मरति-
क्रियावान्' ऐसा] समासयुक्त पाठ
होनेपर 'आत्मरति हो जिसकी क्रिया
है' [ऐसा अर्थ होनेसे] बहुव्रीहि
समास और 'मतुप्' प्रत्ययका
अर्थ—इन दोनोंमेंसे एक (मतुप्
प्रत्ययका अर्थ) अधिक हो जाता है ।

कोई-कोई (समुच्चयवादी) तो
[आत्मरति और क्रियावान् इन
दोनों विशेषणोंको] अग्निहोत्रादि
कर्म और ब्रह्मविद्याके समुच्चयके
लिये समझते हैं । किन्तु उनका
यह अभिप्राय 'ब्रह्मविदां वरिष्ठः'
इस मुख्यार्थवाची कथनसे विरुद्ध है ।
बाह्यक्रियावान् पुरुष आत्मक्रीड
और आत्मरति हो ही नहीं सकता ।
कोई भी पुरुष बाह्यक्रियासे निवृत्त
होकर ही आत्मक्रीड हो सकता
है, क्योंकि बाह्यक्रिया और
आत्मक्रीडाका परस्पर विरोध
है । अन्धकार और प्रकाशकी
एक स्थानपर एक ही समय स्थिति
हो ही नहीं सकती ।

तस्मादसत्प्रलपितमेवैतदनेन
 ज्ञानकर्मसमुच्चयप्रतिपादनम् ।
 “अन्या वाचो विमुञ्चथ”
 (मु० उ० २।२।५) “संन्यास-
 योगात्” (मु० उ० ३।२।६)
 इत्यादिश्रुतिभ्यश्च । तस्मादय-
 मेवेह क्रियावान्यो ज्ञानध्यानादि-
 क्रियावानसंभ्रार्यमर्यादः
 संन्यासी । य एवंलक्षणो नाति-
 वाद्यात्मक्रीड आत्मरतिः क्रिया-
 वान्ब्रह्मनिष्ठः स ब्रह्मविदां सर्वेषां
 वरिष्ठः प्रधानः ॥ ४ ॥

अतः इस वचनके द्वारा यह
 ज्ञान और कर्मके समुच्चयका
 प्रतिपादन मिथ्या प्रलाप ही है ।
 यही बात “अन्या वाचो विमुञ्चथ”
 “संन्यासयोगात्” इत्यादि श्रुतियोंसे
 भी सिद्ध होती है । अतएव इस
 जगह उसीको ‘क्रियावान्’ कहा है
 जो ज्ञान-ध्यानादि क्रियाओंवाला
 और आर्यमर्यादाका भङ्ग न करने-
 वाला संन्यासी है । जो ऐसे
 लक्षणोंवाला अनतिवादी, आत्म-
 क्रीड, आत्मरति और क्रियावान्
 ब्रह्मनिष्ठ है वही समस्त ब्रह्मवेत्ताओं-
 में वरिष्ठ यानी प्रधान है ॥ ४ ॥

—*o*o*—

आत्मदर्शनके साधन

अधुना सत्यादीनि भिक्षोः । अब भिक्षुके लिये सम्यग्ज्ञानके
 सम्यग्ज्ञानसहकारीणि साधनानि सहकारी सत्य आदि निवृत्तिप्रधान
 विधीयन्ते निवृत्तिप्रधानानि— साधनोंका विधान किया जाता है—

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा

सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।

अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो

यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥

यह आत्मा सर्वदा सत्य, तप, सम्यग्ज्ञान और ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । जिसे दोषहीन योगिजन देखते हैं वह ज्योतिर्मय शुभ्र आत्मा शरीरके भीतर रहता है ॥ ५ ॥

सत्येनानृतत्यागेन मृषा- [यह आत्मा] सत्यसे अर्थात् अनृत
 वदनत्यागेन लभ्यः प्राप्तव्यः । यानी मिथ्या-भाषणके त्यागद्वारा
 किं च तपसा हीन्द्रियमन- “मन और इन्द्रियोंकी एकाप्रता ही
 एकाग्रतया “मनसश्चेन्द्रियाणां परम तप है” इस स्मृतिके अनुसार
 च ह्यैकाग्र्यं परमं तपः” एकाप्रतामे भी [इस आत्माकी
 (महा० शा० २५० । ४) इति उपलब्धि हो सकती है], क्योंकि
 सरणात् । तद्वद्यनुकूलमात्मदर्श- आत्मदर्शनके अभिमुख रहनेके कारण
 नाभिमुखीभावात्परमं साधनं तपो यही तप उसका अनुकूल परम
 नेतरचान्द्रायणादि । एष आत्मा साधन है—इसरा चान्द्रायणादि
 लभ्य इत्यनुषङ्गः सर्वत्र । तप उसका साधन नहीं है
 सम्यग्ज्ञानेन यथाभूतात्म- [इसके सिवा] सम्यग्ज्ञान—यथार्थ
 दर्शनेन ब्रह्मचर्येण मैथुनासमा- आत्मदर्शन और ब्रह्मचर्य—मैथुनके
 चारेण । नित्यं सर्वदा नित्यं त्यागसे भी नित्य अर्थात् सर्वदा
 सत्येन नित्यं तपसा नित्यं सम्य- [इस आत्माकी प्राप्ति हो सकती
 ग्ज्ञानेनेति सर्वत्र नित्यशब्दोऽ- है]; यहाँ ‘एष आत्मा लभ्यः’
 न्तर्दीपिकान्यायेन अनुषक्तव्यः । (इस आत्माकी प्राप्ति हो सकती
 है) इस वाक्यका सर्वत्र सम्बन्ध है ।
 ‘सर्वदा सत्यसे’, ‘सर्वदा तपसे’ और
 ‘सर्वदा सम्यग्ज्ञानसे’ इस प्रकार अन्त-
 र्दीपिकान्यायसे (मध्यवर्ती दीपकोंके
 समान) सभीके साथ ‘नित्य’
 शब्दका सम्बन्ध लगाना चाहिये;

वक्ष्यति च—“न येषु जिह्वम-
नृतं न माया च” (प्र०
उ० १ । १६) इति ।

कोऽसावात्मा य एतैः साध-
नैर्लभ्य इत्युच्यते । अन्तःशरीरे-
ऽन्तर्मध्ये शरीरस्य पुण्डरीकाकाशे
ज्योतिर्मयो हि रुक्मवर्णः शुभ्रः
शुद्धो यमात्मानं पश्यन्त्युपलभन्ते
यतयो यतनशीलाः संन्यासिनः
क्षीणदोषाः क्षीणक्रोधादिचित्त-
मलाः । स आत्मा नित्यं सत्या-
दिसाधनैः संन्यासिभिर्लभ्यते ।
न कादाचित्कैः सत्यादिभिः
लभ्यते । सत्यादिसाधनस्तु-
त्यर्थोऽयमर्थवादः ॥ ५ ॥

जैसा कि आगे (प्रश्नोपनिषद्में)
कहेंगे भी*‘जिन पुरुषोंमें कुटिलता,
अनृत और माया नहीं है’ इत्यादि ।

जो आत्मा इन साधनोंसे प्राप्त
किया जाता है वह कौन है—
इसपर कहा जाता है—‘अन्तः-
शरीरे’ अर्थात् शरीरके भीतर
पुण्डरीकाकाशमें जो ज्योतिर्मय
सुवर्णवर्ण शुभ्र यानी शुद्ध आत्मा
है, जिसे कि क्षीणदोष यानी
जिनके क्रोधादि मनोमल क्षीण हो
गये हैं वे यतिजन—यत्नशील
संन्यासी लोग देखते अर्थात् उपलब्ध
करते हैं । तात्पर्य यह है कि वह
आत्मा सर्वदा सत्यादि साधनोंसे ही
संन्यासियोंद्वारा प्राप्त किया जा
सकता है—कभी-कभी व्यवहार
किये जानेवाले सत्यादिसे प्राप्त नहीं
होता । यह अर्थवाद सत्यादि
साधनोंकी स्तुतिके लिये है ॥ ५ ॥

—o-o-o-o—
सत्यकी महिमा

सत्यमेव जयति नानृतं

सत्येन पन्था विततो देवयानः ।

* इस भविष्यत्कालिक उक्तिसे विदित होता है कि उपनिषद्भाष्यके विद्यार्थियों-
को मुण्डकके पश्चात् प्रश्नोपनिषद्का अध्ययन करना चाहिये ।

येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा

यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥ ६ ॥

सत्य ही जयको प्राप्त होता है, मिथ्या नहीं । सत्यसे देवयान-मार्गका विस्तार होता है, जिसके द्वारा आप्तकाम ऋषिलोग उस पदको प्राप्त होते हैं जहाँ वह सत्यका परम निधान (भण्डार) वर्तमान है ॥६॥

सत्यमेव सत्यवानेव जयति सत्य अर्थात् सत्यवान् ही जय-
नानृतं नानृतवादीत्यर्थः । न मिथ्यावादी नहीं । [यह 'सत्य'
हि सत्यानृतयोः केवलयोः और 'अनृत' का सत्यवान् और
पुरुषानाश्रितयोर्ययः पराजयो मिथ्यावादी अर्थ इसलिये किया
वा सम्भवति । प्रसिद्धं लोके गया है कि] पुरुषका आश्रय न
मन्यवादिनानृतवाद्यभिभूयते न करनेवाले केवल सत्य और मिथ्या-
विपर्ययोऽतः सिद्धं सत्यस्य बल- का ही जय या पराजय नहीं हो
वत्साधनत्वम् । साधनत्व सिद्ध होता है ।

किं च शास्त्रतोऽप्यवगम्यते यही नहीं, सत्यका उत्कृष्ट
सत्यस्य साधनातिशयत्वम् । साधनत्व शास्त्रसे भी जाना
कथम् ? सत्येन यथाभूतवाद- जाता है । किस प्रकार ? [सो
व्यवस्थया पन्था देवयानाख्यो वतलते हैं—] सत्य अर्थात् यथार्थ
विततो विस्तीर्णः सातत्येन प्रवृत्तः वचनकी व्यवस्थासे देवयानसंज्ञक
येन यथा ह्याक्रमन्ति क्रमन्त मार्ग विस्तीर्ण यानी नैरन्तर्यसे प्रवृत्त
ऋषयो दर्शनवन्तः कुहकमाया- होता है, जिस मार्गसे कपट, छल,
शठता, अहङ्कार, दम्भ और अनृतसे

शाठ्याहंकारदम्भानृतवर्जिता रहित तथा सब ओरसे पूर्णकाम
 ह्याप्तकामा विगततृष्णाः सर्वतो और तृष्णारहित ऋषिगण—
 यत्र यस्मिंस्तत्परमार्थतत्त्वं सत्य- [अतीन्द्रिय वस्तुको] देखनेवाले
 स्योत्तमसाधनस्य सम्बन्धि साध्यं पुरुष [उस पदपर] आरूढ़ होते
 परमं प्रकृष्टं निधानं पुरुषार्थ- हैं, जिसमें कि सत्यसंज्ञक उत्कृष्ट
 रूपेण निधीयत इति निधानं साधनका सम्बन्धी उसका साध्यरूप
 वर्तते । तत्र च येन पथाक्रमन्ति परमार्थतत्त्व जो पुरुषार्थरूपसे निहित
 स सत्येन वितत इति पूर्वेण होनेके कारण निधान है वह परम
 सम्बन्धः ॥ ६ ॥ 'उस पदमें जिस मार्गसे आरूढ़
 होते हैं वह सत्यसे ही विस्तीर्ण हो
 रहा है'—इस प्रकार इसका पूर्व-
 वाक्यसे सम्बन्ध है ॥ ६ ॥

परमपदका स्वरूप

किं तत्किं धर्मकं च तदित्यु- वह क्या है और किन धर्मों-
 च्यते— वाळा है ? इसपर कहा जाता है—

बृहच्च तदिव्यमचिन्त्यरूपं
 सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति ।
 दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च
 पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम् ॥ ७ ॥

वह महान् दिव्य और अचिन्त्यरूप है । वह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर
 भासमान होता है तथा दूरसे भी दूर और इस शरीरमें अत्यन्त समीप
 भी है । वह चेतनावान् प्राणियोंमें इस शरीरके भीतर उनकी बुद्धिरूप
 गुहामें छिपा हुआ है ॥ ७ ॥

बृहन्महच्च तत्प्रकृतं ब्रह्म
सत्यादिसाधनं सर्वतो व्याप्त-
त्वात् । दिव्यं स्वयंप्रभमनिन्द्रिय-
गोचरमत एव न चिन्तयितुं
शक्यतेऽस्य रूपमित्यचिन्त्य-
रूपम् । सूक्ष्मादाकाशादेरपि
तत्सूक्ष्मतरम्, निरतिशयं हि
सौक्ष्म्यमस्य सर्वकारणत्वाद्,
विभातिविविधमादित्यचन्द्राद्या-
कारेण भाति दीप्यते ।

किं च दूराद्विप्रकृष्टदेशात्सुदूरे
विप्रकृष्टतरे देशे वर्ततेऽविदुषा-
मत्यन्तागम्यत्वात्तद्ब्रह्म । इह
देहेऽन्तिके समीपे च विदुषा-
मात्मत्वात् । सर्वान्तरत्वाच्चा-
काशस्याप्यन्तरश्रुतेः । इह
पश्यत्सु चेतनावत्स्वित्येतन्निहितं
स्थितं दर्शनादिक्रियावत्त्वेन
योगिभिर्लक्ष्यमाणम् । क ? गुहायां

सत्यादि जिसकी प्राप्तिके साधन
हैं वह प्रकृत ब्रह्म सब ओर व्याप्त
होनेके कारण बृहत्—महान् है ।
वह दिव्य—स्वयंप्रभ यानी इन्द्रियों-
का अविषय है, इसलिये जिसका
रूप चिन्तन न किया जा सके
ऐसा अचिन्त्यरूप है । वह
आकाशादि सूक्ष्म पदार्थोंसे भी
सूक्ष्मतर है । सबका कारण होनेसे
इसकी सूक्ष्मता सबमे अधिक है ।
इस प्रकार वह सूर्य-चन्द्र आदि
रूपोंसे अनेक प्रकार भासित यानी
दीप्त हो रहा है ।

इसके सिवा वह ब्रह्म अज्ञानियोंके
लिये अत्यन्त अगम्य होनेके कारण दूर
यानी दूरस्थ देशसे भी अधिक दूर—
अत्यन्त दूरस्थ देशमें वर्तमान है;
तथा विद्वानोंका आत्मा होनेके
कारण इस शरीरमें अत्यन्त समीप
भी है । यह श्रुतिके कथनानुसार
सबके भीतर रहनेवाला होनेसे
आकाशके भीतर भी स्थित है । यह
इस लोकमें 'पश्यत्सु' अर्थात्
चेतनावान् प्राणियोंमें योगियोंद्वारा
दर्शनादिक्रियावत्त्वरूपसे स्थित देखा
जाता है । कहाँ देखा जाता है ?

बुद्धिलक्षणायाम् । तत्र हि निगूढं । उनकी बुद्धिरूप गुहामें । यह
लक्ष्यते विद्वद्भिः । तथाप्य- विद्वानोंको उसीमें छिपा हुआ
विद्यया संबृतं सन्न लक्ष्यते । आच्छादित रहनेके कारण यह
तत्रस्थमेवाविद्वद्भिः ॥ ७ ॥ अज्ञानियोंको वहाँ स्थित रहनेपर भी
दिखायी नहीं देता ॥ ७ ॥

आत्मसाक्षात्कारका असाधारण साधन—चित्तशुद्धि

पुनरप्यसाधारणं तदुपलब्धि- फिर भी उसकी उपलब्धिका
साधनमुच्यते— असाधारण साधन बतलाया जाता है—

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा
नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ।

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व-

स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ ८ ॥

[यह आत्मा] न नेत्रसे ग्रहण किया जाता है, न वाणीसे, न अन्य इन्द्रियोंसे और न तप अथवा कर्ममें ही । ज्ञानके प्रसादमें पुरुष विशुद्धचित्त हो जाता है और तभी वह ध्यान करनेपर उस निष्कल आत्मतत्त्वका साक्षात्कार करता है ॥ ८ ॥

यस्मान्न चक्षुषा गृह्यते केन- क्योंकि रूपहीन होनेके कारण
चिदप्यरूपत्वान्नापि गृह्यते यह आत्मा किसीसे भी नेत्रद्वारा
वाचानभिधेयत्वान्न चान्यैर्दे- अवाच्य होनेके कारण वाणीसे
वैगिरेन्द्रियैः । तपसः सर्व- गृहीत नहीं होता और न अन्य
प्राप्तिसाधनत्वेऽपि न तपसा सभीकी प्राप्ति साधन है; तथापि

गृह्यते । तथा वैदिकेनाग्निहोत्रादि-
कर्मणा प्रसिद्धमहत्त्वेनापि न
गृह्यते । किं पुनस्तस्य ग्रहणे
साधनमित्याह—

ज्ञानप्रसादेन । आत्मबोधन-
ममर्थमपि स्वभावेन सर्वप्राणिनां
ज्ञानं ब्राह्मविषयरागादिदोषकलु-
षितमप्रमन्नमशुद्धं सन्नावबोधयति
नित्यं संनिहितमप्यात्मतत्त्वं मला-
चनद्रमिवाददर्शनम्, विलुलितमिव
सलिलम् । तद्यदेन्द्रियविषयसंसर्ग-
जनितरागादिमलकालुष्यापनय-
नादादर्शसलिलादिवत्प्रसादितं
स्वच्छं शान्तमवतिष्ठते तदा
ज्ञानस्य प्रसादः स्यात् ।


तेन ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध-
सत्त्वो विशुद्धान्तःकरणो योग्यो
ब्रह्म द्रष्टुं यस्मात्ततस्तस्मात्तु तमा-
त्मानं पश्यते पश्यत्युपलभते

यह तपसे भी ग्रहण नहीं किया
जाता और न जिसका महत्त्व
सुप्रसिद्ध है उस अग्निहोत्रादि वैदिक
कर्मसे ही गृहीत होता है । तो फिर
उसके ग्रहण करनेमें क्या साधन
है ? इसपर कहते हैं—

ज्ञान (ज्ञानकी साधनभूता
बुद्धि) के प्रसादसे [उसका ग्रहण
हो सकता है] । सम्पूर्ण प्राणियोंका
ज्ञान स्वभावसे आत्मबोध करानेमें
समर्थ होनेपर भी, बाध विषयोंके
रागादि दोषसे कलुषित—अप्रसन्न
यानी अशुद्ध हो जानेके कारण
उस आत्मतत्त्वका, सर्वदा समीपस्थ
होनेपर भी, मलसे ढके हुए दर्पण
तथा चञ्चल जलके समान बोध
नहीं करा सकता । जिस समय
इन्द्रिय और विषयोंके संसर्गसे होने-
वाले रागादि दोषरूप मलके दूर
हो जानेपर दर्पण या जल आदिके
समान चित्त प्रसन्न—स्वच्छ अर्थात्
शान्तभावसे स्थित हो जाता है
उस समय ज्ञानका प्रसाद होता है ।

क्योंकि उस ज्ञानप्रसादसे
विशुद्धसत्त्व यानी शुद्धचित्त हुआ
पुरुष ब्रह्मका साक्षात्कार करने योग्य
होता है इसलिये तब वह ध्यान
करके अर्थात् सत्यादिसाधनसम्पन्न

<p>निष्कलं सर्वावयवभेदवर्जितं ध्यायमानः सत्यादिसाधन- वानुपसंहृतकरण एकाग्रेण मनसा ध्यायमानश्चिन्तयन् ॥ ८ ॥</p>	<p>होकर इन्द्रियोंका निरोध कर एकाग्रचित्तसे ध्यान—चिन्तन करता हुआ उस निष्कल यानी सम्पूर्ण अवयवभेदसे रहित आत्माको देखता—उपलब्ध करता है ॥८॥</p>
---	---



शरीरमें इन्द्रियरूपसे अनुप्रविष्ट हुए आत्माका

चित्तशुद्धिद्वारा साक्षात्कार

यमात्मानमेवं पश्यति—

जिस आत्माको साधक इस
प्रकार देखता है—

एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो

यस्मिन्प्राणः पञ्चधा संविवेश ।

प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां

यस्मिन्विशुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥ ९ ॥

वह सूक्ष्म आत्मा, जिस [शरीर] में पाँच प्रकारसे प्राण प्रविष्ट है उस शरीरके भीतर ही विशुद्ध विज्ञानद्वारा जानने योग्य है। उससे इन्द्रियोंद्वारा प्रजावर्गके सम्पूर्ण चित्त व्याप्त हैं, जिसके शुद्ध हो जानेपर यह आत्मस्वरूपसे प्रकाशित होने लगता है ॥ ९ ॥

एषोऽणुः सूक्ष्मश्चेतसा
विशुद्धज्ञानेन केवलेन वेदितव्यः।
कामाँ ? यस्मिन्शरीरे प्राणो
वायुः पञ्चधा प्राणापानादिभेदेन
संविवेश सम्यक्प्रविष्टस्तस्मिन्नेव
शरीरे हृदये चेतसा ज्ञेय
इत्यर्थः ।

वह अणु—सूक्ष्म आत्मा चित्त
यानी केवल विशुद्ध ज्ञानसे जानने
योग्य है। वह कहाँ जानने योग्य
है ? जिस शरीरमें प्राणवायु,
प्राण-अपान आदि भेदसे पाँच
प्रकारका होकर सम्यक् रीतिसे
प्रविष्ट हो रहा है उसी शरीरमें
हृदयके भीतर यह चित्तद्वारा जानने
योग्य है—ऐसा इसका तात्पर्य है।

कीदृशेन चेतसा वेदितव्य
इत्याह—प्राणैः सहन्द्रियैश्चित्तं
सर्वमन्तःकरणं प्रजानामोतं व्याप्तं
येन क्षीरमिव स्नेहेन काष्ठमिवा-
ग्निना । सर्वं हि प्रजानामन्तः-
करणं चेतनावत्प्रसिद्धं लोके ।
यस्मिंश्च चित्ते क्लेशादिमलवियुक्ते
शुद्धे विभवत्येष उक्त आत्मा
विशेषेण म्वनात्मना विभवत्या-
त्मानं प्रकाशयतीत्यर्थः ॥ ९ ॥

वह किस प्रकारके चित्त
(ज्ञान) से ज्ञातव्य है ? इसपर
कहते हैं—दूध जिस प्रकार घृतसे
और काष्ठ जिस प्रकार अग्निसे
व्याप्त है उसी प्रकार जिससे प्राण
यानी इन्द्रियोंके सहित प्रजाके
समस्त चित्त—अन्तःकरण व्याप्त
है, क्योंकि लोकमें प्रजाके सभी अन्तः-
करण चेतनायुक्त प्रसिद्ध है और जिस
चित्तके शुद्ध यानी क्लेशादि मलसे
वियुक्त होनेपर यह पूर्वोक्त आत्मा
अपने विशेषरूपसे प्रकट होता है
अर्थात् अपनेको प्रकाशित कर
देता है [उस विशुद्ध और विभु
विज्ञानसे ही उस आत्मतत्त्वका
अनुभव किया जा सकता है] ॥९॥

आत्मज्ञका वैभव और उसकी पूजाका विधान

य एवमुक्तलक्षणं सर्वात्मान-
मात्मन्वेन प्रतिपन्नस्तस्य सर्वात्म-
त्वादेव सर्वावाप्तिलक्षणं फलमाह—

इस प्रकार जो उपर्युक्त सर्वात्मा-
को आत्मस्वरूपसे जानता है उसका
सर्वात्मा होनेसे ही सर्वप्राप्तिरूप
फल व्रतव्याते हैं—

यं यं लोकं मनसा संविभाति

विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान् ।

तं तं लोकं जयते तांश्च कामां-

स्तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेद् भूतिकामः ॥१०॥

वह विशुद्धचित्त आत्मवेत्ता मनसे जिस-जिस लोककी भावना करता है और जिन-जिन भोगोंको चाहता है वह उसी-उसी लोक और उन्हीं-उन्हीं भोगोंको प्राप्त कर लेता है। इसलिये ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवाला पुरुष आत्मज्ञानीकी पूजा करे ॥ १० ॥

यं यं लोकं पित्रादिलक्षणं
मनसा संविभाति संकल्पयति
मह्यमन्यस्मै वा भवेदिति विशुद्ध-
सत्त्वः क्षीणक्लेश आत्मविन्निर्म-
लान्तःकरणः कामयते यांश्च
कामान्प्रार्थयते भोगांस्तं तं लोकं
जयते प्राप्नोति तांश्च कामान्सं-
कल्पितान्भोगान् । तस्माद्विदुषः
सत्यसंकल्पत्वादात्मज्ञान्मात्मज्ञा-
नेन विशुद्धान्तःकरणं ह्यर्चयेत्
पूजयेत्पादप्रक्षालनशुश्रूषानम-
स्कारादिभिर्भूतिकामो विभूति-
मिच्छुः । ततः पूजार्ह एवासां । १० ।

विशुद्धसत्त्व—जिसके क्लेश*
क्षीण हो गये हैं वह निर्मल-
चित्त आत्मवेत्ता जिस पितृलोक
आदि लोककी मनसे इच्छा करता
है अर्थात् ऐसा सङ्कल्प करता है
कि मुझे या किसी अन्यको अमुक
लोक प्राप्त हो अथवा वह जिन
कामना यानी भोगोंकी अभिलाषा
करता है उसी-उसी लोक तथा
अपने सङ्कल्प किये हुए उन्हीं-उन्हीं
भोगोंको वह प्राप्त कर लेता है ।
अतः ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवाला
पुरुष उस विशुद्धचित्त आत्म-
ज्ञानीका पाद-प्रक्षालन, शुश्रूषा एवं
नमस्कारादिद्वारा पूजन करे, क्योंकि
विद्वान् सत्यसङ्कल्प होता है । इस-
लिये (सत्यसङ्कल्प होनेके कारण)
वह पूजनीय ही है ॥ १० ॥

इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषद्भाष्ये तृतीयमुण्डके

प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥

* क्लेश मनोविकारोको कहा है। वे पाँच हैं; यथा—

अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः । (योग० २ । ३)

१ अविद्या, २ अस्मिता, ३ राग, ४ द्वेष और ५ अभिनिवेश—ये क्लेश हैं ।

द्वितीय खण्ड

आत्मवेत्ताकी पूजाका फल

यस्मात्—

क्योंकि—

स वेदैतत्परमं ब्रह्म धाम

यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् ।

उपासते पुरुषं ये ह्यकामा-

स्ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीराः ॥ १ ॥

वह (आत्मवेत्ता) इस परम आश्रयरूप ब्रह्मको, जिसमें यह समस्त जगत् अर्पित है और जो स्वयं शुद्धरूपसे भासमान हो रहा है, जानता है। जो निष्काम भावसे उस आत्मज्ञ पुरुषकी उपासना करते हैं वे बुद्धिमान् लोग शरीरके वीजभूत इस वीर्यका अतिक्रमण कर जाते हैं। [अर्थात् इसके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं] ॥ १ ॥

म वेद जानातीत्येतद्यथोक्त-
लक्षणं ब्रह्म परममुत्कृष्टं धाम सर्व-
कामानामाश्रयमास्पदं यत्र यस्मिन्
ब्रह्मणि धाम्नि विश्वं समस्तं
जगन्निहितमर्पितं यच्च स्वेन
ज्योतिषा भाति शुभ्रं शुद्धम् ।
तमप्येवमात्मज्ञं पुरुषं ये ह्यकामा
विभूतितृष्णावर्जिता मुमुक्षवः

वह (आत्मवेत्ता) सम्पूर्ण
कामनाओके परम यानी उत्कृष्ट
आश्रयभूत इस पूर्वोक्त लक्षणवाले
ब्रह्मको जानता है, जिस ब्रह्मपदमें
यह विश्व यानी सम्पूर्ण जगत्
निहित—समर्पित है और जो कि
अपने तेजसे—शुद्धरूपसे प्रकाशित
हो रहा है। उस इस प्रकारके आत्मज्ञ
पुरुषकी भी जो लोग निष्काम
अर्थात् ऐश्वर्यकी तृष्णासे रहित
होकर यानी मुमुक्षु होकर परमदेवके

सन्त उपासते परमिव सेवन्ते ते समान उपासना करते हैं वे
 शुक्रं नृबीजं यदेतत्प्रसिद्धं शरीरो- धीर—बुद्धिमान् पुरुष शुक्र यानी
 पादानकारणमतिवर्तन्त्यति- मनुष्यदेहके बीजका, जो कि शरीर-
 गच्छन्ति धीरा धीमन्तो न है, अतिक्रमण कर जाते हैं;
 पुनर्योनिं प्रमर्षन्ति “न पुनः अर्थात् फिर योनिमें प्रवेश नहीं
 क्वचिद्रतिं करोति” इति श्रुतेः । करते, जैसा कि “फिर कहीं प्रीति
 अतस्तं पूजयेदित्यभिप्रायः ॥१॥ । इस श्रुतिमें सिद्ध होता
 है । अतः तात्पर्य यह है कि उसका पूजन करना चाहिये ॥ १ ॥

निष्कामतासे पुनर्जन्मानिवाप्ति

मुमुक्षोः कामत्याग एव मुमुक्षुके लिये कामनाका त्याग
 ही प्रधान साधन है—इस बातको
 प्रधानं साधनमित्येतद्दर्शयति— दिखलाते हैं—

कामान्यः कामयते मन्यमानः

स कामभिर्जायते तत्र तत्र ।

पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्त्वि-

हैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥ २ ॥

[भोगोंके गुणोंका] चिन्तन करनेवाला जो पुरुष भोगोंकी इच्छा करता है वह उन कामनाओंके योगसे तहाँ-तहाँ (उनकी प्राप्तिके स्थानोंमें) उत्पन्न होता रहता है । परन्तु जिसकी कामनाएँ पूर्ण हो गयी है उस कृतकृत्य पुरुषकी तो सभी कामनाएँ इस लोकमें ही लीन हो जाती हैं ॥ २ ॥

कामान्यो दृष्टादृष्टेष्टविषयान् जो पुरुष काम अर्थात् दृष्ट
 कामयते मन्यमानस्तद्गुणांश्चि- और अदृष्ट अभीष्ट विषयोंकी, उनके
 गुणोंका मनन—चिन्तन करता

न्तयानः प्रार्थयते स तैः कामभिः । हुआ, कामना करता है वह उन कामनाओं अर्थात् धर्माधर्ममें प्रवृत्ति करानेके हेतुभूत विषयोंकी इच्छा-रूप वासनाओंके सहित वहीं-वहीं उत्पन्न होता है; अर्थात् जहाँ-जहाँ विषयप्राप्तिके लिये कामनाएँ पुरुष-को कर्ममें नियुक्त करती हैं वह वहीं-वहीं उन्हीं-उन्हीं प्रदेशोंमें उन कामनाओंमें ही परिवेष्टित हुआ जन्म ग्रहण करता है ।

कामैर्धर्माधर्मप्रवृत्तिहेतुभिर्विषय-
च्छारूपैः सह जायते तत्र तत्र ।
यत्र यत्र विषयप्राप्तिनिमित्तं
कामाः कर्मसु पुरुषं नियोजयन्ति
तत्र तत्र तेषु तेषु विषयेषु तैरेव
कामैर्वेष्टितो जायते ।

यस्तु परमार्थतत्त्वविज्ञानात्
पर्याप्तकाम आत्मकामत्वेन परि
ममन्तत आत्माः कामा यस्य
तस्य पर्याप्तकामस्य कृतात्मनो-
ऽविद्यालक्षणादपररूपादपनीय
स्वेन परेण रूपेण कृत आत्मा
विद्यया यस्य तस्य कृतात्मन-
स्त्विहैव तिष्ठत्येव शरीरे सर्वे
धर्माधर्मप्रवृत्तिहेतवः प्रविलीयन्ति
विलयमुपयान्ति नश्यन्तीत्य-
र्थः । कामास्तज्जन्महेतुविनाशान्न
जायन्त इत्यभिप्रायः ॥ २ ॥

परन्तु जो परमार्थतत्त्वके विज्ञान-से पूर्णकाम हो गया है, अर्थात् आत्मप्राप्तिकी इच्छावाला होनेके कारण जिसे सब ओरसे समस्त भोग प्राप्त हो चुके हैं उस पूर्णकाम कृतकृत्य पुरुषकी सभी कामनाएँ [लीन हो जाती हैं] अर्थात् जिसने विद्याद्वारा अपने आत्माको उसके अविद्यामय अपररूपमें हटाकर अपने पररूपमें स्थित कर दिया है उस कृतात्माके धर्माधर्मकी प्रवृत्तिके समस्त हेतु इस शरीरमें स्थित रहते हुए ही लीन अर्थात् नष्ट हो जाते हैं । अभि-प्राय यह है कि अपनी उत्पत्तिके हेतुका नाश हो जानेके कारण उसमें फिर कामनाएँ उत्पन्न नहीं होतीं ॥ २ ॥



आत्मदर्शनका प्रधान साधन—जिज्ञासा

यद्येवं सर्वलाभात्परम आत्म- । इस प्रकार यदि और सब
लाभस्तद्लाभाय प्रवचनादय । लाभोंकी अपेक्षा आत्मलाभ ही
उपाया बाहुल्येन कर्तव्या इति । प्रवचन आदि उपाय अधिकतासे
प्राप्त इदमुच्यते— । करने चाहिये—ऐसी बात प्राप्त
होनेपर यह कहा जाता है—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्य-

स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् ॥ ३ ॥

यह आत्मा न तो प्रवचन (पुष्कल शास्त्राध्ययन) से प्राप्त होने योग्य है और न मेधा (धारणाशक्ति) तथा अधिक श्रवण करनेसे ही मिलनेवाला है । यह (विद्वान्) जिस परमात्माकी प्राप्तिकी इच्छा करता है उस (इच्छा) के द्वारा ही इसकी प्राप्ति हो सकती है । उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूपको व्यक्त कर देता है ॥ ३ ॥

योऽयमात्मा व्याख्यातो । जिस इस आत्माकी व्याख्या
यस्य लाभः परः पुरुषार्थो नासौ । की गयी है, जिसका लाभ ही परम
वेदशास्त्राध्ययनबाहुल्येन प्रवच- । पुरुषार्थ है वह वेदशास्त्रके अधिक
नेन लभ्यः । तथा न मेधया । अध्ययनरूप प्रवचनसे प्राप्त होने
ग्रन्थार्थधारणशक्त्या । न बहुना । योग्य नहीं है । इसी प्रकार वह
श्रुतेन नापि भूयसा श्रवणे- । न मेधा—ग्रन्थके अर्थको धारण
नेत्यर्थः । । करनेकी शक्तिसे और न 'बहुना
श्रुतेन' यानी अधिक शास्त्रश्रवणसे
ही मिल सकता है ।

केन तर्हि लभ्य इत्यु-
च्यते—यमेव परमात्मानमेवैष
विद्वान्वृणुते प्राप्तुमिच्छति तेन
वरणेनैव परमात्मा लभ्यो नान्येन
साधनान्तरेण । नित्यलब्ध-
स्वभावत्वात् ।

कीदृशोऽसौ विदुष आत्म-
लाभ इत्युच्यते । तस्यैव आत्मा-
विद्यासञ्छन्नां स्वां परां तनुं
स्वात्मतत्त्वं स्वरूपं विवृणुते
प्रकाशयति प्रकाश इव घटादि-
र्विद्यायां सत्यामाविर्भवतीत्यर्थः ।
तस्मादन्यत्यागेनात्मलाभप्रार्थ-
नैवात्मलाभसाधनमित्यर्थः ॥३॥

तो फिर वह किस उपायसे
प्राप्त हो सकता है ? इसपर कहते
हैं—जिस परमात्माको यह विद्वान्
वरण करता अर्थात् प्राप्त करनेकी
इच्छा करता है उस वरण करनेके
द्वारा ही यह परमात्मा प्राप्त होने
योग्य है; नित्यप्राप्तस्वरूप होनेके
कारण किसी अन्य साधनसे प्राप्त
नहीं हो सकता ।

विद्वान्को होनेवाला यह आत्म-
लाभ कैसा होता है—इसपर कहते
हैं—यह आत्मा उसके प्रति अपने
अविद्याच्छन्न परस्वरूपको यानी
स्वात्मतत्त्वको प्रकाशित कर देता
है । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार
प्रकाशमें घटादिकी अभिव्यक्ति होती
है उसी प्रकार विद्याकी प्राप्ति होने-
पर आत्माका आविर्भाव हो जाता है ।
अतः तात्पर्य यह है कि अन्य
कामनाओंके त्यागद्वारा आत्मप्रार्थना
ही आत्मलाभका साधन है ॥ ३ ॥

आत्मदर्शनके अन्य साधन

आत्मप्रार्थनासहायभूतान्ये-
तानि च साधनानि बलाप्रमाद-
तपांसि लिङ्गयुक्तानि संन्यास-
सहितानि । यस्मात्—

लिङ्गयुक्त अर्थात् संन्यासके
सहित बल, अप्रमाद और तप—
ये सब साधन आत्मप्रार्थनाके
सहायक हैं । क्योंकि—

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो

न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात् ।

एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वां-

स्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥ ४ ॥

यह आत्मा बलहीन पुरुषको प्राप्त नहीं हो सकता और न प्रमाद अथवा लिङ्ग (संन्यास) रहित तपस्यासे ही [मित्र सकता है] । परन्तु जो विद्वान् इन उपायोंसे [उसे प्राप्त करनेके लिये] प्रयत्न करता है उसका यह आत्मा ब्रह्मधाममें प्रविष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥

यस्माद्यमात्मा बलहीनेन बलप्रहीणेनात्मनिष्ठाजनितवीर्य-हीनेन न लभ्यो नापि लौकिक-पुत्रपश्वादिविषयसङ्गनिमित्त-प्रमादात्, तथा तपसो वाप्य-लिङ्गाह्निङ्गरहितान् । तपो-ऽत्र ज्ञानम्; लिङ्गं संन्यासः । संन्यासरहिताज्ज्ञानान्न लभ्यत इत्यर्थः । एतैरुपायैर्बलाप्रमाद-संन्यासज्ञानैर्यतते तत्परः सन्प्र-यतते यस्तु विद्वान्विवेक्यात्म-वित्तस्य विदुष एष आत्मा विशते संप्रविशति ब्रह्मधाम ॥ ४ ॥

यह आत्मा बलहीन अर्थात् आत्मनिष्ठाजनित शक्तिसे रहित पुरुषद्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है: न लौकिक पुत्र एवं पशु आदि विषयोंकी आसक्तिके कारण होने-वाले प्रमादमें ही मित्र सकता है और न लिङ्गरहित तपस्यामें ही । यहाँ तप ज्ञान है और लिङ्ग संन्यास । तात्पर्य यह कि संन्यास-रहित ज्ञानमें प्राप्त नहीं होता । जो विद्वान् यानी विवेकी आत्मवेत्ता तत्पर होकर बल, अप्रमाद, संन्यास और ज्ञान—इन उपायोंसे [उसकी प्राप्तिके लिये] प्रयत्न करता है उस विद्वान्का यह आत्मा ब्रह्मधाममें सम्यक् रूपसे प्रविष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥



आत्मदर्शीकी ब्रह्मप्राप्तिका प्रकार

कथं ब्रह्म मंविशत इत्युच्यते— विद्वान् किस प्रकार ब्रह्ममें प्रविष्ट होता है सो बतलाया जाता है—

संप्राप्यैनमृषयो ज्ञानतृप्ताः

कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ।

ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा

युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति ॥ ५ ॥

इम आत्माको प्राप्त कर ऋषिगण ज्ञानतृप्त, कृतकृत्य, विरक्त और प्रशान्त हो जाते हैं । वे धीर पुरुष उस सर्वगत ब्रह्मको सब ओर प्राप्त कर [मरणकालमें] समाहितचित्त हो सर्वरूप ब्रह्ममें ही प्रवेश कर जाते हैं ॥ ५ ॥

संप्राप्य ममवगम्येनमात्मानमृषयो दर्शनवन्तस्तेनैव ज्ञानेन तृप्ता न बाह्येन तृप्तिसाधनेन शरीरोपचयकारणेन कृतात्मानः परमात्मस्वरूपेणैव निष्पन्नात्मानः सन्तो वीतरागाः वीतरागादिदोषाः प्रशान्ता उपरतेन्द्रियाः ।

इस आत्माको सम्यक् प्रकारसे प्राप्त कर—जानकर ऋषि अर्थात् आत्मदर्शनवान् लोग, शरीरको पुष्ट करनेवाले किसी बाह्य तृप्तिसाधनसे नहीं बल्कि उस ज्ञानसे ही तृप्त हो कृतात्मा—जिनका आत्मा परमात्मस्वरूपसे ही निष्पन्न हो गया है ऐसे होकर तथा वीतराग—रागादि दोषोंसे रहित और प्रशान्त यानी उपरतेन्द्रिय हो जाते हैं ।

त एवंब्रूताः सर्वगं सर्वव्यापिनमाकाशवत्सर्वतः सर्वत्र प्राप्य—नोपाधिपरिच्छिन्नेनैकदेशेन,

ऐसे भावको प्राप्त हुए वे लोग सर्वग—आकाशके समान सर्वव्यापक ब्रह्मको, उपाधिपरिच्छिन्न एक देशमें नहीं, बल्कि सर्वत्र

किं तर्हि ? तद्ब्रह्मैवाद्वयमात्मत्वेन
प्रतिपद्य धीरा अत्यन्तविवेकिनो
युक्तात्मानो नित्यसमाहित-
स्वभावाः सर्वमेव समस्तं शरीर-
पातकालेऽप्याविशन्ति भिन्ने घटे
घटाकाशवदविद्याकृतोपाधिपरि-
च्छेदं जहति । एवं ब्रह्मविदो
ब्रह्मधाम प्रविशन्ति ॥ ५ ॥

प्राप्त कर—फिर क्या होता है ?
उस अद्वयब्रह्मका ही आत्मभावसे
अनुभव कर, वे धीर यानी अत्यन्त
विवेकी और युक्तात्मा—नित्य
समाहितस्वभाव पुरुष शरीरपातके
समय भी सर्वरूप ब्रह्ममें ही प्रवेश
कर जाते हैं; अर्थात् घटके फूट
जानेपर घटाकाशके समान वे अपने
अविद्याजनित परिच्छेदका परित्याग
कर देते हैं । इस प्रकार वे ब्रह्मवंता
ब्रह्मधाममें प्रवेश करते हैं ॥ ५ ॥



ज्ञातज्ञेयकी मोक्षप्राप्ति

किं च—

तथा—

वेदान्तविज्ञानमुनिश्रितार्थाः

संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ।

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले

परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ ६ ॥

जिन्होंने वेदान्तजनित विज्ञानसे ज्ञेय अर्थका अच्छी तरह निश्चय
कर लिया है वे संन्यासयोगसे यत्न करनेवाले समस्त शुद्धचिन्त पुरुष
ब्रह्मलोकमें देहत्याग करते समय परम अमरभावको प्राप्त हो सब ओरसे
मुक्त हो जाते हैं ॥ ६ ॥

वेदान्तजनितविज्ञानं वेदा-
न्तविज्ञानं तस्यार्थः परमात्मा

वेदान्तसे उत्पन्न होनेवाला
विज्ञान वेदान्तविज्ञान कहलाता है ।
उसका अर्थ यानी विज्ञेय परमात्मा

विज्ञेयः सोऽर्थः सुनिश्चितो येषां
 ते वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः ।
 ते च संन्यासयोगात्सर्वकर्मपरि-
 न्यागलक्षणयोगात्केवलब्रह्मनिष्ठा-
 स्वरूपाद्योगाद्यतयो यतनशीलाः
 शुद्धसत्त्वाः शुद्धं सत्त्वं येषां
 संन्यासयोगात्ते शुद्धसत्त्वाः । ते
 ब्रह्मलोकेषु—संसारिणां ये मरण-
 कालास्तेऽपरान्तास्तानपेक्ष्य मुमु-
 क्षूणां संसागवसाने देहपरित्याग-
 कालः परान्तकालस्तस्मिन्परा-
 न्तकाले साधकानां बहुत्वाद् ब्रह्मैव
 लोको ब्रह्मलोक एकोऽप्यनेकवद्
 दृश्यते प्राप्यते वा, अतो बहुवचनं
 ब्रह्मलोकेष्विति ब्रह्मणीत्यर्थः—
 परामृताः परममृतममरणधर्मकं
 ब्रह्मात्मभूतं येषां ते परा-
 मृता जीवन्त एव ब्रह्मभूताः
 परामृताः सन्तः परिमुच्यन्ति परि
 समन्तात्प्रदीपनिर्वाणवद् घटा-

है । वह अर्थ जिन्हें अच्छी तरह
 निश्चित हो गया है वे 'वेदान्त-
 विज्ञानसुनिश्चितार्थ' कहलाते हैं ।
 वे संन्यासयोगसे—सर्वकर्मपरित्याग-
 रूप योगसे अर्थात् केवल ब्रह्मनिष्ठा-
 स्वरूप योगसे यत्न करनेवाले और
 शुद्धसत्त्व—संन्यासयोगसे जिनका
 सत्त्व (चित्त) शुद्ध हो गया है ऐसे वे
 शुद्धचित्त पुरुष ब्रह्मलोकमें परामृत—
 परम अमृत यानी अमरणधर्मा ब्रह्म
 ही जिनका आत्मस्वरूप है ऐसे
 जीवित अवस्थामें ही परामृत यानी
 ब्रह्मभूत होकर दीपनिर्वाण अथवा
 [घटके फूटनेपर] घटाकाशके समान
 परिमुक्त यानी निवृत्तिको प्राप्त हो
 जाते हैं । वे सब परि अर्थात्
 सब ओरसे मुक्त हो जाते हैं ।
 किसी अन्य गन्तव्य देशान्तरकी
 अपेक्षा नहीं करते । संसारी पुरुषों-
 के जो अन्तकाल होते हैं वे
 'अपरान्तकाल' हैं उनकी अपेक्षा
 मुमुक्षुओंके संसारका अन्त हो
 जानेपर उनका जो देहपरित्याग-
 का समय है वह 'परान्तकाल' है ।
 उस परान्तकालमें वे ब्रह्मलोकमें—
 बहुत-से साधक होनेके कारण यहाँ

काशवच्च निवृत्तिमुपयान्ति ।
परिमुच्यन्ति परि समन्तान्मुच्यन्ते
सर्वे न देशान्तरं गन्तव्य-
मपेक्षन्ते ।

“शकुनीनामिवाकाशे जले
वारिचरस्य च । पदं यथा न
दृश्येत तथा ज्ञानवतां गतिः”
(महा० शा० २३९ । २४) ।

“अनध्वगा अध्वसु पारयिष्णवः”
इति श्रुतिस्मृतिभ्यः ।

देशपरिच्छिन्ना हि गतिः संसार-
विषयैव, परिच्छिन्नमाधनमाध्य-
त्वात् । ब्रह्म तु समस्तत्वान्न देश-
परिच्छेदेन गन्तव्यम् । यदि हि
देशपरिच्छिन्नं ब्रह्म स्यान्मूर्तद्रव्य-
वदाद्यन्तवदन्याश्रितं सावयव-
मनित्यं कृतकं च स्यात् । न
त्वेवंविधं ब्रह्म भवितुमर्हति ।
अतन्तप्राप्तिश्च नैव देशपरिच्छिन्ना
भवितुं युक्ता । अपि चाविद्यादि-

ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मस्वरूप लोक एक
होनेपर भी अनेकवत् देखा और प्राप्त
किया जाता है । इसीलिये ‘ब्रह्मलोकेषु’
इस पदमें बहुवचनका प्रयोग हुआ है,
अतः ‘ब्रह्मलोकेषु’ का अर्थ है ब्रह्ममे ।

“जिस प्रकार आकाशमें पक्षियोंके
और जलमें जलचर जीवके पैर (चरण-
चिह्न) दिखायी नहीं देते उसी प्रकार
ज्ञानियोंकी गति नहीं जानी जाती”
“[मुमुक्षु लोग] संसारमार्गसे पार
होनेकी इच्छासे अनध्वग (संसार-
मार्गमें विचरण न करनेवाले) होते
हैं ।” इत्यादि श्रुति-स्मृतियोंमें भी
यही प्रमाणित होता है ।

परिच्छिन्न साधनसे साध्य
होनेके कारण संसारसम्बन्धिनी
गति देशपरिच्छिन्ना ही होती है ।
किन्तु ब्रह्म सर्वरूप होनेके कारण
किसी देशपरिच्छेदसे प्राप्तव्य नहीं
है । यदि ब्रह्म देशपरिच्छिन्न हो तो
मूर्तद्रव्यके समान आदि-अन्तवान्,
पराश्रित, सावयव, अनित्य और
कृतक सिद्ध हो जायगा । किन्तु
ब्रह्म ऐसा हो नहीं सकता । अतः
उसकी प्राप्ति भी देशपरिच्छिन्ना
नहीं हो सकती; इसके सिवा
ब्रह्मवेत्ता लोग अविद्यादि-संसार-

संसारबन्धापनयनमेव मोक्षम् । वन्वनकी निवृत्तिरूप मोक्षकी ही
इच्छन्ति ब्रह्माविदो न तु कार्य- इच्छा करते हैं, किसी कार्यभूत
भूतम् ॥ ६ ॥ पदार्थकी नहीं ॥ ६ ॥

मोक्षका स्वरूप

किं च मोक्षकाले—

तथा मोक्षकालमें—

गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा

देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु ।

कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा

परेऽव्यये सर्वे एकीभवन्ति ॥७॥

[प्राणादि] पन्द्रह कलाएँ (देहारम्भक तत्त्व) अपने आश्रयोंमें स्थित हो जाती हैं, [चक्षु आदि इन्द्रियोंके अधिष्ठाता] समस्त देवगण अपने प्रतिदेवता [आदित्यादि] में लीन हो जाते हैं तथा उसके [सञ्चितादि] कर्म और विज्ञानमय आत्मा आदि सब-के-सब पर अव्यय देवमें एकीभावको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ७ ॥

या देहारम्भिकाः कलाः जो देहकी आरम्भ करनेवाली प्राणाद्यास्ताः स्वां स्वां प्रतिष्ठां प्राणादि कलाएँ हैं वे अपनी प्रतिष्ठा-
गताः स्वं स्वं कारणं गता को पहुँचती अर्थात् अपने-अपने
भवन्तीत्यर्थः । प्रतिष्ठा इति कारणको प्राप्त हो जाती हैं । [इस
द्वितीयावबहुवचनम् । पञ्चदश मन्त्रमें] 'प्रतिष्ठाः' यह द्वितीया
पञ्चदशमंख्याका या अन्त्यप्रश्न- विभक्तिका बहुवचन है । पन्द्रह
परिपठिताः प्रसिद्धा देवाश्च देहा- प्रसिद्ध कलाएँ जो [प्रश्नोपनिषद्-
श्रयाश्चक्षुरादिकरणस्थाः सर्वे के] अन्तिम (पष्ठ) प्रश्नमें पढ़ी
प्रतिदेवतास्वादित्यादिषु गता गयी हैं तथा देहके आश्रित चक्षु आदि
भवन्तीत्यर्थः । इन्द्रियोंमें स्थित समस्त देवता अपने
प्रतिदेवता आदित्यादिमें लीन हो जाते हैं—ऐसा इसका तात्पर्य है ।

यानि च मुमुक्षुणा कृतानि
 कर्माण्यप्रवृत्तफलानि प्रवृत्तफला-
 नासुपभोगेनैव क्षीयमाणत्वाद्वि-
 ज्ञानमयश्चात्माविद्याकृतबुद्ध्या-
 द्युपाधिमात्मत्वेन मत्वा जलादिषु
 सूर्यादिप्रतिबिम्बवदिह प्रविष्टो
 देहभेदेषु, कर्मणां तत्फलार्थत्वात्,
 सह तेनैव विज्ञानमयेनात्मना,
 अतो विज्ञानमयो विज्ञानप्रायः;
 त एते कर्माणि विज्ञानमयश्च
 आत्मोपाध्यपनये सति परेऽव्यये-
 ऽनन्तेऽक्षये ब्रह्मण्याकाशकल्पेऽ-
 जेऽजरेऽमृतेऽभयेऽपूर्वेऽनपरेऽनन्त-
 रेऽबाह्येऽद्वये शिवे शान्ते सर्व
 एकीभवन्त्यविशेषतां गच्छन्ति
 एकत्वमापद्यन्ते जलाद्याधारा-
 पनय इव सूर्यादिप्रतिबिम्बाः
 सूर्ये घटाद्यपनय इवाकाशे घटा-
 द्याकाशाः ॥ ७ ॥

तथा मुमुक्षुके किये हुए
 अप्रवृत्तफल कर्म—क्योंकि जो कर्म
 फलोन्मुख हो जाते हैं वे उपभोगसे
 ही क्षीण होते हैं—और विज्ञानमय
 आत्मा, जो अविद्याजनित बुद्धि
 आदि उपाधिको आत्मभावसे मानकर
 जलादिमें सूर्यादिके प्रतिबिम्बके
 समान यहाँ देहभेदोंमें प्रविष्ट हो
 रहा है, उस विज्ञानमय आत्माके
 सहित [परब्रह्ममें लीन हो जाते
 हैं], क्योंकि कर्म उस विज्ञानमय
 आत्माको ही फल देनेवाले है ।
 अतः विज्ञानमयका अर्थ विज्ञानप्राय
 है । ऐसे वे [सञ्चितादि]
 कर्म और विज्ञानमय आत्मा सभी,
 उपाधिके निवृत्त हो जानेपर
 आकाशके समान, पर, अव्यय,
 अनन्त, अक्षय, अज, अजर, अमृत,
 अभय, अपूर्व, अनन्य, अनन्तर,
 अबाह्य, अद्वय, शिव और शान्त
 ब्रह्ममें एकरूप हो जाते हैं—
 अविशेषता अर्थात् एकताको प्राप्त
 हो जाते हैं, जिस प्रकार कि
 जल आदि आधारके हटा लिये
 जानेपर सूर्य आदिके प्रतिबिम्ब
 सूर्यमें तथा घटादिके निवृत्त होनेपर
 घटाकाशादि महाकाशमें मिल
 जाते हैं ॥ ७ ॥



ब्रह्मप्राप्तिमें नदी आदिका दृष्टान्त

किं च—

तथा—

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे-

ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।


तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः

परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ ८ ॥

जिस प्रकार निरन्तर बहती हुई नदियाँ अपने नाम-रूपको त्यागकर समुद्रमें अस्त हो जाती हैं उसी प्रकार विद्वान् नाम-रूपसे मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुषको प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥

यथा नद्यो गङ्गाद्याः स्यन्द-
माना गच्छन्त्यः समुद्रे समुद्रं
प्राप्यास्तमदर्शनमविशेषात्मभावं
गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति नाम च
रूपं च नामरूपे विहाय हित्वा
तथाविद्याकृतनामरूपाद्विमुक्तः
सन्विद्वान्परादक्षरात्पूर्वोक्तात्परं
दिव्यं पुरुषं यथोक्तलक्षणमुपैति
उपगच्छति ॥ ८ ॥

जिस प्रकार बहकर जाती हुई
गङ्गा आदि नदियाँ समुद्रमें पहुँचने-
पर अपने नाम और रूपको त्यागकर
अस्त—अदर्शन यानी अविशेष
भावको प्राप्त हो जाती हैं उसी प्रकार
विद्वान् अविद्याकृत नाम-रूपसे
मुक्त हो पूर्वोक्त अक्षर (अव्याकृत)
में भी पर उपर्युक्त लक्षणविशिष्ट
पुरुषको प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥



ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही है

ननु श्रेयस्यनेके विघ्नाः
प्रसिद्धा अतः क्लेशानामन्यतमे-
नान्येन वा देवादिना च विघ्नितो

शङ्का—कल्याणपथमें अनेकों
विघ्न आया करते हैं—यह प्रसिद्ध
है । अतः क्लेशोंमेंसे किसी-न-किसी-
के द्वारा अथवा किसी देवादिद्वारा

ब्रह्मविदप्यन्यां गतिं मृतो
गच्छति न ब्रह्मैव ।

न; विद्ययैव सर्वप्रतिबन्धस्या-
पनीतत्वात् । अविद्याप्रतिबन्ध-
मात्रो हि मोक्षो नान्यप्रति-
बन्धः, नित्यत्वादात्मभूतत्वाच्च ।
तस्मात्—

विघ्न उपस्थित कर दिये जानेसे
ब्रह्मवेत्ता भी मरनेपर किसी दूसरी
गतिको प्राप्त हो जायगा—ब्रह्मको
ही प्राप्त न होगा ।

समाधान—नहीं, विद्यासे ही
समस्त प्रतिबन्धोंके निवृत्त हो
जानेके कारण [ऐसा नहीं होगा] ।
मोक्ष केवल अविद्यारूप प्रतिबन्ध-
वाला ही है, और किसी प्रतिबन्ध-
वाला नहीं है, क्योंकि वह नित्य
और सबका आत्मस्वरूप है ।
इसलिये—

स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्या-
ब्रह्मवित्कुले भवति । तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहा-
ग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति ॥ ६ ॥

जो कोई उस परब्रह्मको जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता
है । उसके कुलमें कोई अब्रह्मवित् नहीं होता । वह शोकको तर जाता
है, पापको पार कर लेता है और हृदयग्रन्थियोंमें विमुक्त होकर अमरत्व
प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥

स यः कश्चिद् वै लोके तत्परमं
ब्रह्म वेद साक्षादहमेवास्मीति स
नान्यां गतिं गच्छति । देवैरपि
तस्य ब्रह्मप्राप्तिं प्रति विघ्नो न
शक्यते कर्तुम् । आत्मा ह्येषां स

इस लोकमें जो कोई उस
परब्रह्मको जान लेता है—‘वह
साक्षात् मैं ही हूँ’ ऐसा समझ लेता
है, वह किसी अन्य गतिको प्राप्त
नहीं होता । उसकी ब्रह्मप्राप्तिमें
देवतालोग भी विघ्न उपस्थित नहीं
कर सकते, क्योंकि वह तो उनका

भवति । तस्माद्ब्रह्मविद्वान्ब्रह्मैव
भवति ।

किं च नास्य विदुषोऽब्रह्म-
वित्कुले भवति । किं च तरति
शोकमनेकेष्टवैकल्यनिमित्तं मानसं
सन्तापं जीवन्नेवातिक्रान्तो
भवति । तरति पाप्मानं धर्मा-
धर्माख्यम् । गुहाग्रन्थिभ्यो हृदया-
विद्याग्रन्थिभ्यो विमुक्तः सन्नमृतो
भवतीत्युक्तमेव भिद्यते हृदय-
ग्रन्थिरित्यादि ॥ ९ ॥

आत्मा ही हो जाता है । अतः ब्रह्मको
जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है ।

तथा इस विद्वान्के कुलमें कोई
अब्रह्मविद् नहीं होता और यह
शोकको तर जाता है अर्थात्
अनेकों इष्ट वस्तुओंके वियोगजनित
सन्तापको जीवित रहते हुए ही
पार कर लेता है तथा धर्माधर्मसंज्ञक
पापसे भी परे हो जाता है । फिर
हृदयग्रन्थियोंसे विमुक्त हो अमृत हो
जाता है, जैसा कि 'भिद्यते हृदय-
ग्रन्थिः' इत्यादि मन्त्रोंमें कहा
ही है ॥ ९ ॥

विद्याप्रदानकी विधि

अथेदानीं ब्रह्मविद्यासम्प्रदान-
विध्युपप्रदर्शनेनोपसंहारः क्रियते ।

तदनन्तर अत्र ब्रह्मविद्याप्रदान-
की विधिका प्रदर्शन करते हुए
[इस ग्रन्थका] उपसंहार किया
जाता है—

तदेतदृचाभ्युक्तम्—

क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः

स्वयं जुह्वत एकर्षिं श्रद्धयन्तः ।

तेषामेवैषां ब्रह्मविद्यां वदेत

शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम् ॥ १० ॥

यही बात [आगेकी] ऋचाने भी कही है—जो अधिकारी क्रियावान् श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ और स्वयं श्रद्धापूर्वक एकर्षि नामक अग्निमें हवन करनेवाले हैं तथा जिन्होंने विधिपूर्वक शिरोव्रतका अनुष्ठान किया है उन्हींसे यह ब्रह्मविद्या कहनी चाहिये ॥ १० ॥

तदेतद्विद्यासम्प्रदानविधान-
मृचा मन्त्रेणाभ्युक्तमभिप्रका-
शितम्—

क्रियावन्तो यथोक्तकर्मा-
नुष्ठानयुक्ताः, श्रोत्रिया ब्रह्म-
निष्ठा अपरस्मिन्ब्रह्मण्यभियुक्ताः
परब्रह्मबुभुत्सवः स्वयमेकर्षि-
नामानमग्निं जुह्वते जुह्वति श्रद्ध-
यन्तः श्रद्धाणाः मन्तो ये तेषाम्
एव संस्कृतात्मनां पात्रभूतानाम्
एतां ब्रह्मविद्यां वेदेत ब्रह्मान
शिरोव्रतं शिरस्यभिधारणलक्षणम्,
यथार्थवर्णानां वेदव्रतं प्रसिद्धम्,
यैस्तु यैश्च तच्चीर्णं विधिवद्यथा-
विधानं तेषामेव च ॥ १० ॥

यह विद्यासम्प्रदानकी विधि
[आगेकी] ऋचा यानी मन्त्रने भी
प्रकाशित की है—

जो क्रियावान्—जैसा ऊपर
बतलाया गया है वैसे कर्मानुष्ठानमें
लगे हुए, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ
यानी अपरब्रह्ममें लगे हुए और
परब्रह्मको जाननेके इच्छुक तथा
स्वयं श्रद्धायुक्त होकर एकर्षि नामक
अग्निमें हवन करनेवाले हैं उन्हीं
शुद्धचित्त एवं ब्रह्मविद्याके पात्रभूत
अधिकारियोंको यह ब्रह्मविद्या
बतलानी चाहिये, जिन्होंने कि
शिरोपर अग्नि धारण करनारूप
शिरोव्रतका—जैसा कि अर्ध-
वेदियोंका वेदव्रत प्रसिद्ध है—
विधिवत्—शास्त्रोक्त विधिके
अनुसार अनुष्ठान किया है, उन्हींमें
यह विद्या कहनी चाहिये ॥ १० ॥



उपसंहार

तदेतत्सत्यमृषिरङ्गिराः पुरोवाच नैतदचीर्णव्रतो-

ऽधीते । नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥११॥

उस इस सत्यका पूर्वकालमें अङ्गिरा ऋषिने [शौनकजीको] उपदेश किया था । जिसने शिरोव्रतका अनुष्ठान नहीं किया वह इसका अध्ययन नहीं कर सकता । परमर्षियोंको नमस्कार है, परमर्षियोंको नमस्कार है ॥ ११ ॥

तदेतदक्षरं पुरुषं मन्यमृषि- उस इस अक्षर पुरुष सत्यको
रङ्गिरा नाम पुरा पूर्वं शौनकाय अपने समीप विधिपूर्वक आये हुए
विधिवदुपसन्नाय पृष्टवत उवाच । उनके समान अन्य किसी गुरुको
तद्वदन्योऽपि तथैव श्रेयांऽर्थिने पूर्वक आये हुए कल्याणकामी
मुमुक्षु पुरुषको उसके मोक्षके लिये
मुमुक्षवे मोक्षार्थं विधिवदुपसन्नाय इसका उपदेश करना चाहिये—
यह इसका तात्पर्य है । इस ग्रन्थरूप
ब्रूयादित्यर्थः । नैतद्ग्रन्थरूपम् उपदेशका अचीर्णव्रत पुरुष—
जिसने कि शिरोव्रतका आचरण न
अचीर्णव्रतोऽचरितव्रतोऽप्यधीते किया हो—अध्ययन नहीं कर
सकता, क्योंकि जिसने उस व्रतका
न पठति । चीर्णव्रतस्य हि विद्या आचरण किया होता है उसीकी
विद्या संस्कारसम्पन्न होकर फलवती
फलाय संस्कृता भवतीति । होती है ।


समाप्ता ब्रह्मविद्या, सा येभ्यो
 ब्रह्मादिभ्यः पारम्पर्यक्रमेण
 संग्राप्ता तेभ्यो नमः परमऋषिभ्यः
 परमं ब्रह्म साक्षाद्दृष्टवन्तो ये
 ब्रह्मादयोऽवगतवन्तश्च ते पर-
 मर्षयस्तेभ्यो भूयोऽपि नमः ।
 दिवंचनमत्यादरार्थं मुण्डकसमा-
 प्त्यर्थं च ॥ ११ ॥

यहाँ ब्रह्मविद्या समाप्त हुई ।
 वह जिन ब्रह्मा आदिसे परम्परा-
 क्रमसे प्राप्त हुई है उन परमर्षियोंको
 नमस्कार है । जिन्होंने परब्रह्मका
 साक्षात् दर्शन किया है और उसका
 बोध प्राप्त किया है वे ब्रह्मा आदि परम
 ऋषि हैं; उन्हें फिर भी नमस्कार
 है । यहाँ 'नमः परमऋषिभ्यो
 नमः परमऋषिभ्यः' यह द्विरुक्ति
 ऋषियोंके अधिक आदर और
 मुण्डककी समाप्तिके लिये है ॥ ११ ॥




इत्यथवेदीयमुण्डकोपनिषद्भाष्ये तृतीयमुण्डके

द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥




समाप्तमिदं तृतीयं मुण्डकम्



इति श्रीमद्भोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य

श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतात्रायवर्णमुण्डकोपनिषद्भाष्यं समाप्तम् ॥





शान्तिपाठः

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाꣳसस्तनूभि-
र्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्योऽरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!



श्रीहरिः

मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका



मन्त्रप्रतीकानि	मुं०	ख०	मं०	पृ०
अग्निर्मूर्धा चक्षुषी	०	१	१	५०
अतः समुद्रा गिरयश्च	०	१	१	५१
अथर्वणे यां प्रवदेत	१	१	०	७
अरा इव रथनाभौ	०	०	६	७०
अविद्यायामन्तरे	१	२	१	३४
अविद्यायां बहुधा	१	०	०	३५
आविः संनिहितम्	०	०	१	६०
दृष्टापूर्तं मन्यमानाः	१	०	१०	३५
ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः	१	१	१	५
एतस्माज्जायते प्राणः	०	१	३	५०
एतेषु यश्चरते	१	०	५	३०
एषोऽणुरान्मा चेतसा	३	१	०	१००
एह्येहीति तमाहुतयः	१	०	६	३१
कामान्यः कामयते	३	०	०	१०४
क्रियावन्तः श्रोत्रियाः	३	०	१०	११७
कार्त्वी कराली च	१	०	४	११
मताः कलाः पञ्चदश	३	०	७	११३
तत्रापरा ऋग्वेदः	१	१	१	१०
तदेतत्सत्यमृषिः	३	०	११	१११
तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु	१	०	१	०४
तदेतत्सत्यं यथा	०	१	१	४४

मन्त्रप्रतीकानि	म०	खं०	८०	पृ०
तपसा चीयते ब्रह्म	१	१	८	१९
तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्ति	१	१	११	३६
तस्माच्च देवा बहुधा	८	१	७	८६
तस्मादग्निः समिधः	८	१	५	८४
तस्मादन्नः साम यजूषि	८	१	६	८५
तस्मै स विद्वानुपसन्नाय	१	२	१३	१०
तस्मै स होवाच	१	१	४	११
दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः	८	१	८	४६
द्रा सुपर्णा मयुजा	३	१	१	८३
धनुर्ग्रहीत्वोपनिषदम्	८	८	३	६६
न चक्षुषा गृह्यते	३	१	८	१८
न तत्र सूर्यो भाति	-	-	१०	७८
नायमान्मा प्रवचनेन	३	८	३	१०६
नायमान्मा बलहानिन	३	८	४	१०८
परीश्य लोकान्कर्माचिदान	१	८	१०	३९
पुरुष एवेद विश्वम्	१	१	१०	६०
पृथा ह्येते अदृढा	१	२	७	३०
प्रणवो धनुः शरः	-	८	४	६७
प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैः	३	१	४	८८
बृहच्च तद्रिच्यम्	३	१	७	१६
ब्रह्मवेदममृतम्	८	८	११	८०
भियते हृदयग्रन्थिः	८	२	८	७५
यत्तदद्रेश्यमप्राद्यम्	१	१	६	१५
यथा नद्यः स्यन्दमानाः	३	२	८	१५
यथोर्णनाभिः सुजते	१	१	७	१८
यदूर्ध्वमद्यदणुभ्यः	२	२	२	६४
यदा पश्यः पश्यते	३	१	३	८७

(३)

मन्त्रप्रतीकानि	मुं०	खं०	मं०	पृ०
यदा लेलायते ह्यर्चिः	१	२	२	२६
यं यं लोकं मनसा	३	१	१०	१०१
यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य	१	१	९	२१
” ”	२	२	७	७२
यस्मिन्धौः पृथिवी	२	२	५	६९
यस्याग्निहोत्रमदर्शम्	१	२	३	२७
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः	३	२	६	११०
शौनको ह वै महाशालः	१	१	३	८
सत्यमेव जयति	३	१	६	९४
सत्येन लभ्यस्तपसा	३	१	५	९२
सप्त प्राणाः प्रभवन्ति	२	१	८	५७
समाने वृक्षे पुरुषः	३	१	२	८५
स यो ह वै तत्परमम्	३	२	९	११६
स वेदैतत्परमम्	३	२	१	१०३
संप्राप्यैनमृषयः	३	२	५	१०९
हिरण्यमे परे कोशे	२	२	९	७६

